



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 16—मई 22, 2009 (वैशाख 26, 1931)

No. 20]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16—MAY 22, 2009 (VAISAKHA 26, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .....	463	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	451	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	71	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	1669
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	939	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .....	*
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .....	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....	2571
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस ....	159
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण .....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .....	*		

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	403	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	451	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	71	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	939	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	1669
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	2571
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	159
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2009

सं. 40-प्रेज/2009--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2009 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री नंदूरी साम्बसिव राव

पुलिस आयुक्त

विशाखापट्टनम

आन्ध्र प्रदेश

डॉ. मन्नम मालाकान्डय्या

पुलिस महानिरीक्षक

पुलिस परिवहन संगठन, पेटलाबुर्ज,

हैदराबाद

आन्ध्र प्रदेश

श्री कतेरिशेट्टी सत्यनारायण राव

उप पुलिस महानिरीक्षक सी.आई.डी.,

हैदराबाद

आन्ध्र प्रदेश

श्री पल्ली रामा राव

अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध)

विशाखापट्टनम

आन्ध्र प्रदेश

श्री दीपक मिश्रा

पुलिस महानिरीक्षक

इटानगर

अरुणाचल प्रदेश

श्री राजेन्द्र कुमार

पुलिस महानिरीक्षक

ए. पी. मुख्यालय, उलुबाड़ी, गुवाहाटी

असम

श्री रेवती चरण पटेल

पुलिस महानिरीक्षक

ए जे के, पुलिस मुख्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़

श्री अमूल्य कुमार पटनायक

संयुक्त पुलिस आयुक्त

पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री अजय कश्यप

संयुक्त पुलिस आयुक्त

पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री लक्ष्मी नारायण राव

सहायक पुलिस आयुक्त

विशेष सैल

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री किशन कुमार

पुलिस महानिरीक्षक

पुलिस मुख्यालय, पणजी

गोवा

श्री राकेश अस्थाना

पुलिस आयुक्त

वडोदरा शहर

गुजरात

श्री रंजीतसिंह बी. राणा

पुलिस उपाधीक्षक

सरखेज संभाग, अहमदाबाद

गुजरात

श्री लेख राज

उप-निरीक्षक

एस वी बी पंचकुला

हरियाणा

श्री रेशन लाल वाशष्ट  
पुलिस उपाधीक्षक  
शिमला,  
हिमाचल प्रदेश

श्री राम लुभाया  
पुलिस महानिरीक्षक  
कार्मिक/प्रशिक्षण  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री नरेश प्रसाद सिंह  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
दक्षिण छोटानागपुर रेंज, रांची  
झारखंड

श्री प्रेम शंकर मीणा  
पुलिस महानिरीक्षक एवं कार्यकारी निदेशक  
कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम,  
बंगलूरु  
कर्नाटक

श्री एम. एन. रेड्डी  
पुलिस महानिरीक्षक  
सी ओ डी, कार्लटोन हाउस, बंगलूरु  
कर्नाटक

श्री एम. जी. नागेन्द्र कुमार  
पुलिस उपाधीक्षक  
आसूचना, बंगलूरु  
कर्नाटक

श्री टी पी सेनकुमार  
पुलिस महानिरीक्षक तथा  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के एस आर टी सी  
तिरुवनंतपुरम,  
केरल

श्री एस. गोपांनाथ  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
आसूचना, एम बी सी आई डी, तिरुवनंतपुरम  
केरल

श्री संजय चौधरी  
पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक  
खेल कूद एवं युवा कल्याण, भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री सुखराज सिंह  
पुलिस महानिरीक्षक  
पुलिस मुख्यालय, भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री सुबोध कुमार जयस्वाल  
अपर पुलिस आयुक्त  
विशेष व्यूरी, मुम्बई  
महाराष्ट्र

श्री शिवाजी दगडू पाटील  
सहायक उप निरीक्षक  
कोपाडी पुलिस थाना, थाणे शहर  
महाराष्ट्र

श्री लिंगाराज परीदा  
पुलिस अधीक्षक  
पुलिस मोटर परिवहन, कटक  
उड़ीसा

श्री अनिल कुमार बल  
उप कमान्डेण्ट  
ओ एस ए पी 6वां बटालियन, कटक  
उड़ीसा

श्री राजेन्द्र पाल सिंह बरार  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
चंडीगढ़  
पंजाब

श्री कपिल गर्ग  
पुलिस महानिरीक्षक  
भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, जयपुर  
राजस्थान

श्री भीम कुमार रोका  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
आर/लाइन्स पुलिस मुख्यालय  
सिक्किम

श्री के राजेन्द्रन  
अपर पुलिस महानिदेशक  
सदस्य, टी एन यू एस आर बी, चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री के राधाकृष्णन  
अपर पुलिस महानिदेशक  
नागरिक आपूर्ति सी आई डी, चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री आनंद लाल बनर्जी  
पुलिस महानिरीक्षक  
सी बी सी आई डी, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री गुरदर्शन सिंह  
पुलिस महानिरीक्षक  
मेरठ जोन, मेरठ  
उत्तर प्रदेश

श्री वेद पाल सिंह वर्मा  
पुलिस उपाधीक्षक  
पी ए सी मुख्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री अमर कान्ति सरकार  
पुलिस महानिरीक्षक  
रेलवे  
पश्चिम बंगाल

श्री सुबीर कुमार चटर्जी  
निरीक्षक  
नार्थ 24 परगना टीटागढ़ पुलिस थाना  
पश्चिम बंगाल

श्री कश्मीर सिंह पाबला  
पुलिस उपाधीक्षक  
पोर्ट ब्लेयर  
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

श्री चिलुमूरी वेंकटा मुरलीधर  
महानिरीक्षक  
फ्रन्टियर मुख्यालय, एस बी, कोलकाता  
सीमा सुरक्षा बल

श्री राजेन्द्र मणि  
उप महानिरीक्षक  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री पुलीकल जोसफ सेबास्टियन  
उप महानिरीक्षक  
रसद निदेशालय बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

डा. (श्रीमती) सुसाना थॉमस  
उप महानिरीक्षक (चिकित्सा)  
कम्पोजिट हास्पिटल, जालंधर छावनी, पंजाब  
सीमा सुरक्षा बल

श्री रजनीकान्त मिश्रा  
संयुक्त निदेशक (ई ओ डबल्यू-II)  
दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री हितेश चंद्र अचस्थी  
संयुक्त निदेशक (ए सी एच क्यू)  
दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री राजू रंगराजन	श्री खजान सिंह
पुलिस अधीक्षक	कमाण्डेन्ट
एस यू चेन्नई	87 बटालियन, नई दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री राधाकान्त चौबे	श्रीमती नीलमणि एन राजू
पुलिस अधीक्षक	संयुक्त निदेशक
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी, गाजियाबाद	नई दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	गृह मंत्रालय
श्री के टी महेशकर	श्री अरविन्द कुमार
उप कमाण्डेन्ट	संयुक्त निदेशक
एन आई एस ए, हैदराबाद	पटना
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	गृह मंत्रालय
श्री इशाक शरीफ	श्री अविनाश मोहनानी
सहायक कमाण्डेन्ट	संयुक्त निदेशक
बल मुख्यालय, नई दिल्ली	नई दिल्ली
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	गृह मंत्रालय
श्री सुबेश कुमार सिंह	श्री पी एस पुरोहित
पुलिस महानिरीक्षक/कार्मिक	संयुक्त निदेशक
बल मुख्यालय, नई दिल्ली	रायपुर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	गृह मंत्रालय
श्री मुत्तु पाल नथैनियल	श्री सुखदेव सिंह सिद्ध
उप पुलिस महानिरीक्षक/प्रचालन	संयुक्त निदेशक
श्रीनगर, मार्फत 56 ए पी ओ	नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	गृह मंत्रालय
श्री बलजीत कुमार शर्मा	श्री एम हरीसेन वर्मा
उप पुलिस महानिरीक्षक	संयुक्त निदेशक
सी टी सी, मुडुखंड, नांदेड	त्रिवेन्द्रम
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	गृह मंत्रालय
श्री टी ए अब्दुल हकिम	श्री प्रेम नाथ अग्रवाला
उप पुलिस महानिरीक्षक	सहायक निदेशक
आर टी सी स्पोरनोम, कन्नूर, केरल	अमृतसर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	गृह मंत्रालय

श्री मंजोत सिंह लोचब  
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी  
नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री आर. एस. पठानिया  
उप महानिरीक्षक  
एन डबल्यू (एफ) चंडीगढ़  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री इन्द्र सिंह नेगी  
उप महानिरीक्षक  
एस एच क्यू, भुवनेश्वर  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री आर. सी. बैजवान  
उप महानिरीक्षक  
एस एच क्यू, जम्मू  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री स्वयं सिंह  
क्षेत्र संयोजक  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सशस्त्र सीमा बल

श्री अनूप कुमार सिंह  
पुलिस महानिरीक्षक  
एस पी जी मुख्यालय, नई दिल्ली  
विशेष सुरक्षा दल

श्री कुमार राजेश चंद्रा  
पुलिस महानिरीक्षक  
एस पी जी मुख्यालय, नई दिल्ली  
विशेष सुरक्षा दल

श्री वेणुगोपाल के. नायर  
अपर पुलिस महानिदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी  
भारतीय इस्पात प्राधिकरण, नई दिल्ली, इस्पात मंत्रालय

श्री चंद्र शेखर रे  
उप महानिरीक्षक  
आर पी एस एफ, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय

श्री हरानंदा  
मुख्य सुरक्षा आयुक्त  
एन सी आर/मुख्यालय/इलाहाबाद, रेल मंत्रालय

2. ये पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक की स्वीकृति को विनिश्चय करने वाले नियमों के नियम 4(ii) के अन्तर्गत प्रदान किए जा रहे हैं।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

सं. 41-प्रेज/2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए उन्हें गणतंत्र दिवस, 2009 के अवसर पर पुलिस पदक प्रदान करती हैं :--

श्री के.वी. राजेन्द्रनाथ रेड्डी  
पुलिस आयुक्त  
विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश

श्री पी एस आर आन्जनेयुलू  
उप पुलिस महानिरीक्षक (आसूचना)  
हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश

श्री बल्ला बालाकृष्ण  
पुलिस अधीक्षक  
पश्चिम गोदावरी जिला, एलुरु, आन्ध्र प्रदेश

श्री डौले लक्ष्मण राव  
अपर पुलिस अधीक्षक  
आन्ध्र प्रदेश पुलिस अकादमी, हैदराबाद  
आन्ध्र प्रदेश

श्री कुपिली रामकृष्णा राव  
अपर पुलिस अधीक्षक, सी आई डी  
विशाखापट्टनम  
आन्ध्र प्रदेश

श्री वी रामाकृष्णैया  
सहायक पुलिस आयुक्त  
बंजारा हिल्स संभाग, हैदराबाद शहर  
आन्ध्र प्रदेश

श्री पटनाला वेंकट राधा कृष्ण  
पुलिस उपाधीक्षक  
भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो, रेंज I, हैदराबाद  
आन्ध्र प्रदेश

श्री बोड्डू चिट्ठी बाबू  
पुलिस उपाधीक्षक  
ग्रेहाउन्ड्स, हैदराबाद  
आन्ध्र प्रदेश

श्री मुनागाला वेंकटेश्वर राव  
सहायक पुलिस आयुक्त  
आसिफनगर संभाग हैदराबाद  
आन्ध्र प्रदेश

श्री निम्मला वेंकटा सांम्बय्या  
पुलिस उपाधीक्षक  
सुरक्षा विंग  
आन्ध्र प्रदेश

श्री जिनका पेधा योरिकलय्या  
पुलिस सर्किल निरीक्षक  
रायदुर्ग, अनंतपुर-जिला  
आन्ध्र प्रदेश

श्री उम्माडिसेट्टी श्रीकृष्णु  
पुलिस निरीक्षक  
भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, सी आई यू, हैदराबाद  
आन्ध्र प्रदेश

श्री मोहम्मद जैनुद्दीन  
सहायक रिजर्व उप निरीक्षक  
एस ए आर/सी पी एल  
आन्ध्र प्रदेश

श्री लिंगम चंद्रशेखरम  
सहायक रिजर्व उप निरीक्षक  
14वीं (आई आर) बटालियन, ए पी एस फो. अनंतपुर  
आन्ध्र प्रदेश

श्री कल्ले चिन्नय्या  
पुलिस उप निरीक्षक  
आसूचना, हैदराबाद क्षेत्र  
आन्ध्र प्रदेश

श्री सुंकरा सूर्य प्रभाकर राव  
पुलिस उप निरीक्षक  
आसूचना, विजयनगरम  
आन्ध्र प्रदेश

श्री एरुकुल्ला भरतुडू  
पुलिस उप निरीक्षक  
आसूचना, हैदराबाद क्षेत्र  
आन्ध्र प्रदेश

श्री वासमसेट्टी नारायण राव  
पुलिस उप निरीक्षक  
क्षेत्रीय आसूचना अधिकारी काकीनाडा  
आन्ध्र प्रदेश

श्री मोहम्मद खाजा मिया  
हैड कांस्टेबल  
डी. ए. आर. खमाम  
आन्ध्र प्रदेश

श्री ताशी लामा  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
पुलिस मुख्यालय, इटानगर  
अस्साचल प्रदेश

श्री रॉबिन हिबु  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
इटानगर  
अस्साचल प्रदेश

डॉ. राम प्रसाद मीणा  
उप महानिरीक्षक (सी आई डी)  
उलुबाड़ी, गुवाहाटी  
असम



श्री पद्मेश्वर बोरा  
सहायक उप निरीक्षक  
एपी आर ओ उलुबाड़ी, गुवाहाटी  
असम

श्री खरगेश्वर बगलारी  
कांस्टेबल (चालक) एपी आर ओ (मुख्यालय),  
उलुबाड़ी, गुवाहाटी  
असम

श्री टी जे लॉगकुमेर  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
एस टी एफ/सी ए एफ, बस्तर  
छत्तीसगढ़

श्री गोवर्धन सिंह दरा  
कमाण्डेंट  
दूसरी बटालियन साकरी, बिलासपुर,  
छत्तीसगढ़

श्री अकबर राम कोराम  
पुलिस अधीक्षक  
जिला जसपुर  
छत्तीसगढ़

श्री श्याम बिहारी पाण्डेय  
हैड कांस्टेबल  
10 वी बटालियन सी ए एफ, सरगुजा  
छत्तीसगढ़

श्री अघनु राम  
कांस्टेबल  
तीसरी बटालियन सी ए एफ, रायपुर  
छत्तीसगढ़

श्री चौधरी शिवनारायण सिंह  
उप निरीक्षक (एम)  
एस सी आर बी, सी आई डी, पुलिस मुख्यालय, रायपुर  
छत्तीसगढ़

श्री सुधीर सिंह यादव  
संयुक्त पुलिस आयुक्त  
नानकपुरा, नई दिल्ली  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री बीर सिंह  
सहायक पुलिस आयुक्त  
शहादरा, पूर्वोत्तर जिला, दिल्ली  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री के एन हरिदास  
सहायक पुलिस आयुक्त  
पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्रीमती कमला देवी मीणा  
महिला निरीक्षक (अब ए सी पी)  
सुरक्षा यूनिट  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री सत्यदेव सिंह आहलावत  
निरीक्षक  
सुरक्षा विनय मार्ग, नई दिल्ली  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री विक्रम कुमार चौधरी  
निरीक्षक/आशुलिपिक  
महिला अपराध सैल, नानकपुरा  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री बिरम सिंह  
उप निरीक्षक  
सुरक्षा, विनय मार्ग, नई दिल्ली  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री कृष्ण चन्द्र  
उप निरीक्षक  
यातायात  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्रीमती सरिता भारद्वाज महिला सहायक उप निरीक्षक आई जी आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	श्री लालजीभाई भांजीभाई भोरानिया पुलिस उप निरीक्षक/बेतार संचार आयुक्त का कार्यालय, गांधीनगर गुजरात
श्री सरबजीत सिंह सहायक उप निरीक्षक अपराध एवं रेलवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	श्री किशोरभाई अर्जनभाई विसानी निशस्त्र सहायक उप निरीक्षक सी आई डी अपराध, गांधीनगर गुजरात
श्री शिव कुमार हैड कांस्टेबल विशेष सैल, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	श्री बालूशंकर जीवराम पाठक सहायक उप निरीक्षक एल सी बी जिला, अमरेली गुजरात
श्री सतबीर सिंह हैड कांस्टेबल/चालक अपराध एवं रेलवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	श्री शिवरामभाई अम्बुभाई देसाई सहायक उप निरीक्षक सतर्कता शाखा, गांधीनगर गुजरात
श्री ओमप्रकाश आर कुडतरकर कमान्डेण्ट पुलिस मुख्यालय, पणजी गोवा	श्री रमेशकुमार अंगद सिंह भदोरिया हैड कांस्टेबल (निशस्त्र) विशेष शाखा, अहमदाबाद शहर गुजरात
श्री नलिनकुमार सोमलाल जोशी पुलिस उपाधीक्षक डी जी एण्ड आई जी पी का कार्यालय, जी एस, गांधीनगर गुजरात	श्री राजेन्द्रभाई रामभाई भाम्भला हैड कांस्टेबल (निशस्त्र) रेलवे पुलिस स्टेशन, अहमदाबाद गुजरात
श्री कन्हैयालाल शामलाभाई सवानी पुलिस निरीक्षक अहमदाबाद शहर गुजरात	श्री आलोक कुमार मिश्र पुलिस अधीक्षक राहतक हरियाणा
श्री नटवरसिंह सोनसिंह चावडा निशस्त्र उप निरीक्षक एस सी आर, डी जी एण्ड आई जी पी का कार्यालय, जी एस, गांधीनगर, गुजरात	श्री राज कुमार उप-निरीक्षक एस बी बी/पंचकूला हरियाणा

श्री कैलाश चन्द्र  
उप-निरीक्षक  
द्वितीय बटालियन, एच ए पी, मधुबन  
हरियाणा

श्री लखविन्द्र कुमार  
उप-निरीक्षक  
सी आई डी  
हरियाणा

श्री भीम सेन  
उप-निरीक्षक  
मुख्यालय/नेवल  
हरियाणा

श्री प्रमोद चन्द  
सहायक उप-निरीक्षक  
एस सी बी, पंचकूला  
हरियाणा

श्री राम कुमार  
सहायक उप-निरीक्षक  
पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय/अम्बाला रेंज  
हरियाणा

श्री निर्मल सिंह  
सहायक उप-निरीक्षक  
पुलिस थाना सदर, यमुनानगर  
हरियाणा

श्री विनोद कुमार  
हेड कांस्टेबल  
एस वी बी/पंचकूला  
हरियाणा

श्री कृष्ण गोपाल कपूर  
उप पुलिस अधीक्षक  
उना जिला  
हिमाचल प्रदेश

श्री हरि नंद  
निरीक्षक  
सी आई डी, शिमला  
हिमाचल प्रदेश

श्री चमन लाल  
उप-निरीक्षक  
पुलिस थाना सदर, विलासपुर  
हिमाचल प्रदेश

श्री पंकज सक्सेना  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
सी आई डी जम्मू जोन  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री गुलजार सिंह स्लाथिया  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
सुरक्षा  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री अमजद परवेज़ मिर्ज़ा  
कमाण्डेंट  
ऑर्गनाइजेशन पुलिस प्रथम बटालियन  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री भूपिन्दर सिंह  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (तकनीकी)  
सुरक्षा मुख्यालय  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री फयाज़ हुसैन नेंगरु  
उप पुलिस अधीक्षक  
मुख्यालय पुलवामा  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री प्रेम राज शान  
उप पुलिस अधीक्षक  
एस टी सी तलवाड़ा  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री विजय मोहन साधु  
उप पुलिस अधीक्षक  
राज्य सतर्कता संगठन  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री मोहम्मद अशरफ  
उप पुलिस अधीक्षक  
पुलिस मुख्यालय  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री मेहराजउद्दीन  
निरीक्षक  
एस एस जी  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री संसार चन्द  
उप-निरीक्षक  
सी आई डी, सी आई, जम्मू  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री अब्दुल अजीज तेली  
उप-निरीक्षक  
पुलिस मुख्यालय  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री मदन लाल  
सहायक उप-निरीक्षक  
पी सी आर जम्मू  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री अब्दुल गनी परे  
हैड कांस्टेबल  
पी सी आर श्रीनगर  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री रविकान्त धान  
पुलिस अधीक्षक  
लातेहर  
झारखण्ड

श्री शंभू ठाकुर  
कमाण्डेंट

ज ए पी 10वां (महिला बटालियन) गुमला  
झारखण्ड

श्री हेमन्त टोप्पा  
पुलिस अधीक्षक  
जामतारा

झारखण्ड

श्री श्रवण कुमार  
निरीक्षक  
विशेष शाखा, धुवाँ, राँची  
झारखण्ड

श्री संजय कुमार राणा  
उप-निरीक्षक  
पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग  
झारखण्ड

श्री ललन प्रसाद  
उप-निरीक्षक (आशुर्लिपिक)  
विशेष शाखा, राँची  
झारखण्ड

श्री सतन्द्र ओझा  
सहायक उप-निरीक्षक  
अपर महानिदेशक का कार्यालय, सी आई डी  
झारखण्ड

श्री श्रीभगवान सिंह  
हवलदार  
नमशदपुर डी पी एफ  
झारखण्ड

श्री एतवा उराँव  
कांस्टेबल  
लातेहर  
झारखण्ड

डॉ. सुरेश कुन्ही मोहम्मद  
राष्ट्रीय परामर्शी  
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,  
कर्नाटक

श्री मोहम्मद अब्दुल्ला सलीम  
निदेशक (एस एंड वी)  
के एस आर टी सी, बंगलोर  
कर्नाटक

श्री के. एस. रामचरण रेड्डी  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
कर्नाटक

श्री के रामचन्द्र राव  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,  
नांगनाहल्ली, गुलबर्गा, कर्नाटक

श्रीमति मालिनी कृष्णामूर्ति  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
आर्थिक अपराध, सी ओ डी, बंगलोर  
कर्नाटक

श्री के. पी. भीमय्या  
पुलिस अधीक्षक  
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, सी ओ डी,  
कार्लटन हाउस, बंगलोर, कर्नाटक

श्री कृष्णारेड्डी देवारेड्डी मल्लीगवाड  
पुलिस अधीक्षक  
ए पी टी एस, येलाहंका, बंगलोर  
कर्नाटक

श्री बी. ए. मुथन्ना  
उप पुलिस आयुक्त  
आसूचना, बंगलोर  
कर्नाटक

श्री बी. लोकेश  
सहायक पुलिस आयुक्त  
यातायात अड्डागोदी सव-डिवीजन, बंगलोर शहर  
कर्नाटक

श्री थिमय्या दासप्पा  
सहायक पुलिस आयुक्त  
सिटी आर्डर्ड रिजर्व नोर्थ, बंगलोर  
कर्नाटक

श्री बी. के. नंजे गौडा  
उप पुलिस अधीक्षक  
आसूचना शिमोगा  
कर्नाटक

श्री राजु वेंकटगौडा  
उप-निरीक्षक  
पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, एफ सी बंगलौर  
कर्नाटक

श्री के. एन. मूर्ति  
हैड कांस्टेबल  
आसूचना बंगलोर  
कर्नाटक

श्री सुरेश कुमार श्रीनिवास मूर्ति  
हैड कांस्टेबल  
आसूचना बंगलोर  
कर्नाटक

श्री नारायण शेड्डी  
हेड कांस्टेबल  
VIIIवीं बटालियन, के एस आर पी शिमोगा  
कर्नाटक

श्री शामु दुन्दप्पा हेगरे  
हेड कांस्टेबल  
डी ए आर, बेलगाम  
कर्नाटक

श्री पी. राधाकृष्णन  
उप पुलिस अधीक्षक  
त्रिस्सुर  
केरल

श्री टी जेम्स  
पुलिस अधीक्षक  
सी बी सी आई डी, कोल्लम  
केरल

श्री पी. एच. अशरफ  
पुलिस अधीक्षक देहात  
सी बी सी आई डी, एस आई जी-II, इर्नाकुलम  
केरल

श्री के. कुन्हामन नायर  
सहायक कमाण्डेंट  
ए आर, कसरगोड  
केरल

श्री एस. रमेश बाबू  
सहायक पुलिस आयुक्त  
स्वायत्त प्रकोष्ठ, तिरुवनंतपुरम  
केरल

श्री यू अब्दुल करीम  
उप पुलिस अधीक्षक  
थालीपरम्बा, कन्नूर  
केरल

श्री टी गोपालकृष्णा पिल्लै  
उप पुलिस अधीक्षक  
सी बी सी आई डी, एस आई जी-III, कोझीकोड  
केरल

श्री एम. मधु  
उप पुलिस अधीक्षक  
डी सी आर बी, अलपुझा  
केरल

श्री पी. के. मधु  
उप पुलिस अधीक्षक  
कोट्टायम  
केरल

श्री बी. राजेंद्रन  
हेड कांस्टेबल (चालक)  
पुलिस मुख्यालय, तिरुवनंतपुरम  
केरल

श्री मेघराज असुदानी  
पुलिस महानिरीक्षक  
भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री बी. मधुकुमार  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
जबलपुर  
मध्य प्रदेश

श्री योगेश मुदगल  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
छत्तरपुर  
मध्य प्रदेश

श्री प्रमोद सिंह खन्ना  
पुलिस अधीक्षक  
लोकायुक्त, इंदौर  
मध्य प्रदेश

श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह  
पुलिस अधीक्षक  
लोकायुक्त, ग्वालियर  
मध्य प्रदेश

श्री सुधीर लाड  
पुलिस अधीक्षक  
एस बी आई ई ओ, भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री कुंज बिहारी शर्मा  
सहायक पुलिस महानिरीक्षक  
भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री मनोज शर्मा  
सहायक पुलिस महानिरीक्षक  
भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री राम निवास यादव  
उप-निरीक्षक  
भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री विजय कुमार बाघे  
हैड कॉन्स्टेबल  
उज्जैन संभाग  
मध्य प्रदेश

श्री साकेत कुमार शुक्ला  
निरीक्षक (अनुसचिवीय)  
भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री राजेन्द्र कुमार जैन  
सूबेदार (अनुसचिवीय)  
भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री सत्य नारायण गुप्ता  
सूबेदार (अनुसचिवीय)  
भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्रीमती भारती गुरू  
सूबेदार (अनुसचिवीय)  
भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री मिलिंद साठे  
सहायक उप-निरीक्षक (एम)  
भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री अंकुश जी. धनविजय  
पुलिस महानिरीक्षक  
नियंत्रक, विधिक माप खाद्य सार्वजनिक आपूर्ति एवं  
उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मुम्बई, महाराष्ट्र

श्रीमती अर्चना त्यागी  
अपर पुलिस आयुक्त  
मुम्बई शहर  
महाराष्ट्र

श्री रंजीत पांडुरंग अभिनकर  
उप पुलिस अधीक्षक  
रेलवे पुणे  
महाराष्ट्र

श्री प्रदीप वासुदेवराव बोबडे  
पुलिस निरीक्षक  
पी टी एस नागपुर  
महाराष्ट्र

श्री उमेश श्रीनिवास देशपांडे  
पुलिस निरीक्षक (वायरलेस)  
कोंकण रेंज नवी मुम्बई  
महाराष्ट्र

श्री दिनेश मुसददीलाल अग्रवाल  
पुलिस निरीक्षक  
ए टी एस मुम्बई शहर  
महाराष्ट्र

श्री खंडेराव आनंदराव पाटील  
पुलिस निरीक्षक  
एस बी (आई) सी आई डी, मुम्बई शहर  
महाराष्ट्र

श्री नागेश शिवदास लोहार  
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक  
पंत नगर पुलिस थाना, मुम्बई  
महाराष्ट्र

श्री खुशालचंद गाविन्दलाल बाहेली  
पुलिस निरीक्षक  
विशेष शाखा, औरंगाबाद शहर  
महाराष्ट्र

श्री विलास व्याघ्रेश्वर जोशी  
पुलिस निरीक्षक  
वी पी रोड पुलिस थाना, मुम्बई शहर  
महाराष्ट्र

श्री रविन्द्र खंडेराव डोईफोडे  
पुलिस निरीक्षक  
एम आर ए मार्ग पुलिस थाना, मुम्बई शहर  
महाराष्ट्र

श्री निवृत्ती तुकाराम कदम  
पुलिस निरीक्षक  
ए टी एस मुम्बई शहर  
महाराष्ट्र

श्री रामचन्द्र शिवाजी जाधव  
पुलिस निरीक्षक  
डेंकेती-रोधी प्रकोष्ठ, मुम्बई शहर  
महाराष्ट्र

श्री सुहास मधुकर नादगौडा  
पुलिस निरीक्षक  
बंद गाडेन पुलिस स्टेशन, पुणे शहर  
महाराष्ट्र

श्री विजय कुमार वसंतराव पलसुले  
पुलिस निरीक्षक  
डेंक्कन पुलिस थाना, पुणे शहर  
महाराष्ट्र

श्री सय्यद अमीन सय्यद मृसा  
रिजर्व पुलिस उप-निरीक्षक  
पुलिस मुख्यालय, नांदेड़  
महाराष्ट्र

श्री सिदराम रामचन्द्र ताड  
उप-पुलिस निरीक्षक  
सुरक्षा शाखा, सोलापुर देहात  
महाराष्ट्र

श्री भगवान दादू हांडे  
सशस्त्र सहायक उप-निरीक्षक  
एस आर पी एफ ग्रुप-I, पुणे  
महाराष्ट्र

श्री चन्द्रकान्त दशरथ माने  
सहायक उप-निरीक्षक  
एम टी सोलापुर देहात  
महाराष्ट्र

श्री अर्जुन नाम् थिटे  
सशस्त्र सहायक उप-निरीक्षक  
एस आर पी एफ ग्रुप-X, सोलापुर  
महाराष्ट्र

श्री वाल्ट् सयाजी पाटोल  
सहायक उप-निरीक्षक  
कोतवाली पुलिस थाना, अहमदनगर  
महाराष्ट्र



श्री पंडित उत्तम भावसार  
सहायक उप-निरीक्षक  
पी सी आर, जलगाँव  
महाराष्ट्र

श्री चन्द्रकान्त ज्ञानोबा खरात  
सहायक उप-निरीक्षक  
घाटकोपर पुलिस थाना, मुम्बई शहर  
महाराष्ट्र

श्री अमृत भीमराव कोलेकर  
सहायक उप-निरीक्षक (चालक)  
एम. टी. उस्मानाबाद  
महाराष्ट्र

श्री साईनाथ विठ्ठल सदावर्ते  
सहायक उप-निरीक्षक  
नासिक शहर  
महाराष्ट्र

श्री श्रीपत नारायण पाटिल  
सहायक उप-निरीक्षक  
सी बी सी आई डी, मुम्बई शहर  
महाराष्ट्र

श्री साहेबराव भोनाजी टिलकर  
हेड कांस्टेबल  
लोनी पुलिस थाना, अहमदनगर  
महाराष्ट्र

श्री रानबा धोंडीबा पाटिल  
हेड कांस्टेबल  
एम एच बी पुलिस थाना, मुम्बई शहर  
महाराष्ट्र

श्री जन्बा भावाकना पाटिल  
हेड कांस्टेबल  
ए टी एस मुम्बई  
महाराष्ट्र

श्री अनिल पांडुरंग सुलगांवकर  
हेड कांस्टेबल (चालक)  
नियंत्रण कक्ष, कोल्हापुर  
महाराष्ट्र

श्री किशोर चन्नप्पा लांडगे  
हेड कांस्टेबल  
डी सी बी सी आई डी मुम्बई  
महाराष्ट्र

श्री सिराजुद्दीन निजामुद्दीन काजी  
हेड कांस्टेबल  
एम टी सोलापुर देहात  
महाराष्ट्र

श्री राजेन्द्र यशवंत सावंत  
हेड कांस्टेबल (चालक)  
पुलिस मुख्यालय, रत्नागिरी  
महाराष्ट्र

श्री अशेम श्यामचरण सिंह  
निरीक्षक  
सी आई डी (एस बी)  
मणिपुर

श्री मो. ग्यासुद्दीन  
जमादार  
7वीं इंडिया रिजर्व बटालियन, इम्फाल  
मणिपुर

श्री अरिबम गोपेस्वर शर्मा  
सहायक उप-निरीक्षक  
इम्फाल पश्चिम जिला  
मणिपुर

श्री कोइजम मुहिन्द्रो सिंह  
हवलदार  
द्वितीय आई आर बी, इम्फाल, मणिपुर

श्री इंटर चामबुगांग भराक  
उप-निरीक्षक  
ईस्ट गारो हिल्स  
मेघालय

श्री बिनाद कुमार दास  
रिजवं पुलिस निरीक्षक  
बेहरामपुर रिजवं कार्यालय  
उड़ीसा

श्री वी. लालढाकिमा  
कमाण्डेंट  
प्रथम बटालियन, एम ए पी  
मिजोरम

श्री लम्बोदर महंत  
सहायक उप-निरीक्षक  
सम्बलपुर सतकंता संभाग  
उड़ीसा

श्री आर के डैनियल  
उप पुलिस अधीक्षक  
डी एस बी, आइजोल  
मिजोरम

श्री देवानंद लारिया  
सिपाही  
ओ एस ए पी चतुर्थ बटालियन राऊरकेला  
उड़ीसा

श्री सुशान्त कुमार नाथ  
अपर पुलिस आयुक्त  
कटक  
उड़ीसा

श्री जितेन्द्र कुमार जैन  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
फरीदकोट, बटिंडा  
पंजाब

श्री रावसाहेब पंजाबराव राव कोचे  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
दक्षिणी रेंज बेहरामपुर  
उड़ीसा

श्रीमती गुरप्रीत कौर देव  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
चंडीगढ़  
पंजाब

श्री विनयतोष मिश्रा  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
अग्निशमन एवं होम गार्ड, कटक  
उड़ीसा

श्री ईश्वर सिंह  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
लुधियाना  
पंजाब

श्री कान्हू चरण महापात्र  
निरीक्षक  
विशेष शाखा, बारीपाड़ा  
उड़ीसा

श्री सुरजीत सिंह  
पुलिस अधीक्षक  
अमृतसर  
पंजाब

श्री सुरेन्द्र माझी  
निरीक्षक  
सी आई डी, सी बी, कटक  
उड़ीसा

श्री श्रवण सिंह  
पुलिस अधीक्षक  
सी आई डी, फिरोजपुर  
पंजाब

श्री गुरदीप सिंह  
उप पुलिस अधीक्षक  
सी आई डी यूनिट, होशियारपुर  
पंजाब

श्री बलकार सिंह  
उप पुलिस अधीक्षक  
सदर अमृतसर शहर  
पंजाब

श्री लेख राज  
उप पुलिस अधीक्षक  
7वीं बटालियन पी ए पी, जालंधर  
पंजाब

श्री मलकियत सिंह  
निरीक्षक  
नियंत्रण कक्ष पी ए पी, जालंधर  
पंजाब

श्री अवतार सिंह  
निरीक्षक  
5वीं आई आर बी, अमृतसर  
पंजाब

श्री संदीप सूद  
उप-निरीक्षक  
सुरक्षा विंग, चंडीगढ़  
पंजाब

श्री सुखबीर सिंह  
सहायक उप-निरीक्षक  
सतर्कता ब्यूरो, लुधियाना रेंज  
पंजाब

श्री ओंकार सिंह  
सहायक उप-निरीक्षक  
अमृतसर  
पंजाब

श्री अशोक कुमार  
सहायक उप-निरीक्षक  
राज्य स्वापक प्रकोष्ठ, अमृतसर  
पंजाब

श्री कुलवंत सिंह  
हैड कांस्टेबल  
5वीं आई आर बी, अमृतसर  
पंजाब

श्री ए पोन्नुचामी  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
(विशेष अपराध एवं आर्थिक अपराध) सी आई डी  
(सी बी), जयपुर, राजस्थान

श्री कर्नल बहादुर सिंह कपूर  
पुलिस अधीक्षक  
जिला दौसा,  
राजस्थान

श्री प्रेम प्रकाश टांक  
अपर पुलिस अधीक्षक  
सी आई डी (सी बी) रेंज सैल, कोटा  
राजस्थान

श्री किशन पाल सिंह  
पुलिस निरीक्षक  
सी आई डी (एस एस बी), जयपुर  
राजस्थान

श्री हरिशंकर मिश्रा  
उप पुलिस निरीक्षक  
सी एम सतर्कता, जोधपुर शहर  
राजस्थान

श्री करन सिंह जोधा  
उप पुलिस निरीक्षक  
सी आई डी (एस एस बी), जयपुर  
राजस्थान

श्री रविन्द्र कुमार विलियम  
सहायक उप-निरीक्षक (ऑपरेटर)  
पुलिस दूरसंचार मुख्यालय, जयपुर  
राजस्थान

श्री भभूताराम विश्नाई  
हेड कांस्टेबल  
पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, जोधपुर  
राजस्थान

श्री महावीर प्रसाद यादव  
हेड कांस्टेबल  
पुलिस लाइन्स, जयपुर शहर  
राजस्थान

श्री शंकर लाल खटीक  
हेड कांस्टेबल  
भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो, पाली  
राजस्थान

श्री रामेश्वर दयाल कुम्हार  
हेड कांस्टेबल  
ए एस पी कार्यालय, भरतपुर शहर  
राजस्थान

श्री हनुमान सिंह राजपूत  
हेड कांस्टेबल  
अपराध शाखा, जयपुर देहात  
राजस्थान

श्री अशोक कुमार खाण्डल  
हेड कांस्टेबल  
सी आई टी (एस एस बी), जयपुर  
राजस्थान

श्री अशोक कुमार विश्नाई  
कांस्टेबल  
भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो, बाड़मेर  
राजस्थान

श्री शेगिंग तमंग  
उप निरीक्षक  
गिजर्व लाइन्स  
सिक्किम

श्री वी.ए. रविकुमार  
सहायक पुलिस महानिरीक्षक  
प्रशासन, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय,  
चेन्नै, तमिलनाडु

श्री करुण्यया थोडीराज  
उप पुलिस आयुक्त  
अपराध एवं यातायात, कोयम्बटूर शहर,  
चेन्नै, तमिलनाडु

श्री पी. केशवन  
कमाण्डेंट  
टीएसपी IV बटालियन, कोवैपुडुर  
तमिलनाडु

श्री कदासामी रगराजन  
अपर पुलिस अधीक्षक  
अपराध, थेनी जिला  
तमिलनाडु

श्री एस. तिरुनावुकरसु  
उप पुलिस अधीक्षक  
सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-रोधी, चेन्नै  
तमिलनाडु

श्री एम. सेल्वागजन  
निरीक्षक  
वी एंड ए सी कोयम्बटूर  
तमिलनाडु

श्री जी. पन्नीरसेल्वम  
निरीक्षक  
वी एण्ड ए सी, कुड्डालोर  
तमिलनाडु

श्री संजय बिश्वास  
निरीक्षक  
पूर्वी अगारतला पुलिस स्टेशन  
त्रिपुरा

श्री एस. कुप्पुसामी  
निरीक्षक  
विलुप्पुरम, चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री हरीश चन्द्र कश्यप  
पुलिस महानिरीक्षक  
गोरखपुर जोन  
उत्तर प्रदेश

श्री वी. सुधाकर  
निरीक्षक  
मुख्यालय, चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री विश्वजीत महापात्र  
पुलिस महानिरीक्षक  
रेलवे लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री के. जीवानंधम  
निरीक्षक  
सिटी-III, चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री आनंद कुमार  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
सहारनपुर रेंज  
उत्तर प्रदेश

श्री एस. अशोकन  
निरीक्षक  
विशेष जांच प्रकोष्ठ, चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री आनंद स्वरूप  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
सुरक्षा, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री स्मरजित कानुनगो  
पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा)  
पश्चिमी त्रिपुरा  
त्रिपुरा

श्री सुशील कुमार सिंह  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
झांसी रेंज  
उत्तर प्रदेश

श्री सुबोध चन्द्र दास  
अपर पुलिस अधीक्षक  
दक्षिणी त्रिपुरा, उदयपुर  
त्रिपुरा

श्री संजय सिंघल  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
(भा.ति.सी.पु. बल में प्रतिनियुक्ति पर)  
उत्तर प्रदेश

श्री हरि राम शर्मा  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
कानपुर नगर  
उत्तर प्रदेश

श्री माता प्रसाद भास्कर  
उप पुलिस अधीक्षक  
एल आइ यू. कानपुर  
उत्तर प्रदेश

श्री काशी नाथ सिंह  
पुलिस अधीक्षक  
रेलवे लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री मृगेन्द्र सिंह  
अपर पुलिस अधीक्षक  
केन्द्रीय रिजर्व, सीतापुर  
उत्तर प्रदेश

श्री प्रकाश त्रिपाठी  
पुलिस अधीक्षक  
कन्नौज  
उत्तर प्रदेश

श्री अशोक कुमार  
अपर पुलिस अधीक्षक  
41 बटालियन, पी ए सी, गाजियाबाद  
उत्तर प्रदेश

श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह  
पुलिस अधीक्षक  
महामाया नगर  
उत्तर प्रदेश

श्री दलबीर सिंह यादव  
अपर पुलिस अधीक्षक  
लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री राम स्वरूप  
पुलिस अधीक्षक  
अम्बेडकर नगर  
उत्तर प्रदेश

श्री प्रेम चन्द्र सिंह  
हेड कांस्टेबल  
12 बटालियन, पी ए सी, फतेहपुर  
उत्तर प्रदेश

श्री सत्य प्रकाश सिंह यादव  
उप पुलिस अधीक्षक  
पी टी एस मुरादाबाद  
उत्तर प्रदेश

श्री सत्य राम यादव  
निरीक्षक  
इ ओ डब्ल्यू. लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री अशोक कुमार  
अपर पुलिस अधीक्षक  
मुख्यालय इलाहाबाद  
उत्तर प्रदेश

श्री विमोद कुमार श्रीवास्तव  
उप-निरीक्षक (एस)/आशुलिपिक  
जिला फतेहपुर  
उत्तर प्रदेश

श्री सैयद इस्सर हुसैन  
उप-निरीक्षक (एम)  
आई.जी. जोन कार्यालय, कानपुर  
उत्तर प्रदेश

श्री राम कुमार शर्मा  
उप-निरीक्षक  
जिला महोबा  
उत्तर प्रदेश

श्री महेश चन्द्र सिंह  
कांस्टेबल  
जिला कन्नौज  
उत्तर प्रदेश

श्री ओम प्रकाश सिंह  
उप-निरीक्षक  
जिला उन्नाव  
उत्तर प्रदेश

श्री सतीश कुमार  
उप-निरीक्षक(एम)  
सी बी सी आईडी मुख्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री श्रीपाल सिंह तोमर  
उप-निरीक्षक  
जिला पीलीभीत  
उत्तर प्रदेश

श्री जगदीश तोमर  
उप-निरीक्षक  
जिला गौतमबुद्ध नगर  
उत्तर प्रदेश

श्री कमल सिंह यादव  
उप-निरीक्षक  
जिला मिर्जापुर  
उत्तर प्रदेश

श्री किरन पाल सिंह  
उप-निरीक्षक  
डॉ. भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी,  
मुरादाबाद उत्तर प्रदेश

श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह  
निरीक्षक  
यू पी पी सी एल, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री सदा शिव  
कांस्टेबल  
जिला सीतापुर  
उत्तर प्रदेश

श्री जमीर अहमद खान  
कांस्टेबल  
32 बटालियन, पी ए सी, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री राम बहादुर सिंह  
उप-निरीक्षक  
जिला बाराबंकी  
उत्तर प्रदेश

श्री देवेन्द्र कुमार  
निरीक्षक  
जिला शाहजहांपुर  
उत्तर प्रदेश

श्री सतीश कुमार शुक्ला  
पुलिस अधीक्षक  
पुलिस मुख्यालय, 12 सुभाष रोड, देहगढ़न  
उत्तराखण्ड

श्री पासंग शेखा  
उप निरीक्षक  
एसएसपी, 10वां बटालियन, डाबग्राम,  
जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल

श्री मदन सिंह फर्शवान  
उप पुलिस अधीक्षक  
पिथौरागढ़  
उत्तराखण्ड

श्री स्वपन कुमार भट्टाचार्य  
उप निरीक्षक  
डाकखाना एवं थाना-ताम्लुक,  
जिला पूर्व मेदिनीपुर  
पश्चिम बंगाल

श्री दिनेश चन्द्र सिंह रावत  
उप पुलिस अधीक्षक  
हरिद्वार  
उत्तराखण्ड

श्री स्वपन कुमार राय  
सहायक उप-निरीक्षक (सशस्त्र स्थानापन्न)  
डी ए पी मुख्यालय  
पश्चिम बंगाल

श्री दीवान राम टमटा  
कम्पनी कमाण्डर  
31 बटालियन, पीएसी, रूद्रपुर  
उत्तराखण्ड

श्री जोगेन्द्र सिंह  
सहायक उप-निरीक्षक (यू बी)  
पी टीसी, बैरकपुर  
पश्चिम बंगाल

श्री संजय सिंह  
उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)  
पीटीसी, बैरकपुर  
पश्चिम बंगाल

श्री तपन मजुमदार  
कांस्टेबल  
पुलिस मुख्यालय कोलकाता  
पश्चिम बंगाल

श्री सुनील कुमार डे  
सहायक पुलिस आयुक्त  
मुख्यालय कोलकाता पुलिस  
पश्चिम बंगाल

श्री अजीत कुमार दास  
कांस्टेबल  
नागराकाता पुलिस थाना, जलपाईगुड़ी  
पश्चिम बंगाल

श्री स्वपन कुमार नंदा  
निरीक्षक  
आसूचना शाखा  
पश्चिम बंगाल

श्री प्रद्युत कुमार सिन्हा  
पुलिस चालक  
एम टी सेक्शन, मालदा  
पश्चिम बंगाल



श्री मानिक रॉय  
कांस्टेबल  
डी ए पी, सी बी आर, जिला-कूच बिहार  
पश्चिम बंगाल

श्री दसरथी कोनार  
सहायक उप निरीक्षक  
आसूचना शाखा कोलकाता  
पश्चिम बंगाल

श्री अनिल बरन हजारी  
सहायक उप निरीक्षक  
एस ए पी, दूसरी बटालियन, बैरकपुर,  
उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल

श्री नित्यानंद गुप्ता  
कांस्टेबल (ए बी)  
डी ए पी, मालदा, मोकदुमपुर जिला-मालदा  
पश्चिम बंगाल

श्री गोविन्द कुमार मुखर्जी  
सहायक उप-निरीक्षक  
सियालदह जी आर पी  
पश्चिम बंगाल

श्री बिकास मोय हाजरा  
कांस्टेबल  
मुख्यालय, पुरुलिया  
पश्चिम बंगाल

श्री स्वपन कुमार साहा  
कांस्टेबल  
सतर्कता आयोग  
कोलकाता  
पश्चिम बंगाल

श्रीमती मिंगमा चित्तेन भूटिया  
महिला कांस्टेबल  
पश्चिम बंगाल

श्री चितरंजन गारू  
निरीक्षक  
पोर्ट ब्लेयर  
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

श्री सुरेश कुमार  
हैड कांस्टेबल  
वी आई पी सुरक्षा  
चण्डीगढ़

श्री बालाकृष्णन पी एम  
आशुलिपिक ग्रेड I  
ए डी जी सचिवालय, मुख्यालय डीजीएआर,  
शिलांग, असम रायफल्स

श्री थॉमस जॉर्ज  
सहायक कमाण्डेंट  
मुख्यालय आईजीएआर (एन) मार्फत् 99  
एपीओ असम रायफल्स

श्री केदार राम  
सूबेदार  
कदमतला, जिला इम्फाल पूर्वी, मणिपुर  
असम रायफल्स

श्री भूपाल राम  
सूबेदार  
14 ए आर, मार्फत् 99 एपीओ  
असम रायफल्स

श्री सुकुमारन के पी  
नायब सूबेदार (नर्सिंग सहायक)  
20 ए आर, चान्डेल (मणिपुर) मार्फत् 99  
एपीओ असम रायफल्ल्स

श्री हीरा सिंह  
सूबेदार  
24 ए आर, मोरेह (मणिपुर) मार्फत् 99  
एपीओ असम रायफल्ल्स

श्री धीरेन्द्र सिंह नेगी  
उप-कमाण्डेंट  
25 ए आर, मार्फत् 99 एपीओ  
असम रायफल्ल्स

श्री सुरजीत सिंह  
नायब सूबेदार  
25 ए आर, मार्फत् 99 एपीओ  
असम रायफल्ल्स

श्री महेश सिंह यादव  
सेकंड-इन-कमांड  
25 ए आर, मार्फत् 99 ए पी ओ  
असम रायफल्ल्स

श्री तरसेम चन्द  
सूबेदार  
26 ए आर, कोहिमा  
असम रायफल्ल्स

श्री खुशाल सिंह साहू  
सूबेदार  
32 ए आर, मार्फत् 99 ए पी ओ  
असम रायफल्ल्स

श्री नारायण सिंह शर्मा  
सूबेदार  
37 ए आर, नागिनीमोरा (नागालैंड) मार्फत् 99  
एपीओ असम रायफल्ल्स

श्री त्रिलोका नाथ तिवारी  
नायब सूबेदार  
सिगनल यूनिट, शिलांग  
असम रायफल्ल्स

श्री सिद्धार्थ चट्टोपाध्याया  
उप महानिरीक्षक  
एस एच क्यू, सिलीगुड़ी  
सीमा सुरक्षा बल

श्री अभय स्वरूप वर्मा  
उप महानिरीक्षक  
एसटीसी, जोधपुर  
सीमा सुरक्षा बल

श्री राजीव कुमार हजेला  
उप महानिरीक्षक  
बल मुख्यालय, संचार निदेशालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री आसफ अली  
उप महानिरीक्षक  
एसटीसी, उधमपुर  
सीमा सुरक्षा बल

श्री पंकज गुप्ता  
उप महानिरीक्षक  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री नरेन्द्रा नाथ धर दूबे  
कमाण्डेंट

एस आई डब्ल्यू, तिगड़ी कैम्प, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री कैलाश लाल शाह  
कमाण्डेंट

61 बटालियन, कसियामंगल, त्रिपुरा  
सीमा सुरक्षा बल

श्री ओम शंकर झा  
कमाण्डेंट

प्रशिक्षण निदेशालय, बल मुख्यालय,  
नई दिल्ली, सीमा सुरक्षा बल

श्री अजीत सुदेवन  
कमाण्डेंट

113 बटालियन, डाकखाना-तल्लीगुड़ा,  
जिला कूच बिहार, पश्चिम बंगाल  
सीमा सुरक्षा बल

श्री राजीव सिन्हा  
कमाण्डेंट

बल मुख्यालय, रसद निदेशालय, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री मनोज कुमार यादव  
कमाण्डेंट

171 बटालियन, सिंहपुरा, मार्फत 56 एपीओ  
सीमा सुरक्षा बल

श्री आर. मुथुकृष्णन  
कमाण्डेंट

109 बटालियन, गुरदासपुर, पंजाब  
सीमा सुरक्षा बल

श्री अमर कुमार इक्का  
कमाण्डेंट

31 बटालियन, मावपट, डाकखाना-डम्पलिंग,  
जिला पूर्वी खासी हिल्स, शिलांग  
सीमा सुरक्षा बल

श्री चुन्नी लाल बेल्वा  
कमाण्डेंट

81 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, मार्फत 56  
एपीओ सीमा सुरक्षा बल

डॉ. हीरा लाल रसकरन

मुख्य चिकित्सा अधिकारी(एसजी)/कमाण्डेंट  
(चिकित्सा) बल मुख्यालय अस्पताल-II,  
नई दिल्ली, सीमा सुरक्षा बल

श्री लहणा सिंह दहिया

स्क्वाड्रन कमाण्डर  
(राष्ट्रीय सुरक्षा गारद में प्रतिनियुक्ति पर)  
सीमा सुरक्षा बल

श्री के. भिखुतो स्वी  
सेकंड-इन-कमाण्ड

111 बटालियन, मार्फत 99 एपीओ  
सीमा सुरक्षा बल

श्री रोमेश चन्द जसरोटिया  
सेकंड-इन-कमाण्ड

एस एच क्यू, गुरदासपुर, पंजाब  
सीमा सुरक्षा बल

श्री मोहम्मद कादिर कुरैशी

सेकंड-इन-कमाण्ड/ई ई (सिविल)  
सी जी ओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री रविन्द्र चन्द्र पडालिया  
उप कमाण्डेंट  
एस टी सी. उधमपुर  
सीमा सुरक्षा बल

श्री धन सिंह  
उप कमाण्डेंट  
23 बटालियन, पंजीपाड़ा, उत्तर दिनाजपुर,  
उत्तरी बंगाल, सीमा सुरक्षा बल

श्री रजिन्दर कुमार शर्मा  
उप कमाण्डेंट  
52 बटालियन, सुन्दरबनी, मार्फत् 56 एपीओ  
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी  
उप कमाण्डेंट  
183 बटालियन, डाकखाना-नारायणपुर,  
जिला-मालदा, पश्चिम बंगाल  
सीमा सुरक्षा बल

श्री महाबीर सिंह  
उप कमाण्डेंट  
85 बटालियन, पोखरन, जिला जैसलमेर,  
राजस्थान, सीमा सुरक्षा बल

श्री कुलवंत सिंह रावत  
उप कमाण्डेंट, 70 बटालियन, गोकुलनगर,  
डाकखाना-हरीश नगर, पश्चिमी त्रिपुरा  
सीमा सुरक्षा बल

श्री रामेन्द्र नाथ राय  
उप कमाण्डेंट, 70 बटालियन, गोकुलनगर,  
डाकखाना-हरीश नगर, पश्चिमी त्रिपुरा  
सीमा सुरक्षा बल

श्री मण्डलापराम्बिल अरविन्दाक्षण  
सहायक कमाण्डेंट  
मुख्यालय ए एम फ्रंटियर, शिलांग, डाकखाना-अम्पलिंग,  
जिला पूर्वी गारो हिल्स, मेघालय  
सीमा सुरक्षा बल

श्री भागीरथ सिंह  
निरीक्षक  
12 बटालियन, मार्फत् 56 एपीओ  
सीमा सुरक्षा बल

श्री अभय सिंह यादव  
निरीक्षक  
64 बटालियन मार्फत् 56 एपीओ  
सीमा सुरक्षा बल

श्री केहर राम  
निरीक्षक  
09 बटालियन, बाड़मेर, राजस्थान  
सीमा सुरक्षा बल

श्री जगन्नाथ सिंह परवल  
निरीक्षक  
84 बटालियन, जैसलमेर  
सीमा सुरक्षा बल

श्री गंगा सिंह  
निरीक्षक  
43 बटालियन, डाकखाना-माम्डोट,  
जिला फिरोजपुर, पंजाब  
सीमा सुरक्षा बल

श्री भरत शर्मा  
निरीक्षक  
100 बटालियन, डाबला, बाड़मेर रोड़,  
जिला जैसलमेर, राजस्थान  
सीमा सुरक्षा बल

श्री सी. साबु  
उप-निरीक्षक 88 बटालियन, कोइरेंगी,  
डकखाना-मंत्रीपुखरी, जिला-इम्फाल  
मणिपुर  
सीमा सुरक्षा बल

मोहम्मद नसीम  
हैड कांस्टेबल  
36 बटालियन, डाकघर-कल्याणी,  
जिला-नदिया, पश्चिम बंगाल  
सीमा सुरक्षा बल

श्री बलबीर सिंह  
निरीक्षक (तकनीकी)  
96 बटालियन, डाकखाना-अरुणाचल प्रदेश,  
जिला कछार, असम  
सीमा सुरक्षा बल

श्री नानक चंद  
सफाई कर्मचारी  
58 बटालियन, कलाकोट, मार्फत 56 एपीओ  
सीमा सुरक्षा बल

श्री मोहम्मद बशीर इलावंकल मैथीन  
निरीक्षक (अनुसचिवीय)  
एस आई डब्ल्यू, तिगाड़ी कैम्प, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री प्रवीर रंजन  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री मनबर सिंह रावत  
उप-निरीक्षक  
एस एच क्यू पानीसागर, त्रिपुरा (उत्तरी)  
सीमा सुरक्षा बल

सुश्री सोनाली मिश्रा  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
एसीआर मुम्बई  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री जसवन्त सिंह  
उप-निरीक्षक  
108 बटालियन बैष्णवनगर,  
डाकखाना-रोशनबाग,  
जिला मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)  
सीमा सुरक्षा बल

श्री राजीव सिंह  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री कुमुडा बंधाबा डाश  
उप-निरीक्षक  
68 बटालियन, निशात, मार्फत 56 ए पी ओ  
सीमा सुरक्षा बल

श्री राम नाथ आजाद  
सहायक निदेशक  
आई पी सी सी, दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री जय प्रकाश सिंह  
उप निरीक्षक  
90 बटालियन रोशनबाग,  
जिला-मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल  
सीमा सुरक्षा बल

श्री रविन्दर सिंह  
अपर पुलिस अधीक्षक  
ए सी-III दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री अशोक बाबू  
उप पुलिस अधीक्षक  
ए सी बी. गाजियाबाद  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री जयजीत सिंह  
उप महानिरीक्षक  
उत्तरी मुख्यालय, नई दिल्ली  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री मोहम्मद शाहजहान  
निरीक्षक  
त्रिवेन्द्रम  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री नरनजीत सिंह कोहली  
उप-कमाण्डेंट  
यूनिट एन एफ एल, नागल  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री उदय केशव मोरे  
निरीक्षक  
ई ओ डब्ल्यू, मुम्बई  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री वी. करुणाकरन  
सहायक कमाण्डेंट (जेएओ)  
ए पी (ई एण्ड एम ई) मुख्यालय, कोलकाता  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री मोहन सिंह रावत  
उप-निरीक्षक  
ई ओ डब्ल्यू-1, नई दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री सगन कुमार साहू  
निरीक्षक (अनुसन्धीय)  
मुख्यालय  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री विजय पाल सिंह  
उप-निरीक्षक  
एस यू, नई दिल्ली  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री आर सी सभरवाल  
निरीक्षक (आशुलिपिक)  
जी पी मुख्यालय मुम्बई  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री के. शशिधरन नायर  
सहायक उप-निरीक्षक  
ए सी बी, कोचीन  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री पुष्कर सिंह रावत  
निरीक्षक  
आर टी सी अगवकोनम  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री भैरव दत्त कण्डवाल  
हेड कांस्टेबल  
गाजियाबाद  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री सुनील कुमार  
निरीक्षक  
आर टी सी बरवाहा  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री जॉर्ज थॉमस  
निरीक्षक  
के आर टी सी, मुंडाली  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री मोहिन्दर सिंह सोमाटा  
हैड कांस्टेबल  
आर टी सी बड़वाह  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री ओम शंकर  
निरीक्षक  
सी एस आई एयरपोर्ट, मुम्बई  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री अब्दुल खलील अहमद  
हैड कांस्टेबल  
के.ओ.सु.ब. इकाई बीएसपी (बी)  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री मगुदेश्वरन शंकर  
निरीक्षक  
बंगलौर  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री ए गुरुसामी  
हैड कांस्टेबल  
ईपीएल इन्नोर  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री हरीश सिंह करम्याल  
निरीक्षक  
ओ एन जी सी नाजिरा  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री रिवा राम साहू  
हैड कांस्टेबल  
डी ए ई कलपक्कम  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री एस पी राणा  
निरीक्षक  
के के एन पी पी कुडांकुलम  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

डॉ. अशोक नाथ झा  
उप पुलिस महानिरीक्षक/चिकित्सा  
कम्पोजिट हॉस्पिटल, ग्रुप केन्द्र, अजमेर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री आर डी एस नेगी  
निरीक्षक  
I बटालियन, बरवाहा  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

डॉ. सुनहरी लाल निमेश  
उप पुलिस महानिरीक्षक/चिकित्सा  
ग्रुप केन्द्र, कैम्पस, नागपुर, महाराष्ट्र  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुब्रमणियम राधाकृष्णन  
उप-निरीक्षक  
एन आई एस ए हैदराबाद  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
ग्रुप केन्द्र, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री कुलदीप धर  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
ग्रुप केन्द्र, गुड़गाँव, हरियाणा  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री द्विजेन्द्र मिह भंडारी  
सेकण्ड-इन-कमाण्ड  
131 बटालियन, पटना, बिहार  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री महेन्द्र पाल सिंह नेगी  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
पूर्वोत्तर सचिवालय शिलांग  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री ब्रिजेश प्रताप सिंह  
सेकण्ड-इन-कमाण्ड 30 बटालियन, बीजापुर,  
न्यू जेल कॉम्प्लेक्स, छत्तीसगढ़  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री भूपत सिंह चौहान  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
ग्रुप केन्द्र, रामपुर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सतेन्द्र कुमार  
सेकण्ड-इन-कमाण्ड  
50 बटालियन, जीसी, सिन्धी  
धनबाद झारखण्ड  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री संजय कौशिक  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
ग्रुप केन्द्र रंगारेड्डी, जय जवाहर नगर,  
आंध्र प्रदेश, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुभाष चन्द्र सिंह रावत  
सेकण्ड-इन-कमाण्ड  
23 बटालियन, करण नगर श्रीनगर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुनील सिंह  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
ग्रुप केन्द्र, नागपुर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सत्यनारायण सिंह मीणा  
सेकण्ड-इन-कमाण्डेंट 112 बटालियन,  
अबन्तिपुरा, पुलवामा, जम्मू एवं कश्मीर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रनदीप दत्ता  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
ग्रुप केन्द्र, पुणे  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री हरदयाल सिंह  
उप कमाण्डेंट 100 बटालियन,  
आरएफ, वस्ट्रल, अहमदाबाद  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अरुण कुमार  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
ग्रुप केन्द्र, गांधीनगर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अहमदुल्ला अंसारी  
उप कमाण्डेंट 181 बटालियन, राडार स्टेशन  
जम्मू एवं कश्मीर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल



श्री बालकिशन  
सहायक कमाण्डेंट  
126 बटालियन, बवाना, दिल्ली  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुखराम सियाग  
सहायक कमाण्डेंट  
111 बटालियन, हालोमाजरा, चंडीगढ़  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री एन पी एन नायर  
अनुभाग अधिकारी  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रत्नाला नागेश्वर राव  
सूबेदार मेजर/पीएस  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मेला राम  
सूबेदार मेजर/जीडी  
ग्रुप केन्द्र, जालंधर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अमर नाथ  
निरीक्षक  
61 बटालियन, मार्फत 56 ए पी ओ  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री गिरधारी लाल  
सूबेदार मेजर/जीडी  
ग्रुप केन्द्र-I, अजमेर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री ब्रजबिहारी सिंह  
निरीक्षक  
3 सिग्नल बटालियन  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री लाल किशोर सिंह  
उप-निरीक्षक  
188 बटालियन, राजनन्दगाँव, छत्तीसगढ़  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री केदार नाथ यादव  
उप-निरीक्षक  
111 बटालियन, हालोमाजरा, चंडीगढ़  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री महावीर प्रसाद  
उप-निरीक्षक  
ग्रुप केन्द्र, खटखटी, जिला कार्बी आँगलाँग,  
असम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अब्दुल करीम  
उप-निरीक्षक  
160 बटालियन, मार्फत 56 एपीओ  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री केशवन प्रभाकरण  
उप-निरीक्षक  
24 बटालियन, यात्रीनिवास  
जिला अनंतनाग, जम्मू एवं कश्मीर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सज्जन सिंह  
उप-निरीक्षक  
121 बटालियन, कठुआ, जम्मू एवं कश्मीर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जोध सिंह उप-निरीक्षक 186 बटालियन, लोहित जिला, अरुणाचल प्रदेश केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री गुलाब चन्द उप निरीक्षक/एमटी 81 बटालियन, अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री परमात्मा भारती उप-निरीक्षक 165 बटालियन, पश्चिमी मिदनापुर, प. बंगाल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री गोपाल उपाध्याय उप निरीक्षक/आर ओ 3 सिग्नल बटालियन, कोलकाता केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री पीताम्बर दत्त उप-निरीक्षक 187 बटालियन, बीजौर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री सीताराम भगत उप निरीक्षक 2 बटालियन, सुकमा, दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री बरूशीश सिंह उप-निरीक्षक 5 सिग्नल बटालियन, चंडीगढ़ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री बिशम्बर दास उप निरीक्षक 163 बटालियन, गुलशन नगर, श्रीनगर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री राम निवास उपनिरीक्षक 98 बटालियन, बवाना, नई दिल्ली केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री इबनोम्बी सिंह हैड कांस्टेबल 27 बटालियन, नुन्गाबा, मणिपुर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री कैलाश नाथ चौबे उप निरीक्षक 3 सिग्नल बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री अब्दुल कयूम खान हैड कांस्टेबल 27 बटालियन, नुन्गाबा, मणिपुर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री गोपाल कृष्ण उप निरीक्षक 5 सिग्नल बटालियन, चंडीगढ़ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री राम लखन रावत हैड कांस्टेबल आर टी सी, अवाडी, चेन्नई केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री ए श्रीनिवासन  
हैड कांस्टेबल  
42 बटालियन, बरकास, हैदराबाद  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री दिनेश शंकर मिश्रा  
सहायक निदेशक (तकनीक)  
नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री राम अवतार पाण्डे  
हैड कांस्टेबल/चालक  
मार्फत 56 एपीओ, श्रीनगर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अनिल कुमार नेगी  
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी  
एसआईबी दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री दिनेश प्रसाद  
थोबी  
आरटीसी, अवाडी, चेन्नई  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री तिमिर भास्कर शाह  
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी  
नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री मंगला प्रसाद मोहरिया  
जलवाहक  
ग्रुप केन्द्र, नयागाँव, ग्वालियर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अशोक कुमार सिंह तेवतिया  
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी  
गाजियाबाद  
गृह मंत्रालय

श्री गोविन्द राम  
जलवाहक  
27 बटालियन, नुन्गबा, मणिपुर  
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अजय कुमार राय  
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी  
भोपाल  
गृह मंत्रालय

श्री अरविन्द कुमार  
उप निदेशक  
नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री नल्लूर श्रीनिवासरामधवन उप्पिली  
अनुभाग अधिकारी  
मुख्यालय, नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री विजय कुमार बीर  
सहायक निदेशक  
नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री कुलवंत सिंह गिल  
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी - ग्रेड-1/जी  
चंडीगढ़  
गृह मंत्रालय

श्री दिनेश चन्द जोशी  
सहायक केन्द्रीय आसूचना  
अधिकारी-ग्रेड-I/जी  
नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री श्रीरंग बलवंत जोशी  
सहायक केन्द्रीय आसूचना  
अधिकारी-ग्रेड-I/जी  
बेंगलूरु  
गृह मंत्रालय

श्री सुनील शर्मा  
सहायक केन्द्रीय आसूचना  
अधिकारी-ग्रेड-I/जी  
लखनऊ  
गृह मंत्रालय

श्री हरपाल सिंह  
सहायक केन्द्रीय आसूचना  
अधिकारी-ग्रेड-I/जी  
नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्रीमती नीता मिश्रा  
सहायक केन्द्रीय आसूचना  
अधिकारी-ग्रेड-I/जी, नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री प्रदीप कुमार सरकार  
सहायक केन्द्रीय आसूचना  
अधिकारी-ग्रेड-I/जी, जलपाईगुड़ी  
गृह मंत्रालय

श्री गिरीश चन्द्र कांडपाल  
सहायक केन्द्रीय आसूचना  
अधिकारी-ग्रेड-II/जी, नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री प्रकाश चन्द कौन्डिन्या  
कनिष्ठ केन्द्रीय आसूचना  
अधिकारी-ग्रेड-I/जी  
शिमला  
गृह मंत्रालय

श्री पुष्कर नाथ मारहट्टा  
कनिष्ठ केन्द्रीय आसूचना  
अधिकारी-ग्रेड-I/जी  
श्रीनगर  
गृह मंत्रालय

श्री डोनाल्ड पॉल साबियान  
कनिष्ठ केन्द्रीय आसूचना  
अधिकारी-ग्रेड-I/जी  
शिलांग  
गृह मंत्रालय

श्री फतेह चन्द सक्सेना  
उच्च श्रेणी लिपिक  
नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री अहमद जमाल रसूल  
उपमहानिरीक्षक  
एसएचक्यू जम्मू  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री शरद प्रताप सिंह  
कमाण्डेंट  
II बटालियन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री राजेश कुमार जोशी  
सहायक कमाण्डेंट  
8वीं बटालियन, गौचर, चमोली  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री अशोक कुमार यादव  
सहायक कमाण्डेंट  
35वीं बटालियन, कुल्लू  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री मातवर सिंह नेगी  
निरीक्षक  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्रीमती वीना डोभाल  
निरीक्षक/शिक्षा  
सीआरओ/नई दिल्ली  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री कुन्दन सिंह  
उप निरीक्षक/एमटी  
टीपीटी बटालियन, चंडीगढ़  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री ओम प्रकाश  
हैड कांस्टेबल  
एसपीटी बटालियन, करेरा  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री संजय सिंह गहलोत  
ग्रुप कमाण्डर  
13 एस आर जी, माणेशर, गुड़गाँव, हरियाणा  
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

श्री सतीश चन्द्र बुडाकोटी  
ग्रुप कमाण्डर  
12 एसआरजी, माणेशर, गुड़गाँव, हरियाणा  
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

श्री आदित्य मिश्रा  
उप महानिरीक्षक  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सशस्त्र सीमा बल

श्री दीप चन्द्र पाटनी  
कमाण्डेंट  
3 बटालियन, अल्मोड़ा  
सशस्त्र सीमा बल

श्री अजीत कुमार भारद्वाज  
सेकण्ड-इन-कमाण्ड  
8वीं बटालियन, मल्हीपुर  
सशस्त्र सीमा बल

श्री राम चन्द्र मनोड़ी  
संयुक्त क्षेत्र संयोजक  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सशस्त्र सीमा बल

श्री छत्तर सिंह  
सहायक कमाण्डेंट  
40वीं बटालियन, छत्तीसगढ़  
सशस्त्र सीमा बल

श्री दिलबाग सिंह  
कांस्टेबल/ओ आर डी  
5वीं बटालियन, लखीमपुर, खीरी  
सशस्त्र सीमा बल

श्री ब्रजा बीनू शोम  
सहायक निदेशक  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सशस्त्र सीमा बल

श्री बिमल कुमार मिश्रा  
उप निरीक्षक  
30वीं बटालियन, कूचबिहार  
सशस्त्र सीमा बल

श्री नरेन्द्र देव उपाध्याय  
सुरक्षा अधिकारी-I ( डब्ल्यू टी )  
मुख्यालय, नई दिल्ली  
विशेष सुरक्षा दल

श्री सुरजीत लाल रायत  
अनुभाग अधिकारी  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
सशस्त्र सीमा बल

श्री तमल बसु  
प्रधानाचार्य  
सीडीटीएस, कोलकाता  
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

श्री मनोज कुमार शाह  
हैड कांस्टेबल  
तृतीय बटालियन, अल्मोड़ा  
सशस्त्र सीमा बल

श्री सुभाष चन्द्र बक्शी  
साईफर सहायक  
मुख्यालय  
पुलिस समन्वय एवं बेतार निदेशालय

श्री जितेन्द्र कुमार  
उप महानिरीक्षक  
मुख्यालय, नई दिल्ली  
विशेष सुरक्षा दल

श्री ए पी सिद्दिका  
उप निदेशक  
नई दिल्ली  
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

श्री आशुतोष कुमार सिन्हा  
उप महानिरीक्षक  
मुख्यालय, नई दिल्ली  
विशेष सुरक्षा दल

श्री कृष्णास्वामी शेखर  
कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी  
नई दिल्ली  
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

श्री धीरेन्द्र सिंह सिंधु  
सहायक महानिरीक्षक  
मुख्यालय, नई दिल्ली  
विशेष सुरक्षा दल

श्री ओम प्रकाश व्यास  
पुलिस उपाधीक्षक  
नई दिल्ली  
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

श्री साविन्दर सांगवान  
सुरक्षा अधिकारी-I  
मुख्यालय, नई दिल्ली  
विशेष सुरक्षा दल

श्री जी एन पी राज  
उप निदेशक  
शिवरामपल्ली, हैदराबाद  
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

श्री वी. पान्डियन  
उप निरीक्षक/घुड़सवारी  
हैदराबाद  
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

श्री सिधु टियू  
हैड कांस्टेबल (ए डी आई)  
हैदराबाद  
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

श्री अजीत कुमार सरकार  
क्षेत्रीय सुरक्षा उपायुक्त (सीए)  
कोलकाता, पश्चिम बंगाल  
नागरिक उड्डयन मंत्रालय

श्री सुनिल कुमार सिन्हा  
डिप्टी, सीएससी  
रेलवे सुरक्षा बल  
हुबली, कर्नाटक  
रेल मंत्रालय

श्री उदय राज सिंह  
सहायक सुरक्षा आयुक्त  
रेलवे सुरक्षा बल, एनडब्ल्यूआर/मुख्यालय  
रेल मंत्रालय

श्री मुरारी माधव पात्रीकर  
सहायक सुरक्षा आयुक्त  
कोकण रेलवे, सीबीडी बेलापुर  
खण्ड-II, नवी मुम्बई  
रेल मंत्रालय

श्री आर.ए. प्रेमकुमार  
निरीक्षक  
अपराध आसूचना शाखा, रेलवे सुरक्षा बल, चेन्नई  
रेल मंत्रालय

श्री एच श्रीनिवास राव  
निरीक्षक  
रेलवे सुरक्षा बल, काजीपेट पोस्ट एससी संभाग/एससीआर  
रेल मंत्रालय

श्री एम ए अब्राहम  
सहायक उप निरीक्षक  
रेलवे सुरक्षा बल, डॉंग स्कॉड, सेक रेलवे, बिलासपुर  
रेल मंत्रालय

श्री भरत सिंह मीणा  
निरीक्षक  
रेलवे सुरक्षा बल, जिला-ठाणे  
रेल मंत्रालय

श्री केशव देव शर्मा  
उप निरीक्षक  
रेलवे सुरक्षा बल, दामोह, आउट पोस्ट  
रेल मंत्रालय

श्री शेखावत अली  
सहायक उप निरीक्षक  
जे आर, आरपीएफ अकादमी, लखनऊ  
रेल मंत्रालय

श्री एस पनीर सेल्वम  
सहायक उप निरीक्षक  
5 बटालियन आरपीएसएफ/त्रिची  
रेल मंत्रालय

श्री सनातन राम डकौट  
उप निरीक्षक  
रेलवे सुरक्षा बल, एन एफ रेलवे,  
मुख्यालय मलीगाँव, गुवाहाटी  
रेल मंत्रालय

श्री राम कुमार शर्मा  
निरीक्षक  
रेलवे सुरक्षा बल,  
जेबीपी पोस्ट, जेबीपी संभाग  
रेल मंत्रालय

2. ये पुरस्कार सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक की स्वीकृति को विनिश्चय करने वाले नियमों के नियम 4 (ii) के अंतर्गत प्रदान किये जा रहे हैं।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

## इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2008

## संकल्प

विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(3)/2004-डी-1 (.)--इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.3.2006, 24.08.2007 और 12.9.2008 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 7 के तहत श्री बाडुगु जुकोव, सुपुत्र स्वर्गीय श्री बी. पीटर, निवासी 20वां वार्ड, वेमुरीवारी वीधी रेपले, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश से इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित किया जाता है।

## आदेश

आदेश है कि प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह  
संयुक्त सचिव

दिनांक 23 दिसम्बर 2008

## संकल्प

विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(3)/2004-डी-1 (.)--इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.3.2006, 24.08.2007 और 12.9.2008 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 7 के तहत नीचे कॉलम (4) में दर्शाए गए सदस्यों के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद में उनके नाम के सामने दर्शाए गए राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित किया जाता है :--

क्र. सं.	नामित सदस्य का नाम तथा पता	राज्य का नाम	उन सदस्यों का नाम तथा पता जिनकी सदस्यता समाप्त की गई है
1.	श्री बी. नारायणस्वामी, निवासी 113/10, छठी मेन रोड, एम.सी. लेआउट, विजयनगर, बैंगलूर (कर्नाटक)	कर्नाटक	श्री गौतम चंद लुनावत, नं. 97, अरिहंत आर. रूपा, लुनावत भवन, लक्ष्मी रोड, शांतिनगर, बैंगलूर-560027
2.	श्री संजय आर. सुरजेश्वर निवासी बी. धर्मेश्वर टी.एच. कयारिया, माटुंगा (वैस्ट) मुंबई-400016 (महाराष्ट्र)	महाराष्ट्र	श्री एच. बी. माली निवासी # 431, रस्ता पेट नियर अपोलो थिएटर, पुणे, महाराष्ट्र
3.	श्री कल्लूरी विजय वर्धन नायडू निवासी प्लॉट नं. 19, जवाहर कालोनी,	आंध्र प्रदेश	श्री जी. रमेश भूता, निवासी 12/11-6ए, शारदा लाइब्रेरी स्ट्रीट अन्नकापाली, विशाखापत्तनम 531001

## आदेश

आदेश है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक-एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह  
संयुक्त सचिव

दिनांक 23 दिसम्बर 2008

## संकल्प

विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(3)/2004-डी-1 (.)--इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.3.2006, 24.08.2007 और 12.9.2008 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 7 के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों को इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद में उनके नाम के सामने दर्शाए गए राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित किया जाता है :--

क्र. सं.	नामित सदस्य का नाम तथा पता	राज्य का नाम
1.	श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता, निवासी 292, बहादुरगं इलाहाबाद (यू.पी.)	उत्तर प्रदेश
2.	श्री रमेश पांडे, निवासी पांडे काम्पलैक्स, मेन रोड, वरसूडीह, जमशेदपुर-831002 (झारखंड)	झारखंड
3.	श्री भरत पाल गोयल, निवासी वी.पी.ओ. हसनपुर, तहसील-होडल, जिला-पलवल, हरियाणा	हरियाणा

## आदेश

आदेश है कि प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह  
संयुक्त सचिव



दिनांक 9 जनवरी 2009

संकल्प

विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(3)/2004-डी-1(.)--इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.3.2006, 24.08.2007 और 12.9.2008 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 7 के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों को इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद में उनके नाम के सामने दर्शाए गए राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित किया जाता है :--

क्र. सं.	नामित सदस्य का नाम तथा पता	राज्य का नाम
1	2	3
1.	श्री सतीश दहिया, वीपीओ सिलाना, जिला-सोनीपत, हरियाणा	हरियाणा
2.	श्री कुलजीत सिंह नागरा, हाऊस नं. 397, फेज 3ए, मोहाली, जिला-मोहाली, पंजाब	पंजाब
3.	श्री अमिताभ चक्रवर्ती, 6ए, राधानाथ मलिक लेन, कोलकाता-700012	पश्चिम बंगाल
4.	श्री राजेश कुमार शुक्ला 557/41जी/3, ओम नगर, आलमबाग, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
5.	श्री आसिफ जाह, द्वारा ए. एम. आजमी, 4/570यू, नूर मंजिल कंपाउंड, दोधपुर, सिविल लाइन्स, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
6.	श्री वी. वैक्या, द्वारा श्री वी. अजय कुमार, 2-617 व 18, एस-4, दूसरा तल, ए ब्लॉक, लक्ष्मी सरस्वती अपार्टमेंट, एलआईसी कॉलोनी, सिख विलेज, सिकंदराबाद-500009	आंध्र प्रदेश
7.	श्री इंदरिश गांधी, के. के. रोड, मौदाहापारा, रायपुर	छत्तीसगढ़
8.	श्री जितेन्द्र बाघेल, डी-011, प्लॉट नं. 11, प्रभा अपार्टमेंट, सैक्टर-23, नई दिल्ली-110075	दिल्ली
9.	श्री रवीन्द्र सिंह चौहान, जी-13, आईएनए कॉलोनी नई दिल्ली-110023	दिल्ली

1	2	3
10.	श्री अशोक बसोया, 247, सैक्टर 55, गुडगांव पब्लिक स्कूल के पास, गुडगांव, हरियाणा	हरियाणा
11.	श्री धीरज गुप्ता, द्वारा हरियाणा कोल्ड स्टोरेज, नरवाना जिला-जिंद, हरियाणा	हरियाणा
12.	श्री ललित तिवारी, 99, ठाकुरबाड़ी रोड, साकची, जमशेदपुर, झारखंड	झारखंड
13.	श्री मनमोहन सिंह, 163, शक्ति नगर, जम्मू	जे एंड के
14.	श्री अनिल थॉमस, द्वारा वडक्केवीट्टिल हाउस, पठानामथिटा पी.ओ., केरल-689645	केरल
15.	श्री रतनेश सिंह, सिंह कुटीर, गोल्ड मिस्ट बिल्डिंग के पीछे, वकोला, सांताक्रुज, ईस्ट मुंबई-400055	महाराष्ट्र
16.	श्री धर्मेन्द्र पुरोहित, डी-4, नगर निगम ऑफिस के सामने, शास्त्री नगर, जयपुर-302016	राजस्थान
17.	श्री अशोक पांडे, 1/18, अशोक नगर, आगरा (उ. प्र.)	उत्तर प्रदेश
18.	श्री गौरव चौधरी, 9, देवीदास मार्ग, बाबा हजारा बाग, ठाकुरगंज, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
19.	श्री रंजन दीक्षित, 5/17, विकास खंड, गोमती नगर, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
20.	श्री हरिंदर सिंह डिल्लान, फार्म नया गांव गुमसानी, तहसील बाजपुर, जिला-ऊधम सिंह नगर, उत्तरांचल-262401	उत्तरांचल
21.	श्री अखिलेश कुमार अग्रवाल, मै. राजश्री एंटरप्राइजेज, संगीता अपार्टमेंट, एलआईसी कॉलोनी रोड, सिंगरोली-486889, म.प्र.	मध्य प्रदेश
22.	श्री शशि भूषण शुक्ला (शोले) द्वारा श्री एस. बाला सुब्रमण्यम, 5, यमुना टीएसएन अपार्टमेंट्स, त्रिची रोड, कोयंबटूर-641005	तमिलनाडु

आदेश

आदेश है कि प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह  
संयुक्त सचिव

#### संकल्प

विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(3)/2004-डी-1(.)--इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.3.2006, 24.08.2007 और 12.9.2008 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 7 के तहत डॉ. शशि कुमार सिंह, निवासी कनकपुरी, पूर्वी गेट जैन कॉलेज, आरा-802301, भोजपुर, बिहार को बिहार से इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद में सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित किया जाता है।

#### आदेश

आदेश है कि प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह  
संयुक्त सचिव

दिनांक 23 जनवरी 2009

#### संकल्प

विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(3)/2004-डी-1(.)--इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.3.2006, 24.08.2007 और 12.9.2008 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 7 के तहत श्री परमजीत सिंह, निवासी कोठी नं. 21, न्यू गोल्डन एवेन्यू, पंज पीर, अमृतसर, पंजाब को पंजाब से इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद में सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित किया जाता है।

#### आदेश

आदेश है कि प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह  
संयुक्त सचिव

दिनांक 2 फरवरी 2009

#### संकल्प

विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(3)/2004-डी-1(.)--इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.3.2006, 24.08.2007 और 12.9.2008 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 7 के तहत श्री राजेन्द्रन, निवासी मेलानीकुजी पोस्ट, उड्डियार पालायाम तालुक, अरियालुर जिला-612903, तमिलनाडू को तमिलनाडू से इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद में सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित किया जाता है।

#### आदेश

आदेश है कि प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह  
संयुक्त सचिव

दिनांक 4 फरवरी 2009

#### संकल्प

विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(3)/2004-डी-1(.)--इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.3.2006, 24.08.2007 और 12.9.2008 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 7 के तहत तमिलनाडू से श्री बिपुल कुमार ए. सिंह, 201, श्री कृष्ण चैंबर, चाउंड कॉलोनी, जी.आई.डी.सी. वापी, जिला वलसाड, गुजरात-396195 के स्थान पर श्री परमार कुवरबेन मुलाजीभाई, निवासी 64, अश्वमेध टेनामेंट्स, सोनारिया ब्लॉक के सामने, जनरल हास्पिटल रोड, रणखाल, अहमदाबाद-380021 को इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद में सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित किया जाता है।

#### आदेश

आदेश है कि प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह  
संयुक्त सचिव

दिनांक 16 फरवरी 2008

संकल्प

विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(3)/2004-डी-1(.) - इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.3.2006, 24.08.2007 और 12.9.2008 के समसंख्यक संकल्प में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए श्री जी. रमेश गुप्ता, निवासी 12-12-6 ए, शारदा लाइब्रेरी स्ट्रीट, अनकापाली, विशाखापत्तनम-531001, जिन्हें इस्पात मंत्रालय के दिनांक 25 जून, 2008 के समसंख्यक संकल्प के अनुसार आंध्र प्रदेश से इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, इस्पात उपभोक्ता परिषद के सदस्य बने रहेंगे।

आदेश

आदेश है कि प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह  
संयुक्त सचिव

दिनांक 18 फरवरी 2009

संकल्प

विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(3)/2004-डी-1(.) - इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.3.2006, 24.08.2007 और 12.9.2008 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 7 के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों को इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद में उनके नाम के सामने दर्शाए गए राज्य/संघ शासित प्रदेशों का

प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित किया जाता है:--

क्र. सं.	नामित सदस्य का नाम तथा पता	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम
1.	श्री अशोक गोयनका, पुत्र स्व. श्री शंकर प्रसाद गोयनका, निवासी गोयनका भवन, स्टेशन रोड, कटनी, जिला-कटनी, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
2.	श्री जगतार सिंह, पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी ग्राम कन्हैया खुर्द, पोस्ट कन्हैया कलान, द शाहकोत, जिला, जालंधर, पंजाब।	पंजाब

आदेश

आदेश है कि प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह  
संयुक्त सचिव

संकल्प

विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(3)/2004-डी-1(.) - इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.3.2006, 24.08.2007 और 12.9.2008 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 7 के तहत तमिलनाडु से श्री कल्लुरी विजय वर्धन नायडू, निवासी प्लॉट संख्या 19, जवाहर नगर कॉलोनी, ग्रैंडरघास्ट रोड, सिकंदराबाद आन्ध्र प्रदेश के स्थान पर श्री सैय्यद ताहर हुसैन पुत्र श्री सैय्यद जाफर हुसैन, निवासी मकान नं. 1-7-138/2, मुश्रीबाद, हैदराबाद को आन्ध्र प्रदेश से इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के रूप में एतद्वारा नामित किया जाता है।

आदेश

आदेश है कि प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह  
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 2009

संकल्प

विषय : इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5(3)/2004-डी-I(.)--इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.3.2006, 24.08.2007 और 12.9.2008 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 7 के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों को इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद में उनके नाम के सामने दर्शाए गए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में एतद्वारा नामित किया जाता है:--

क्र. सं.	नामित सदस्य का नाम तथा पता	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम
1	2	3
1.	श्रीमती सुनीता शर्मा ग्राम पोस्ट : इतमादी पुलिस स्टेशन, बेलदौर, जिला-खांगरिया (बिहार)	बिहार
2.	श्री केशव चौहान, आशीर्वाद, ग्राम एवं पोस्ट चांदपुर, तहसील पालमपुर, जिला-कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	हिमाचल प्रदेश
3.	डा. अनिल अवस्थी, हेल्थ केयर सेंटर, पंचरुखी, पालमपुर, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	हिमाचल प्रदेश
4.	श्री संजय सराफ, गौतम निवास, मनोरमा विहार, बोहरी, (जे एंड के)	जे एंड के
5.	श्री शिव कुमार, 730/13-बी, मेन बीडब्ल्यूएस सेकेंड स्टेज, यालाहानका, न्यू टउन, बेंगलूर-560054	कर्नाटक
6.	सुश्री रीमा जार्ज, ऐडचेरी परांबिल हाउस, पुथुपल्ली, पोस्ट-कोटायम जिला (केरल)	केरल
7.	श्री वैद्यनाथ राजभर, 291/3/5बी, बीएचईएल, रानीपुर, हरिद्वार (उत्तराखंड)	उत्तराखंड

1	2	3
8.	श्री बसंत लाल गोयल, रेक ग्राक अपार्टमेंट्स, फ्लैट नं. 501 वैस्ट ब्लॉक, हार्बर पार्क रोड, विशाखापत्तनम-530003 (आंध्र प्रदेश)	आंध्र प्रदेश
9.	श्री दीपक मिश्रा, पुत्र श्री वाई. बी. मिश्रा, आरजैड-60, गली नं. 1, दुर्गा पार्क, नई दिल्ली-45	दिल्ली
10.	श्री राजेन्द्र सिंह, उरी बोर्ड, खिखोईसानॉन, लेकाई, इंफाल, पिन-795001	मणिपुर
11.	श्री धंग खान गिन नाथदे, चौग रोड, सिमवैग, न्यूलामका, पोस्ट छुछंगपुर, पिन-795128	मणिपुर
12.	सुश्री रीना दत्ता, द्वारा श्री एस. पी. डेका, वर्ल्ड स्ट्रीट, उजान बाजार, गुवाहाटी-1	आसाम
13.	डॉ. समीम अख्तर, उजान बाजार-1, आईडीएल फॉर्मिंग के पास, तुस्ती अपार्टमेंट, गुवाहाटी, उजान बाजार-1, आसाम	आसाम
14.	श्री जे. पी. राय, आसाम लिंगी ग्राम, गंगटोक, सिक्किम ईस्ट	सिक्किम
15.	श्री राजेन कुमार सुन्दर, शेब्य, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम, गंगटोक, सिक्किम	सिक्किम
16.	श्री एच-बोब लिंगदोहए डमथिंग हाउस, नांगखीरेम, नार्गथीमाई, शिलांग-14	मेघालय
17.	श्री शलमान लिंगदोह, पुत्र स्वर्गीय ई-मार्नगर, लुंमसोहरा, गोल्लेप, लैपांमखराह, शिलांग-3, मेघालय	मेघालय
18.	श्री तास्सो ग्यूथ, द्वारा मैसर्स एस. के. एंटरप्राइजेज, जीरो प्वाइंट, इट नगर, अरुणाचल प्रदेश	मिजोरम
19.	श्री आर. लालगुलीना, पुईकॉल नार्थ, रोइया के पास, मेमोरियल हाई स्कूल, आईजोल, पिन-796001	मिजोरम
20.	श्री डेबिड लालगोसंगा, एच/सी नं. ई-98/ए, प्रेपईरियन के पास, चेंज रामलुन, नार्थ आईजोल, पिन-796012	मिजोरम

1	2	3	1	2	3
21.	श्री राजेश धाम जी शाह, पुत्र श्री धामजी शाह, निवासी-1803/1804, राज श्री टॉवर, रॉयल कॉम्प्लैक्स, ओल्ड गोवा	गोवा		थिरुवैकटपुरम्, पोन्नेरी-601204 (तमिलनाडु)	
22.	श्री इब्राहिम खान, 108/20, दिलकुशा स्ट्रीट, कोलकाता-17, (वेस्ट बंगाल)	वेस्ट बंगाल	27.	श्री टेनी एंटेनी, पुत्र श्री एम. ए. एंटेनी, 6/ए, सेंट जॉर्ज टॉवर्स, पालारीवट्टम, कोचीन-682025, केरल	केरल
23.	श्री सुब्रत मुखर्जी, 89, नार्कट डांगा, मेन रोड, कोलकाता-54, (वेस्ट बंगाल)	वेस्ट बंगाल	आदेश		
24.	श्री अचुमबेमो किर्कोग, कोहिमा-797001 (नागालैंड)	नागालैंड	आदेश है कि प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।		
25.	श्री नाक्रो एलहुजहापो, वेस्टर्न अंगामी, कोहिमा-797001 (नागालैंड)	नागालैंड	2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।		
26.	श्री पी. के. राजसेलवान, निवासी-232, बालामुर्गन नगर,	तमिलनाडु			एम. के. राय उप सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2008

सं. 12-7/2006-टीएस-I--भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के नियम 10.1 (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :--

1. लघु शीर्षक और आरंभ : (1) इन नियमों को भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता (निदेशक) भर्ती नियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा: इन नियमों में, यदि संदर्भ कुछ और न हो तो:

(क) "संघ ज्ञापन और नियमावली" का अर्थ है भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के संघ ज्ञापन और नियम;

(ख) "सेवा नियमावली" का अर्थ है भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता सेवा नियम;

(ग) "निदेशक" का अर्थ है भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के नियम 10.1(ii) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के निदेशक।

3. भर्ती और अन्य मामलों का तरीका:-- निदेशक के पद पर भर्ती और अन्य मामलों के संबंध में इन नियमों की अनुसूची के कालम 1 से 10 में दिए गए तरीके मान्य होंगे।

4. अयोग्यता: ऐसा कोई भी व्यक्ति उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो; अथवा

ii) जिसने एक पति अथवा पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होगा :

बशर्ते केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और इस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट प्रदान कर दे।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार:- जहां केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि यह आवश्यक अथवा समीचीन है तो सरकार लिखित में इन नियमों के किसी प्रावधान से किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।
6. प्रतिबंध:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सेवानिवृत्त मैनिक् और अन्य विशिष्ट वर्गों के संबंध में समय-समय पर आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और आवश्यक छूट प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा।
7. सेवा की अन्य शर्तें:- निदेशक की सेवा की अन्य शर्तें जिनका इन नियमों में विशेष प्रावधान नहीं है उन्हें केन्द्र सरकार समूह-ए के ऐसे अधिकारियों पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो तदनु रूप वेतनमान में वेतन एवं भत्ते ले रहे हैं।

अशोक ठाकुर  
अपर सचिव

### अनुसूची

1. पद का नाम	निदेशक
2. पदों की संख्या	एक
3. वेतनमान	26,000/- रुपये (नियत)
4. वर्गीकरण	यह लागू नहीं है क्योंकि यह भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता से संबंधित है जो भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।
5. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा	अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन द्वारा और विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के प्रमुखों से नामांकन मंगाने के द्वारा आवेदकों पर विचार किया जाता है।
6. आयु सीमा	आवेदकों/नामित व्यक्तियों को आवेदनों/नामांकनों के लिए अंतिम तारीख के समय 60 वर्ष का होना चाहिए।
7. शैक्षिक अर्हता और अनुभव	निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी है। वह एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जो अनुसंधान हेतु नेतृत्व प्रदान करेगा और उसे प्रशासनिक एवं शिक्षण का अनुभव होना चाहिए तथा प्रोफेसर की अर्हता वालों का प्राथमिकता दी जाएगी।
8. यदि भर्ती प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा ग्रेड के आधार पर हो	लागू नहीं।
9. प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध पर की गई नियुक्ति की समय सीमा	निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा पांच वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त होगा। एक नियुक्त व्यक्ति एक से अधिक कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
10. चयन समिति का गठन	चयन उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इस उद्देश्य से बनाई गई खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यावेदकों के पैनल के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः:-

(1) मानव संसाधन विकास मंत्री

-अध्यक्ष

(2) अध्यक्ष, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर

-सदस्य

(3) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग

-सदस्य

## (iv) भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों के दो सचिव

-सदस्य

खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफाशि किए गए नाम/पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यदि एक वर्ष की अवधि में पैनल से कोई चयन नहीं किया जाता है तो नया पैनल बनाने के लिए नई खोज-सह-चयन समिति बनाई जाएगी। ऐसी खोज-सह-चयन समिति पहले पैनल में संस्तुत किए गए व्यक्तियों के नाम पर भी विचार करेगी।

सं. 12-7/2006-टीएस-I--भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे, के नियम 10.1 (ii) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाए हैं :--

1. लघु शीर्षक और आरंभ : (1) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे (निदेशक) भर्ती नियम, 2007 कहा जा सकता है।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा: इन नियमों में, यदि संदर्भ कुछ और न हो तो:

(क) "संघ ज्ञापन और नियमों" का अर्थ है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे के संघ ज्ञापन और नियमों से है;

(ख) "सेवा नियम" का अर्थ है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे सेवा नियमों से है;

(ग) "निदेशक" का अर्थ है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे के नियमों के खण्ड 10.1(ii) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे के निदेशक से है।

3. भर्ती और अन्य मामलों का तरीका:-- निदेशकों के पद पर भर्ती और अन्य मामलों के संबंध में इन नियमों की अनुसूची के कालम 1 से 10 में दिए गए तरीके मान्य होंगे।

4. अयोग्यता: ऐसा कोई भी व्यक्ति उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो; अथवा

ii) जिसने एक पति अथवा पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होगा :

यदि केन्द्र सरकार यह समझती है कि ऐसा विवाह संबंध व्यक्ति के वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुरोध है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो केन्द्र सरकार उक्त व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान कर सकती है।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार:-- जहां केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि यह आवश्यक अथवा समीचीन है तो सरकार लिखित में इन नियमों के किसी प्रावधान से किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचत:-- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सेवानिवृत्त सैनिक और अन्य विशिष्ट वर्गों के संबंध में समय-समय पर आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य आवश्यक छूट प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

7. सेवा की अन्य शर्तें:-- निदेशक की सेवा की अन्य शर्तें जिनका इन नियमों में विशेष प्रावधान नहीं है उन्हें केन्द्र सरकार समूह-ए के ऐसे अधिकारियों को जो तदनु रूप वेतनमान में वेतन एवं भत्ते ले रहे हैं, के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

अशोक ठाकुर,  
अपर सचिव

## अनुसूची

1.	पद का नाम	निदेशक
2.	पदों की संख्या	एक
3.	वेतनमान	26,000/- रुपये (नियत)
4.	अर्हता	यह लागू नहीं है क्योंकि यह भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे से संबंधित है जो भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।
5.	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा	अनुबंध आधार है। अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन द्वारा और विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के प्रमुखों से नामांकन मंगाने के द्वारा आवेदकों पर विचार किया जाता है।
6.	आयु सीमा	आवेदकों/नामांकनों को आवेदनों/नामांकनों के लिए अंतिम तारीख के समय 60 वर्ष का होना चाहिए।
7.	शैक्षिक अर्हता और अनुभव	(क) निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे एक विशिष्ट व्यक्ति हों जो अनुसंधान के लिए आगे आएँ और उनके पास प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुभव हो, उनके पास प्रोफेसर की अर्हता हो।
8.	यदि भर्ती प्रतिनियुक्ति अथवा ग्रेड के आधार पर हो	लागू नहीं।
9.	प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध पर की गई नियुक्ति की समय सीमा	अनुबंध आधार पर 5 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की जाएगी। इस तरह नियुक्त व्यक्ति एक कार्यकाल से अधिक पुनः नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
10.	चयन समिति का गठन	उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा चयन के उद्देश्य से बनाई गई खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यावेदनों के पैनल के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा चयन किया जाएगा। खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः—  (i) मानव संसाधन विकास मंत्री  अध्यक्ष  (ii) अध्यक्ष, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर  -सदस्य  (iii) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग  -सदस्य  (iv) भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों के दो सचिव  सचिव-सदस्य  खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नाम/पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यदि एक वर्ष की अवधि में पैनल से कोई चयन नहीं किया जाता है तो नया पैनल बनाने के लिए एक नई खोज-सह-चयन समिति बनाई जाएगी। ऐसी खोज-सह-चयन समिति पहले पैनल में सिफारिश किए गए व्यक्तियों के नामों पर भी विचार करेगी।



सं. 12-7/2006-टीएस-1--भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली के नियम 12.1 (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :--

1. लघु शीर्षक और आरंभ : (1) इन नियमों को भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली (निदेशक) भर्ती नियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह नियमासंस्कारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा: इन नियमों में, यदि संदर्भ कुछ और न हो तो:

(क) "संघ ज्ञापन और नियमावली" का अर्थ है भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली के संघ ज्ञापन और नियम;

(ख) "सेवा नियमावली" का अर्थ है भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली सेवा नियम;

(ग) "निदेशक" का अर्थ है भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली के नियम 12.1(ii) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली के निदेशक।

3. भर्ती और अन्य मामलों का तरीका:-- निदेशक के पद पर भर्ती और अन्य मामलों के संबंध में इन नियमों की अनुसूची के कालम 1 से 10 में दिए गए तरीके मान्य होंगे।

4. अयोग्यता: ऐसा कोई भी व्यक्ति उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो; अथवा

ii) जिसने एक पति अथवा पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होगा :

बशर्ते केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और इस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट प्रदान कर दे।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार:-- जहां केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि यह आवश्यक अथवा समीचीन है तो सरकार लिखित में इन नियमों के किसी प्रावधान से किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

6. प्रतिबंध:-- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सेवानिवृत्त सैनिक और अन्य विशिष्ट वर्गों के संबंध में समय-समय पर आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य आवश्यक छूट प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

7. सेवा की अन्य शर्तें:-- निदेशक की सेवा की अन्य शर्तें जिनका इन नियमों में विशेष प्रावधान नहीं है उन्हें केन्द्र सरकार समूह-ए के ऐसे अधिकारियों पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। जो तदनुरूप वेतनमान में वेतन एवं भत्ते ले रहे हैं।

अशोक ठाकुर

अपर सचिव

#### अनुसूची

1. पद का नाम	निदेशक
2. पदों की संख्या	एक
3. वेतनमान	26,000/- रुपए (नियत)
4. वर्गीकरण	यह लागू नहीं है क्योंकि यह पद भारतीय विज्ञान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली से संबंधित है जो भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।
5. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा	अनुबंध आधार पर। अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन द्वारा और विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के प्रमुखों से नामांकन मंगाने के द्वारा आवेदकों पर विचार किया जाता है।

6. आयु सीमा आवेदकों/नामिन व्यक्तियों को आवेदनों/नामांकनों के लिए अंतिम तारीख के समय 60 वर्ष का होना चाहिए।
7. शैक्षिक अर्हता और अनुभव निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी है। वह एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जो अनुसंधान हेतु नेतृत्व प्रदान करेगा और उसे प्रशासनिक एवं शिक्षण का अनुभव होना चाहिए तथा प्रोफेसर की अर्हता वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. यदि भर्ती प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा ग्रेड के आधार पर हो लागू नहीं।
9. प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध पर की गई नियुक्ति की समय सीमा निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति होगा। एक नियुक्त व्यक्ति एक से अधिक कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
10. चयन समिति का गठन चयन उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इस उद्देश्य से बनाई गई खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यावेदकों के पैनल के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः---
- (i) मानव संसाधन विकास मंत्री  
-अध्यक्ष
  - (ii) अध्यक्ष, संस्था के चार्ज ऑफ गवर्नर  
-सदस्य
  - (iii) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग  
-सदस्य
  - (iv) भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों के दो सचिव  
-सदस्य
- खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नाम/पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यदि एक वर्ष की अवधि में पैनल से कोई चयन नहीं किया जाता है तो नया पैनल बनाने के लिए नई खोज-सह-चयन समिति बनाई जाएगी। ऐसी खोज-सह-चयन समिति पहले पैनल में संस्तुत किए गए व्यक्तियों के नाम पर भी विचार करेगी।

सं. 12-7/2006-टीएस-I--भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम, के नियम के खंड 10(क)(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाए हैं :--

1. लघु शीर्षक और आरंभ : (1) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम, (निदेशक) भर्ती नियम, 2007 कहा जा सकता है।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. परिभाषा :-- इन नियमों में, यदि संदर्भ कुछ और न हो तो :

(क) "संघ ज्ञापन और नियमों" का अर्थ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम, के संघ ज्ञापन और नियमों से है;

(ख) "सेवा नियम" का अर्थ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम, के सेवा नियमों से है;

(ग) "निदेशक" का अर्थ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम, के सेवा नियमों के खण्ड 10(क)(2) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान के निदेशक से है।

3. भर्ती और अन्य मामलों का तरीका :--निदेशकों के पद पर भर्ती और अन्य मामलों के संबंध में इन नियमों की अनुसूची के कालम 1 से 10 में दिए गए तरीके मान्य होंगे।

## 4. अयोग्यता :-- कोई व्यक्ति,

- (i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो; अथवा
- (ii) जिसने एक पति अथवा पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होगा :

यदि केन्द्र सरकार यह समझती है कि ऐसा विवाह सम्बंध व्यक्ति के वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुरोध है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो केन्द्र सरकार उस व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान कर सकती है।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार :--जहां केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि यह आवश्यक अथवा समीचीन है तो सरकार लिखित में इन नियमों के किसी प्रावधान से किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचत :--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सेवानिवृत्त सैनिक और अन्य विशिष्ट वर्गों के संबंध में समय-समय पर आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य आवश्यक छूट प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

7. सेवा की अन्य शर्तें :--निदेशक की सेवा की अन्य शर्तें जिनका इन नियमों में विशेष प्रावधान नहीं है उन्हें केन्द्र सरकार समूह-ए के ऐसे अधिकारियों को जो तदनु रूप वेतनमान में वेतन एवं भत्ते ले रहे हैं, के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

अशोक ठाकुर  
अपर सचिव

## अनुसूची

- |  |  |
|--|--|
| 1. पद का नाम   | निदेशक   |
| 2. पदों की संख्या  | एक   |
| 3. वेतनमान   | 25,000/- रुपये (नियत)  |
| 4. अर्हता  | यह लागू नहीं है क्योंकि यह पद भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम, से संबंधित है जो भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।  |
| 5. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा | अनुबंध आधार है।<br>अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन द्वारा और विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के प्रमुखों से नामांकन मंगाने के द्वारा आवेदकों पर विचार किया जाता है।  |
| 6. आयु सीमा  | आवेदकों/नामांकनों को आवेदनों/नामांकनों के लिए अंतिम तारीख के समय 60 वर्ष का होना चाहिए। यह नियुक्ति 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, अनुबंध आधार पर की जानी चाहिए।  |
| 7. शैक्षिक अर्हता और अनुभव   | (क) निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी है। उसमें आयोजन और लीडरशिप क्षमताओं के अलावा सामान्य तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी के और विशेष तौर पर इंजीनियरिंग, डिजाइन और विनिर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने के संबंध में रुचि होनी चाहिए। उसका शैक्षणिक रिकार्ड (इंजीनियरिंग/विज्ञान में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में पीएच.डी. डिग्री और प्रशासनिक रिकार्ड बहुत अच्छा होना चाहिए।)<br>(ख) अभ्यावेदक को 60 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए। |
| 8. यदि भर्ती प्रतिनियुक्ति अथवा ग्रेड के आधार पर हो                    | लागू नहीं।   |
| 9. प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध पर की गई नियुक्ति की समय सीमा             | अनुबंध आधार पर 5 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की जाएगी।   |
| 10. चयन समिति का गठन   | उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा चयन के उद्देश्य से बनाई गई खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यावेदकों के पैनल के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा चयन किया जाएगा। खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः--  |

- (i) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग-- अध्यक्ष
- (ii) अध्यक्ष, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर-- सदस्य
- (iii) मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा नामित दो अन्य तकनीकी विशेषज्ञ/विशिष्ट शिक्षाविद्-- सदस्य
- (iv) ब्यूरो प्रमुख (तकनीकी शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय-- संयोजक

खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नाम/पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यदि एक वर्ष की अवधि में पैनल से कोई चयन नहीं किया जाता है तो नया पैनल बनाने के लिए एक नई खोज-सह-चयन समिति बनाई जाएगी। ऐसी खोज-सह-चयन समिति पहले पैनल में सिफारिश किए गए व्यक्तियों के नाम पर भी विचार करेगी।

सं. 12-7/2006-टीएस-I--पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के नियमावली के खंड 10(क)(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :--

1. लघु शीर्षक और आरंभ : (1) इन नियमों को पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर (निदेशक) भर्ती नियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा :-- इन नियमों में, यदि संदर्भ कुछ और न हो तो :

- (क) "संघ ज्ञापन और नियमावली" का अर्थ है कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के संघ ज्ञापन और नियम;
- (ख) "सेवा नियमावली" का अर्थ है कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के सेवा नियम;
- (ग) "निदेशक" का अर्थ है कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर की सेवा नियमावली के खंड 10(क)(2) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के निदेशक।

3. भर्ती और अन्य मामलों का तरीका :--निदेशक के पद पर भर्ती और अन्य मामलों के संबंध में इन नियमों की अनुसूची के कालम 1 से 10 में दिए गए तरीके मान्य होंगे।

4. अयोग्यता : ऐसा कोई भी व्यक्ति उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

- (i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो; अथवा
- (ii) जिसने एक पति अथवा पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया हो,

बशर्ते केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और इस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुपेक्षित है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट प्रदान कर दे।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार :--जहां केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि यह आवश्यक अथवा समीचीन है तो सरकार लिखित में इन नियमों के किसी प्रावधान से किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

6. प्रतिबंध :--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सेवानिवृत्त सैनिक और अन्य विशिष्ट वर्गों के संबंध में समय-समय पर आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य आवश्यक छूट प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

7. सेवा की अन्य शर्तें :--निदेशक की सेवा की अन्य शर्तें जिनका इन नियमों में विशेष प्रावधान नहीं है उन्हें केन्द्र सरकार समूह-ए के ऐसे अधिकारियों पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो तदनुसार वेतनमान में वेतन एवं भत्ते ले रहे हैं।

अशोक ठाकुर  
अपर सचिव

## अनुसूची

1. पद का नाम	निदेशक
2. पदों की संख्या	एक
3. वेतनमान	25000/- रुपये (नियत)
4. वर्गीकरण	यह लागू नहीं है क्योंकि यह पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर से संबंधित है जो भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।
5. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा	अनुबंध आधार पर। अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन द्वारा और विभिन्न संस्थानों/संगठनों के प्रमुखों से नामांकन मंगाने के द्वारा आवेदकों पर विचार किया जाता है।
*6. आयु सीमा	आवेदकों/नामांकनों को आवेदनों/ नामांकनों के लिए अंतिम तारीख के समय 60 वर्ष का होना चाहिए। यह नियुक्ति 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, अनुबंध आधार पर की जानी चाहिए।
7. शैक्षिक अर्हता और अनुभव	(क) निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी है। उसमें आयोजन और लीडरशिप क्षमताओं के अलावा सामान्य तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी के और विशेष तौर पर इंजीनियरिंग, डिजाइन और विनिर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने के संबंध में रुचि होनी चाहिए। उसका शैक्षणिक रिकार्ड (इंजीनियरिंग/विज्ञान में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री सहित पीएच.डी) और प्रशासनिक रिकार्ड बहुत अच्छे होना चाहिए। (ख) अभ्यर्थी के पास एक प्रोफेसर की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। (ग) अभ्यावेदक को 60 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
8. यदि भर्ती प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा ग्रेड के आधार पर हो	लागू नहीं।
9. प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध पर की गई नियुक्ति की समय सीमा	अनुबंध आधार पर 5 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की जाएगी।
10. चयन समिति का गठन	उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इस उद्देश्य से बनाई गई खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यावेदकों के पैनल के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा चयन किया जाएगा। खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः-- (i) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग --अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर --सदस्य (iii) मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा नामित दो अन्य तकनीकी विशेषज्ञ/विशिष्ट शिक्षाविद् --सदस्य (iv) ब्यूरो प्रमुख (तकनीकी शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय --संयोजक खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नाम/पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यदि एक वर्ष की अवधि में पैनल से कोई चयन नहीं किया जाता है तो नया पैनल बनाने के लिए नई खोज-सह-चयन समिति बनाई जाएगी। ऐसी खोज-सह-चयन समिति पहले पैनल में संस्तुत किए गए व्यक्तियों के नाम पर भी विचार करेगी।

सं. 12-7/2006-टीएस-I-- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद की नियमावली के खंड 10(क)(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :--

1. लघु शीर्षक और आरंभ : (1) इन नियमों को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (निदेशक) भर्ती नियम, 2007 कहा जाएगा।  
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. परिभाषा: इन नियमों में, यदि संदर्भ कुछ और न हो तो:  
(क) "संघ ज्ञापन और नियमावली" का अर्थ है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के संघ ज्ञापन और नियम;  
(ख) "सेवा नियमावली" का अर्थ है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के सेवा नियम;  
(ग) "निदेशक" का अर्थ है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद की सेवा नियमावली के खण्ड 10(क)(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के निदेशक।
3. भर्ती और अन्य मामलों का तरीका:-- निदेशक के पद पर भर्ती और अन्य मामलों के संबंध में इन नियमों की अनुसूची के कालम 1 से 10 में दिए गए तरीके मान्य होंगे।
4. अयोग्यता: ऐसा कोई भी व्यक्ति उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,  
(i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो; अथवा  
(ii) जिसने एक पति अथवा पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया हो,  
बशर्ते केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और इस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुपेक्षित है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट प्रदान कर दे।
5. छूट प्रदान करने का अधिकार:-- जहां केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि यह आवश्यक अथवा समीचीन है तो सरकार लिखित में इन नियमों के किसी प्रावधान से किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।
6. प्रतिबंध:-- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सेवानिवृत्त सैनिक और अन्य विशिष्ट वर्गों के संबंध में समय-समय पर आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य आवश्यक छूट प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा।
7. सेवा की अन्य शर्तें:-- निदेशक की सेवा की अन्य शर्तें जिनका इन नियमों में विशेष प्रावधान नहीं है उन्हें केन्द्र सरकार समूह-ए के ऐसे अधिकारियों पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो तदनु रूप वेतनमान में वेतन एवं भत्ते ले रहे हैं।

अशोक ठाकुर  
अपर सचिव

#### अनुसूची

1. पद का नाम	निदेशक
2. पदों की संख्या	एक
3. वेतनमान	25000/- रुपए (नियत)
4. वर्गीकरण	यह लागू नहीं है क्योंकि यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद से संबंधित है जो भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।
5. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा	अनुबंध आधार पर। अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन द्वारा और विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के प्रमुखों से नामांकन मंगाने के द्वारा आवेदकों पर विचार किया जाता है।
6. आयु सीमा	आवेदकों/नामांकनों को आवेदन/नामांकनों के लिए अंतिम तारीख के समय 60 वर्ष का होना चाहिए। यह नियुक्ति 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, अनुबंध आधार पर की जानी चाहिए।
7. शैक्षिक अर्हता और अनुभव	(क) निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी है। उसमें लीडरशिप क्षमताओं के अलावा सामान्य तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी के और विशेष तौर पर इंजीनियरिंग, प्रबंध शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान करने के संबंध में रुचि होनी चाहिए। उसका शैक्षणिक रिकार्ड (इंजीनियरिंग/विज्ञान में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री सहित पीएच.डी.) और प्रशासनिक रिकार्ड बहुत अच्छा होना चाहिए।

- (ख) अभ्यर्थी के पास एक प्रोफेसर की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।
- (ग) अभ्यावेदक को 60 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
8. यदि भर्ती प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा ग्रेड के आधार पर हो
9. प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध पर की गई नियुक्ति की समय सीमा
10. चयन समिति का गठन
- अनुबंध आधार पर 5 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की जाएगी।
- उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इस उद्देश्य से बनाई गई खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यावेदकों के पैनल के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा चयन किया जाएगा। खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः--
- (i) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग --अध्यक्ष
- (ii) अध्यक्ष, संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर --सदस्य
- (iii) मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा नामित दो अन्य तकनीकी विशेषज्ञ/विशिष्ट शिक्षाविद् --सदस्य
- (iv) ब्यूरो प्रमुख (तकनीकी शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय --संयोजक
- खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नाम/पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यदि एक वर्ष की अवधि में पैनल से कोई चयन नहीं किया जाता है तो नया पैनल बनाने के लिए नई खोज-सह-चयन समिति बनाई जाएगी। ऐसी खोज-सह-चयन समिति पहले पैनल में संस्तुत किए गए व्यक्तियों के नाम पर भी विचार करेगी।

-----

सं. 12-7/2006-टीएस-I--अटल बिहारी वाजपेयी--भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर की नियमावली के खंड 10(क)(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :--

1. लघु शीर्षक और आरंभ : (1) इन नियमों को अटल बिहारी वाजपेयी--भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर (निदेशक) भर्ती नियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा: इन नियमों में, यदि संदर्भ कुछ और न हो तो:

- (क) "संघ ज्ञापन और नियमावली" का अर्थ है अटल बिहारी वाजपेयी--भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के संघ ज्ञापन और नियम;
- (ख) "सेवा नियमावली" का अर्थ है अटल बिहारी वाजपेयी--भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के सेवा नियम;
- (ग) "निदेशक" का अर्थ है अटल बिहारी वाजपेयी--भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर की सेवा नियमावली के खण्ड 10(क)(2) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अटल बिहारी वाजपेयी--भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के निदेशक।

3. भर्ती और अन्य मामलों का तरीका:-- निदेशक के पद पर भर्ती और अन्य मामलों के संबंध में इन नियमों की अनुसूची के कालम 1 से 10 में दिए गए तरीके मान्य होंगे।

4. अयोग्यता: ऐसा कोई भी व्यक्ति उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

- (i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो, अथवा
- (ii) जिसने एक पति अथवा पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया हो,

बशर्ते केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और इस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुपेक्षित है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट प्रदान कर दे।

5. छूट प्रदान करने का अधिकार:-- जहां केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि यह आवश्यक अथवा समीचीन है तो सरकार लिखित में इन नियमों के किसी प्रावधान से किसी वर्ग अथवा श्रेणी अथवा व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

6. प्रतिबंध:-- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सेवानिवृत्त सैनिक और अन्य विशिष्ट वर्गों के संबंध में समय-समय पर आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य आवश्यक छूट प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

7. सेवा की अन्य शर्तें:- निदेशक की सेवा की अन्य शर्तें जिनका इन नियमों में विशेष प्रावधान नहीं है उन्हें केन्द्र सरकार समूह-ए के ऐसे अधिकारियों पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो तदनु रूप वेतनमान में वेतन एवं भत्ते ले रहे हैं।

अशोक ठाकुर  
अपर सचिव

#### अनुसूची

- |  |  |
|--|--|
| 1. पद का नाम   | निदेशक   |
| 2. पदों की संख्या  | एक   |
| 3. वेतनमान   | 25000/- रूपए (नियत)  |
| 4. वर्गीकरण  | यह लागू नहीं है क्योंकि यह अटल बिहारी वाजपेयी--भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर से संबंधित है जो भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।  |
| 5. भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा | अनुबंध आधार पर।<br>अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु खुले विज्ञापन द्वारा और विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के प्रमुखों से नामांकन मंगाने के द्वारा आवेदकों पर विचार किया जाता है।  |
| 6. आयु सीमा  | आवेदकों/नामांकनों को आवेदनों/ नामांकनों के लिए अंतिम तारीख के समय 60 वर्ष का होना चाहिए। यह नियुक्ति 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, अनुबंध आधार पर की जानी चाहिए।   |
| 7. शैक्षिक अर्हता और अनुभव   | (क) निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी है। उसमें आयोजन और लीडरशिप क्षमताओं के अलावा विशेष तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध शिक्षा में रुचि होनी चाहिए। उसका शैक्षणिक रिकार्ड (इंजीनियरिंग/विज्ञान में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री सहित पीएच.डी) और प्रशासनिक रिकार्ड बहुत अच्छा होना चाहिए।<br>(ख) अभ्यर्थी के पास एक प्रोफेसर की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।<br>(ग) अभ्यावेदक को 60 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए।  |
| 8. यदि भर्ती प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा ग्रेड के आधार पर हो             | लागू नहीं।   |
| 9. प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध पर की गई नियुक्ति की समय सीमा             | अनुबंध आधार पर 5 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की जाएगी।   |
| 10. चयन समिति का गठन   | उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इस उद्देश्य से बनाई गई खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यावेदकों के पैनल के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा चयन किया जाएगा। खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः:-<br>(i) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग --अध्यक्ष<br>(ii) अध्यक्ष, संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर --सदस्य<br>(iii) मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा नामित दो अन्य तकनीकी विशेषज्ञ/विशिष्ट शिक्षाविद --सदस्य<br>(iv) ब्यूरो प्रमुख (तकनीकी शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय --संयोजक<br>खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नाम/पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यदि एक वर्ष की अवधि में पैनल से कोई चयन नहीं किया जाता है तो नया पैनल बनाने के लिए नई खोज-सह-चयन समिति बनाई जाएगी। ऐसी खोज-सह-चयन समिति पहले पैनल में संस्तुत किए गए व्यक्तियों के नाम पर भी विचार करेगी। |



## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2009

No. 40-Pres/2009.—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2009 to award the President's Police Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers :—

Shri Nanduri Sambasiva Rao,  
Commissioner of Police,  
Visakhapatnam City,  
Andhra Pradesh.

Dr. Mannam Malakondaiiah,  
Inspector General of Police,  
Police Transport Organisation, Petlaburj,  
Hyderabad,  
Andhra Pradesh.

Shri Kattherisetty Satyanarayana Rao,  
Deputy Inspector General of Police,  
CID, Hyderabad,  
Andhra Pradesh.

Shri Palli Rama Rao,  
Additional Deputy Commissioner of Police (Crimes),  
Visakhapatnam City,  
Andhra Pradesh.

Shri Deepak Mishra,  
Inspector General of Police,  
Itanagar,  
Arunachal Pradesh.

Shri Rajendra Kumar,  
Inspector General of Police,  
A.P. HQ, Ulubari, Guwahati,  
Assam.

Shri Rewati Charan Patel,  
Inspector General of Police,  
AJK, PHQ, Raipur,  
Chhattisgarh.

Shri Amulya Kumar Patnaik,  
Joint Commissioner of Police,  
PHQ, New Delhi,  
NCT of Delhi.

Shri Ajay Kashyap,  
Joint Commissioner of Police,  
PHQ, New Delhi,  
NCT of Delhi.

Shri Laxmi Narain Rao,  
Assistant Commissioner of Police,  
Special Cell,  
NCT of Delhi.

Shri Kishan Kumar,  
Inspector General of Police,  
PHQ, Panaji,  
Goa.

Shri Rakesh Asthaana,  
Commissioner of Police,  
Vadodara City,  
Gujarat.

Shri Ranjitsinh B. Rana,  
Deputy Superintendent of Police,  
Sarkhej Division, Ahmedabad Rural,  
Gujarat.

Shri Lekh Raj,  
Sub Inspector  
SVB Panchkula,  
Haryana.

Shri Roshan Lal Vashisht,  
Deputy Superintendent of Police,  
Shimla,  
Himachal Pradesh.

Shri Ram Lubhaya,  
Inspector General of Police,  
Personnel/Training,  
Jammu and Kashmir.

Shri Naresh Prasad Singh,  
Deputy Inspector General of Police,  
South Chhotanagpur Range, Ranchi  
Jharkhand.

Shri Prem Shankar Meena,  
Inspector General of Police & Executive Director  
Karnataka State Police Housing Corporation,  
Bangalore,  
Karnataka.

Shri M. N. Reddi,  
Inspector General of Police,  
COD, Carlton House, Bangalore,  
Karnataka.

Shri M. G. Nagendra Kumar,  
Deputy Superintendent of Police,  
Intelligence, Bangalore,  
Karnataka.

Shri T. P. Senkumar,  
Inspector General of Police,  
Chairman and Managing Director, KSRTC,  
Thiruvananthapuram,  
Kerala.

Shri S. Gopinath,  
Deputy Inspector General of Police,  
Intelligence, SB CID, Thiruvananthapuram,  
Kerala.

Shri Sanjay Choudhary,  
Inspector General of Police/Director Sports &  
Youth Welfare, Bhopal,  
Madhya Pradesh.

Shri Sukhraj Singh,  
Inspector General of Police,  
PHQ, Bhopal,  
Madhya Pradesh.

Shri Subodh Kumar Jaiswal,  
Additional Commissioner of Police,  
Special Bureau, Mumbai,  
Maharashtra.

Shri Shivaji Dagdu Patil,  
Assistant Sub Inspector,  
Kopari Police Station, Thane City,  
Maharashtra.

Shri Lingaraj Parida,  
Superintendent of Police,  
Police Motor Transport, Cuttack,  
Orissa.

Shri Anil Kumar Bal,  
Deputy Commandant,  
OSAP 6th Bn. Cuttack,  
Orissa.

Shri Rajinder Pal Singh Brar,  
Deputy Inspector General of Police,  
Chandigarh,  
Punjab.

Shri Kapil Garg,  
Inspector General of Police,  
Anti Corruption Bureau, Jaipur,  
Rajasthan.

Shri Bhim Kumar Roka,  
Deputy Inspector General of Police,  
R/Lines PHQ,  
Sikkim.

Shri K. Rajendran,  
Additional Director General of Police,  
Member, Tnsurb, Chennai,  
Tamil Nadu.

Shri K. Radhakrishnan,  
Additional Director General of Police,  
Civil Supplies CID, Chennai,  
Tamil Nadu.

Shri Anand Lal Banerjee,  
Inspector General of Police,  
CB, CID, Lucknow,  
Uttar Pradesh.

Shri Gurdarshan Singh,  
Inspector General of Police,  
Meerut Zone, Meerut,  
Uttar Pradesh.

Shri Ved Pal Singh Verma,  
Deputy Superintendent of Police,  
PAC, HQ, Lucknow,  
Uttar Pradesh.

Shri Amar Kanti Sarkar,  
Inspector General of Police,  
Railways,  
West Bengal.

Shri Subir Kumar Chatterjee,  
Inspector,  
North 24 Paraganas, Titagarh PS,  
West Bengal.

Shri Kashmir Singh Pabla,  
Deputy Superintendent of Police,  
Port Blair,  
Andaman and Nicobar Islands.

Shri Chilumuri Venkata Muralidhar,  
Inspector General,  
FTR, HQ SB, Kolkata,  
Border Security Force.

Shri Rajinder Mani,  
Deputy Inspector General,  
FHQ, New Delhi,  
Border Security Force.

Shri Pulickel Joseph Sebastian,  
Deputy Inspector General,  
Prov. Dte. FHQ, New Delhi,  
Border Security Force.

Dr. (Mrs.) Susana Thomas  
Deputy Inspector General (Med.),  
Composite Hospital, Jalandhar Cantt., Punjab,  
Border Security Force.

Shri Rajni Kant Mishra,  
Joint Director (EOW-II),  
New Delhi,  
Central Bureau of Investigation.

Shri Hitesh Chandra Awasthy,  
Joint Director (ACHQ),  
New Delhi,  
Central Bureau of Investigation.

Shri Raju Rangarajan,  
Superintendent of Police,  
SU, Chennai,  
Central Bureau of Investigation.

Shri Radhakant Choubey,  
Superintendent of Police,  
CBI Academy, Ghaziabad,  
Central Bureau of Investigation.

Shri K. T. Maheshkar,  
Deputy Commandant,  
NISA, Hyderabad,  
Central Industrial Security Force.

Shri Ishaque Sharif,  
Assistant Commandant,  
FHQRS, New Delhi,  
Central Industrial Security Force.

Shri Subesh Kumar Singh,  
Inspector General of Police/Pers.,  
FHQRS, New Delhi,  
Central Reserve Police Force.

Shri Muthu Paul Nathanael,  
Deputy Inspector General of Police/OPS,  
Srinagar, C/o 56APO,  
Central Reserve Police Force.

Shri Baljeet Kumar Sharma,  
Deputy Inspector General of Police,  
CTC, Mudkhed, Nanded,  
Central Reserve Police Force.

Shri T. A. Abdul Hakeem,  
Deputy Inspector General of Police,  
RTC, Peringome, Kannur, Kerala,  
Central Reserve Police Force.

Shri Khajan Singh,  
Commandant,  
♦ 87 Bn, New Delhi.  
Central Reserve Police Force.

Smt. Neelmani N. Raju,  
Joint Director,  
New Delhi.  
Ministry of Home Affairs.

Shri Arvinda Kumar,  
Joint Director,  
Patna,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Avinash Mohanancy,  
Joint Director,  
New Delhi,  
Ministry of Home Affairs.

Shri P. S. Purohit,  
Joint Director,  
Raipur,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Sukhdev Singh Sidhu,  
♦ Joint Director,  
New Delhi,  
Ministry of Home Affairs.

Shri M. Harisena Varma,  
Joint Director,  
Trivandrum,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Prem Nath Angurala,  
Assistant Director,  
Amritsar,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Manjit Singh Lochab,  
Deputy Central Intelligence Officer,  
New Delhi,  
Ministry of Home Affairs.

Shri R. S. Pathania,  
Deputy Inspector General,  
NW(F), Chandigarh,  
Indo-Tibetan Border Police.

Shri Inder Singh Negi,  
Deputy Inspector General,  
SHQ, Bhubaneswar,  
Indo-Tibetan Border Police.

Shri R. C. Baijwan,  
Deputy Inspector General,  
SHQ, Jammu,  
Indo-Tibetan Border Police.

Shri Rup Singh,  
Area Organiser,  
FHQRS, New Delhi,  
Sashastra Seema Bal.

Shri Anup Kumar Singh,  
Inspector General of Police,  
SPG HQR, New Delhi,  
Special Protection Group.

Shri Kumar Rajesh Chandra,  
Inspector General of Police,  
SPG HQR, New Delhi,  
Special Protection Group.

Shri Venugopal K. Nair,  
Additional Director General of Police &  
Chief Vigilance Officer,  
New Delhi,  
Steel Authority of India,  
Ministry of Steel.

Shri Chandra Shekhar Ray,  
Deputy Inspector General,  
RPSF, Railway Board,  
Ministry of Railways.

Shri Harananda,  
Chief Security Commissioner,  
NCR/HQ/Allahabad,  
Ministry of Railways.

2. These awards are made under rule 4(ii) of the rules governing the grant of President's Police Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 41-Pres/2009.—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2009 to award the Police Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :—

Shri K. V. Rajendranath Reddy,  
Commissioner of Police,  
Vijayawada,  
Andhra Pradesh.

Shri P. S. R. Anjaneyulu,  
Deputy Inspector General of Police (Intelligence),  
Hyderabad,  
Andhra Pradesh.

Shri Baila Balakrishna,  
Superintendent of Police,  
West Godavari District, Eluru,  
Andhra Pradesh.

Shri Doule Laxman Rao,  
Additional Superintendent of Police,  
AP Police Academy, Hyderabad,  
Andhra Pradesh.

Shri Kuppili Ramakrishna Rao,  
Additional Superintendent of Police,  
CID, Visakhapatnam,  
Andhra Pradesh.

Shri V. Ramakrishnaiah,  
Assistant Commissioner of Police,  
Banjara Hills Div. Hyderabad City,  
Andhra Pradesh.

Shri Patnala Venkata Radha Krishna,  
Deputy Superintendent of Police,  
Anti Corruption Bureau, City Range-1, Hyderabad,  
Andhra Pradesh.

Shri Boddu Chitti Babu,  
Deputy Superintendent of Police,  
Greyhounds, Hyderabad,  
Andhra Pradesh.

Shri Munagala Venkateshwara Rao,  
Assistant Commissioner of Police,  
Asifnagar Division, Hyderabad,  
Andhra Pradesh.

Shri Nimmala Venkata Sambaiah,  
Deputy Superintendent of Police,  
Security Wing,  
Andhra Pradesh.

Shri Jinka Pedda Yerikalaiah,  
Circle Inspector of Police,  
Rayadurg, Anantpur District,  
Andhra Pradesh.

Shri Ummadisetti Sreekrishnudu,  
Inspector of Police,  
Anti Corruption Bureau, CIU, Hyderabad,  
Andhra Pradesh.

Shri Mohd Zainuddin,  
Assistant Reserve Sub Inspector,  
SAR/CPL,  
Andhra Pradesh.

Shri Lingam Chandra Sekharam,  
Assistant Reserve Sub Inspector,  
14th (IR), BN APSP, Anantpur,  
Andhra Pradesh.

Shri Kalle Chinnaiah,  
Sub Inspector of Police,  
Intelligence, Hyderabad Region,  
Andhra Pradesh.

Shri Sunkari Surya Prabhakara Rao,  
Sub Inspector of Police,  
Intelligence, Vizianagaram,  
Andhra Pradesh.

Shri Erukulla Bharathudu,  
Sub Inspector of Police,  
Intelligence, Hyderabad Region,  
Andhra Pradesh.

Shri Vasamsetti Naryana Rao,  
Sub Inspector of Police,  
Zonal Intelligence Office, Kakinada,  
Andhra Pradesh.

Shri Mohd Khaja Miya,  
Head Constable,  
D.A.R. Khammam,  
Andhra Pradesh.

Shri Tashi Lama,  
Deputy Inspector General of Police,  
PHQ Itanagar,  
Arunachal Pradesh.

Shri Robin Hibu,  
Deputy Inspector General of Police,  
Itanagar,  
Arunachal Pradesh.

Dr. Ram Prasad Meena,  
Deputy Inspector General (CID),  
Ulubari, Guwahati,  
Assam.

Shri Padmeswar Bora,  
Assistant Sub Inspector,  
APRO Ulubari, Guwahati,  
Assam.

Shri Khargeswar Baglari,  
Constable (Driver),  
APRO (HQ), Ulubari, Guwahati,  
Assam.

Shri T. J. Longkumer,  
Deputy Inspector General of Police,  
STF/CAF, Bastar,  
Chhattisgarh.

Shri Goverdhan Singh Darro,  
Commandant,  
2nd Bn. Sakri Bilaspur,  
Chhattisgarh.

Shri Akbar Ram Koram,  
Superintendent of Police,  
District Jaspur,  
Chhattisgarh.

Shri Shyam Bihari Pandey,  
Head Constable,  
10 Bn. CAF Sarguja,  
Chhattisgarh.

Shri Aghanu Ram,  
Constable,  
3rd Bn. CAF, Raipur,  
Chhattisgarh.

Shri Choudhary Shiv Narayan Singh,  
Sub Inspector (M),  
SCRB, CID, PHQ, Raipur,  
Chhattisgarh.

Shri Sudhir Singh Yadav,  
Joint Commissioner of Police,  
Nanakpura, New Delhi,  
NCT of Delhi.

Shri Bir Singh,  
Assistant Commissioner of Police,  
Shahdara, North East District, Delhi,  
NCT of Delhi.

Shri K. N. Haridas,  
Assistant Commissioner of Police,  
PHQ, Delhi,  
NCT of Delhi.

Smt. Kamla Devi Meena,  
Women Inspector (now ACP)  
Security Unit,  
NCT of Delhi.

Shri Satyadev Singh Ahlawat,  
Inspector,  
Security, Vinay Marg, New Delhi,  
NCT of Delhi.

Shri Vikram Kumar Chowdhary,  
Inspector/Steno,  
Crime Women Cell, Nanakpura,  
NCT of Delhi.

Shri Biram Singh,  
Sub Inspector,  
Security, Vinay Marg, New Delhi,  
NCT of Delhi.

Shri Krishan Chander,  
Sub Inspector,  
Traffic,  
NCT of Delhi.

Mrs. Sarita Bhardwaj,  
Assistant Sub-Inspector (Woman),  
IGI Airport, New Delhi,  
NCT of Delhi.

Shri Sarabjit Singh,  
Assistant Sub Inspector,  
Crime & Railways,,  
NCT of Delhi.

Shri Shiv Kumar,  
Head Constable,  
Special Cell, PHQ New Delhi,  
NCT of Delhi.

Shri Satbir Singh,  
Head Constable (Driver),  
Crime & Railways,  
NCT of Delhi.

Shri Omprakash R Kudtarkar,  
Commandant,  
PHQ, Panaji,  
Goa.

Shri Nalinkumar Somalal Joshi,  
Deputy Superintendent of Police,  
Office of DG & IGP, G. S. Gandhinagar,  
Gujarat.

Shri Kanaiyalal Samalabhai Savani,  
Police Inspector,  
Ahmedabad City,  
Gujarat.

Shri Natvarsinh Sonsinh Chavada,  
Unarmed Sub Inspector,  
SCR, Office of DG & IGP, G. S. Gandhinagar,  
Gujarat.

Shri Laljibhai Bhanjibhai Bhorania,  
Police Sub Inspector Wireless,  
O/o The Commissioner, Communication, Gandhinagar,  
Gujarat.

Shri Kishorbhai Arjanbhai Visani,  
Unarmed Assistant Sub Inspector,  
CID Crime, Gandhinagar,  
Gujarat.

Shri Balushankar Jivram Pathak,  
Assistant Sub Inspector,  
LCB District, Amreli,  
Gujarat.

Shri Shivarambhai Ambubhai Desai,  
Asstt. Sub Inspector,  
Vigilance Branch, Gandhinagar,  
Gujarat.

Shri Rameshkumar Angadsingh Bhadoria,  
Head Constable (Unarmed),  
Special Branch, Ahmedabad City,  
Gujarat.

Shri Rajendrabhai Rambhai Bhambhla,  
Head Constable (Unarmed),  
Railway Police Station, Ahmedabad,  
Gujarat.

Shri Alok Kumar Mittal,  
Superintendent of Police,  
Rohtak,  
Haryana.

Shri Raj Kumar,  
Sub Inspector,  
SVB/Panchkula,  
Haryana.

Shri Kailash Chander,  
Sub Inspector,  
2nd Bn. HAP, Madhuban,  
Haryana.

Shri Lakhwinder Kumar,  
Sub Inspector,  
CID,  
Haryana.

Shri Bhim Sain,  
Sub Inspector,  
HQ/Newal,  
Haryana.

Shri Parmod Chand,  
Assistant Sub Inspector,  
SCB, Panchkula,  
Haryana.

Shri Ram Kumar,  
Assistant Sub Inspector,  
Office of IGP/Ambala Range,  
Haryana.

Shri Nirmal Singh,  
Assistant Sub Inspector,  
P. S. Sadar, Yamunanagar,  
Haryana.

Shri Vinod Kumar,  
Head Constable,  
SVB/Panchkula,  
Haryana.

Shri Krishan Gopal Kapoor,  
Deputy Superintendent of Police,  
Una District,  
Himachal Pradesh.

Shri Hari Nand,  
Inspector,  
CID, Shimla,  
Himachal Pradesh.

Shri Chaman Lal,  
Sub Inspector,  
PS Sadar Bilaspur,  
Himachal Pradesh.

Shri Pankaj Saxena,  
Deputy Inspector General of Police,  
CID Jammu Zone,  
Jammu and Kashmir.

Shri Gulzar Singh Slathia,  
Deputy Inspector General of Police Security,  
Jammu and Kashmir.

Shri Amjad Parvez Mirza,  
Commandant,  
Auxiliary Police 1st Battalion,  
Jammu and Kashmir.

Shri Bhupinder Singh,  
Senior Superintendent of Police (Technical)  
Security Headquarters,  
Jammu and Kashmir.

Shri Fayaz Hussain Nengroo,  
Deputy Superintendent of Police,  
Headquarters Pulwama,  
Jammu and Kashmir.

Shri Prem Raj Shan,  
Deputy Superintendent of Police,  
STC Talwara,  
Jammu and Kashmir.

Shri Vijay Mohan Sadhu,  
Deputy Superintendent of Police,  
State Vigilance Organization,  
Jammu and Kashmir.

Shri Mohammad Ashraf,  
Deputy Superintendent of Police,  
Police Headquarters,  
Jammu and Kashmir.

Shri Mehraj-Ud-Din,  
Inspector,  
SSG  
Jammu and Kashmir.

Shri Sansar Chand,  
Sub Inspector,  
CID, Cf. Jammu,  
Jammu and Kashmir.

Shri Abdul Aziz Teli,  
Sub Inspector,  
PHQ,  
Jammu and Kashmir.

Shri Madan Lal,  
Assistant Sub Inspector,  
PCR Jammu,  
Jammu and Kashmir.

Shri Abdul Gani Parry,  
Head Constable,  
PCR Srinagar,  
Jammu and Kashmir.

Shri Ravi Kant Dhan,  
Superintendent of Police,  
Latehar,  
Jharkhand.

Shri Shambhu Thakur,  
Commandant,  
JAP-10 (Mahila Bn), Gumla,  
Jharkhand.

Shri Hemant Toppo,  
Superintendent of Police,  
Jamtara,  
Jharkhand.

Shri Shrawan Kumar,  
Inspector,  
Spl. Branch, Dhurwa, Ranchi,  
Jharkhand.

Shri Sanjay Kumar Rana,  
Sub Inspector,  
Police Training College, Hazaribag,  
Jharkhand.

Shri Lalan Prasad,  
Sub-Inspector (Steno),  
Spl. Branch, Ranchi,  
Jharkhand.

Shri Satendra Ojha,  
Assistant Sub Inspector,  
Addl. DG Office, CID,  
Jharkhand.

Shri Sribhagwan Singh,  
Havildar,  
Jamshedpur DPF,  
Jharkhand.

Shri Etwa Oraon,  
Constable,  
Latehar,  
Jharkhand.

Dr. Suresh Kunhi Mohammed,  
National Consultant,  
National AIDS Control Organisation,  
Ministry of Health & Family Welfare,  
Karnataka.

Shri Mohd. Abdulla Saleem,  
Director (S & V),  
KSRTC, Bangalore,  
Karnataka.

Shri K. S. Ramacharan Reddy,  
Deputy Inspector General of Police,  
Karnataka.

Shri K. Ramachandra Rao,  
Deputy Inspector General of Police &  
Principal Police Training College,  
Naganahalli, Gulbarga,  
Karnataka.

Smt. Malini Krishnamoorthy,  
Deputy Inspector General of Police,  
Economic Offences, COD, Bangalore,  
Karnataka.

Shri K. P. Bheemaiah,  
Superintendent of Police,  
Office of DGP, COD, Carlton House, Bangalore,  
Karnataka.

Shri Krishnaraddy Devaraddy Malligawad,  
Superintendent of Police,  
Apts, Yelahanka, Bangalore,  
Karnataka.

Shri B. A. Muthanna,  
Deputy Commissioner of Police,  
Intelligence, Bangalore,  
Karnataka.

Shri B. Lokesh,  
Assistant Commissioner of Police,  
Traffic Adugodi Sub-Division, Bangalore City,  
Karnataka.

Shri Thimmaiah Dasappa,  
Assistant Commissioner of Police,  
City Armed Reserve North, Bangalore,  
Karnataka.

Shri B. K. Nanje Gowda,  
Deputy Superintendent of Police,  
Intelligence Shimoga,  
Karnataka.

Shri Raju Vendkategowda,  
Sub Inspector,  
Office of IGP, FC Bangalore,  
Karnataka.

Shri K. N. Murthy,  
Head Constable,  
Intelligence Bangalore,  
Karnataka.

Shri Suresh Kumar Srinivasa Murthy,  
Head Constable,  
Intelligence Bangalore,  
Karnataka.

Shri Narayana Shetty,  
Head Constable,  
VIII Bn., KSRP Shimoga,  
Karnataka.

Shri Shamu Dundappa Hegre,  
Head Constable,  
Dar Belgaum,  
Karnataka.

Shri P. Radhakrishnan,  
Deputy Superintendent of Police,  
Thrissur,  
Kerala.

Shri T. James,  
Superintendent of Police,  
CB, CID, Kollam,  
Kerala.

Shri P. H. Ashraf,  
Superintendent of Police Rural,  
CB, CID, SIG-II, Ernakulam,  
Kerala.

Shri K. Kunhaman Nair,  
Assistant Commandant,  
Armed Reserve, Kasaragod,  
Kerala.

Shri S. Ramesh Babu,  
Assistant Commissioner of Police,  
Narcotic Cell, Thiruvananthapuram City,  
Kerala.

Shri U Abdul Karim,  
Deputy Superintendent of Police,  
Thaliparamba, Kannur,  
Kerala.

Shri T Gopalakrishna Pillai,  
Deputy Superintendent of Police,  
CBCID, SIG-III, Kozhikode,  
Kerala.

Shri M. Madhu,  
Deputy Superintendent of Police,  
DCRB, Alappuzha,  
Kerala.

Shri P.K. Madhu,  
Deputy Superintendent of Police,  
Kottayam,  
Kerala.

Shri V. Rajendran,  
Head Constable/Driver,  
PHQ, Thiruvananthapuram,  
Kerala.

Shri Meghraj Asudani,  
Inspector General of Police  
Bhopal,  
Madhya Pradesh.

Shri V Madhukumar,  
Deputy Inspector General of Police,  
Jabalpur,  
Madhya Pradesh.

Yogesh Mudgal,  
Deputy Inspector General of Police,  
Chhatarpur,  
Madhya Pradesh.

Shri Prem Singh Bisht,  
Superintendent of Police,  
Lokayukta, Indore,  
Madhya Pradesh.

Shri Rajeshwar Prasad Singh,  
Superintendent of Police,  
Lokayukta, Gwalior,  
Madhya Pradesh.

Shri Sudhir Laad,  
Superintendent of Police,  
Sbieo, Bhopal,  
Madhya Pradesh.

Shri Kunj Behari Sharma,  
Assistant Inspector General of Police,  
Bhopal,  
Madhya Pradesh.

Shri Manoj Sharma,  
Assistant Inspector General of Police,  
Bhopal,  
Madhya Pradesh.

Shri Ram Niwas Yadav,  
Sub Inspector,  
Bhopal,  
Madhya Pradesh.

Shri Vijay Kumar Barche,  
Head Constable,  
Ujjain Division,  
Madhya Pradesh.

Shri Saket Kumar Shukla,  
Inspector (Min.),  
Bhopal,  
Madhya Pradesh.

Shri Rajendra Kumar Jain,  
Subedar (Min.),  
Bhopal,  
Madhya Pradesh.

Shri Satya Narayan Gupta,  
Subedar (Min.),  
Bhopal,  
Madhya Pradesh.

Smt. Bharti Guru,  
Subedar (Min.)  
Bhopal,  
Madhya Pradesh.

Shri Milind Sathe,  
Assistant Sub Inspector (M),  
Bhopal,  
Madhya Pradesh.

Shri Ankush G Dhanvijay,  
Inspector General of Police,  
Controller of Legal Metrology,  
Food, Civil Supplies &  
Consumer Protection Department, Mumbai,  
Maharashtra.

Smt. Archana Tyagi,  
Additional Commissioner of Police,  
Mumbai City,  
Maharashtra.

Shri Ranjit Pandurang Abhinkar,  
Deputy Superintendent of Police,  
Railways Pune,  
Maharashtra.

Shri Pradeep Vasudeorao Bobade,  
Police Inspector,  
PTS Nagpur,  
Maharashtra.

Shri Umesh Shrinivas Deshpande,  
Police Inspector (Wireless),  
Konkan Range, Navi Mumbai,  
Maharashtra.

Shri Dinesh Musaddilal Agarwal,  
Police Inspector,  
ATS Mumbai City,  
Maharashtra.



Shri Khanderao Anandrao Patil,  
Police Inspector,  
SB (I), CID, Mumbai City,  
Maharashtra.

Shri Nagesh Shivdas Lohar,  
Senior Police Inspector,  
Pantanagar Police Station, Mumbai,  
Maharashtra.

Shri Khushalchand Govindlal Baheti,  
Police Inspector,  
Special Branch, Aurangabad City,  
Maharashtra

Shri Vilas Vyaghreshwar Joshi,  
Police Inspector,  
VP Raod Police Station, Mumbai City,  
Maharashtra.

Shri Ravindra Khanderao Doiphode,  
Police Inspector,  
Mra Marg Police Station, Mumbai City,  
Maharashtra.

Shri Nivrutti Tukaram Kadam,  
Police Inspector,  
ATS Mumbai City,  
Maharashtra.

Shri Ramchandra Shivaji Jadhav,  
Police Inspector,  
Anti-Dacoity Cell, Mumbai City,  
Maharashtra.

Shri Suhas Madhukar Nadgauda,  
Police Inspector,  
Bund Garden Police Station, Pune City,  
Maharashtra.

Shri Vijaykumar Vasantrao Palsule,  
Police Inspector,  
Deccan Police Station, Pune City,  
Maharashtra.

Shri Sayyed Amin Sayyed Moosa,  
Reserved Police Sub Inspector,  
Police Head Quarter, Nanded,  
Maharashtra.

Shri Sidram Ramchandra Tad,  
Police Sub Inspector,  
Security Branch, Solapur Rural,  
Maharashtra.

Shri Bhagwan Dadu Hande,  
Armed Assistant Police Sub Inspector,  
SRPF GR-1, Pune,  
Maharashtra.

Shri Chandrakant Dashrath Mane,  
Assistant Police Sub Inspector,  
MT Solapur Rural,  
Maharashtra.

Shri Arjun Namu Thite,  
Armed Assistant Police Sub Inspector,  
SRPF GR-X., Solapur,  
Maharashtra.

Shri Walhu Sayaji Patole,  
Assistant Police Sub Inspector,  
Kotwali Police Station, Ahmednagar,  
Maharashtra.

Shri Pandit Uttam Bhavsar,  
Assistant Police Sub Inspector,  
PCR, Jalgaon,  
Maharashtra.

Shri Chandrakant Dnyanoba Kharat,  
Assistant Police Sub Inspector,  
Ghatkopar Police Station, Mumbai City,  
Maharashtra.

Shri Amrut Bhimrao Kolekar,  
Assistant Police Sub-Inspector (Driver),  
M.T. Osmanabad,  
Maharashtra.

Shri Sainath Vitthal Sadavarte,  
Assistant Police Sub Inspector,  
Nasik City,  
Maharashtra.

Shri Shripat Narayan Patil,  
Assistant Police Sub Inspector,  
CB CID, Mumbai City,  
Maharashtra.

Shri Sahebrao Bhonaji Tilkar,  
Head Constable,  
Loni Police Station, Ahmednagar,  
Maharashtra.

Shri Ranba Dhondiba Patil,  
Head Constable,  
MHB Police Station, Mumbai City,  
Maharashtra.

Shri Janba Bhavakana Patil,  
Head Constable,  
ATS Mumbai,  
Maharashtra.

Shri Anil Pandurang Sulgaonkar,  
Head Constable (Driver),  
Control Room, Kolhapur,  
Maharashtra.

Shri Kishor Channappa Landge,  
Head Constable,  
DCB CID Mumbai,  
Maharashtra.

Shri Sirajuddin Nijamuddin Kazi,  
Head Constable,  
MT Solapur Rural,  
Maharashtra.

Shri Rajendra Yashwant Sawant,  
Head Constable (Driver),  
Police Headquarters, Ratnagiri,  
Maharashtra.

Shri Asem Shyamcharan Singh,  
Inspector,  
CID (Special Branch),  
Manipur.

Shri Md. Ghiyasuddin,  
Jemadar,  
7th Indian Reserve BN, Imphal,  
Manipur.

Shri Aribam Gopeshor Sharma,  
Assistant Sub Inspector,  
Imphal West District,  
Manipur.

Shri Kojiam Muhindro Singh,  
Havildar,  
2 IRB, Imphal,  
Manipur.

Shri Inter Chambugong Marak,  
Sub Inspector,  
P.O. Rongjeng, Distt. East Garo Hills,  
Meghalaya.

Shri V. Lalthakima,  
Commandant,  
IST BN, Map,  
Mizoram.

Shri R.K. Daniela,  
Deputy Superintendent of Police,  
DSB, Aizawl,  
Mizoram.

Shri Susanta Kumar Nath,  
Additional Commissioner of Police,  
Cuttack,  
Orissa.

Shri Raosaheb Punjabrao Rao Koche,  
Deputy Inspector General of Police,  
Southern Range Berhampur,  
Orissa.

Shri Vinayatosh Mishra,  
Deputy Inspector General of Police,  
Fire Service and Home Guards, Cuttack,  
Orissa.

Shri Kanhu Charan Mohapatra,  
Inspector,  
Special Branch, Baripada,  
Orissa.

Shri Surendra Majhi,  
Inspector,  
CID, CB, Cuttack,  
Orissa.

Shri Binod Kumar Das,  
Reserve Inspector of Police,  
Berhampur Reserve Office,  
Orissa.

Shri Lambodar Mahanta,  
Assistant Sub Inspector,  
Sambalpur Vigilance Division,  
Orissa.

Shri Devanand Laria,  
Sepoy,  
OSAP 4th BN, Rourkela,  
Orissa.

Shri Jitendra Kumar Jain,  
Deputy Inspector General of Police,  
Faridkot, Bathinda,  
Punjab.

Smt. Gurpreet Kaur Deo,  
Deputy Inspector General of Police,  
Chandigarh,  
Punjab.

Shri Ishwar Singh,  
Deputy Inspector General of Police,  
Ludhiana,  
Punjab.

Shri Surjit Singh,  
Superintendent of Police,  
Amritsar,  
Punjab.

Shri Sarwan Singh,  
Superintendent of Police,  
CID, Ferozepur,  
Punjab.

Shri Gurdeep Singh,  
Deputy Superintendent of Police,  
CID Unit Hoshiarpur,  
Punjab.

Shri Balkar Singh,  
Deputy Superintendent of Police,  
Sadar, Amritsar City,  
Punjab.

Shri Lekh Raj,  
Deputy Superintendent of Police,  
7th Bn Pap, Jalandhar,  
Punjab.

Shri Malkiat Singh,  
Inspector,  
Control Room Pap, Jalandhar,  
Punjab.

Shri Avtar Singh,  
Inspector,  
5th IRB, Amritsar,  
Punjab.

Shri Sandeep Sood,  
Sub Inspector,  
Security Wing, Chandigarh,  
Punjab.

Shri Sukhbir Singh,  
Assistant Sub-Inspector  
Vigilance Bureau, Ludhiana Range,  
Punjab.

Shri Onkar Singh,  
Assistant Sub Inspector,  
Amritsar,  
Punjab.

Shri Ashok Kumar,  
Assistant Sub Inspector,  
State Narcotics Cell, Amritsar,  
Punjab.

Shri Kulwant Singh,  
Head Constable,  
5th IRB, Amritsar,  
Punjab.

Shri A. Ponnuchamy,  
Deputy Inspector General of Police,  
(Spl Crime & Eco. Offence) CID (CB) Jaipur,  
Rajasthan.

Shri Karnal Bahadur Singh Kapoor,  
Superintendent of Police,  
District Dausa,  
Rajasthan.

Shri Prem Prakash Tak,  
Additional Superintendent of Police,  
CID (CB) Range Cell, Kota,  
Rajasthan.

Shri Kishan Pal Singh,  
Inspector of Police,  
CID (SSB), Jaipur,  
Rajasthan.

Shri Harishanker Mishra,  
Sub Inspector of Police,  
CM Vigilance, Jodhpur City,  
Rajasthan.

Shri Karan Singh Jodha,  
Sub Inspector of Police,  
CID (SSB), Jaipur,  
Rajasthan.

Shri Ravindra Kumar William,  
Assistant Sub-Inspector (Operator)  
Police Tele Comm HQ, Jaipur,  
Rajasthan.

Shri Bhabhuta Ram Vishnoi,  
Head Constable,  
Police Training School, Jodhpur,  
Rajasthan.

Shri Mahaveer Prasad Yadav,  
Head Constable,  
Police Lines, Jaipur City,  
Rajasthan.

Shri Shanker Lal Khatik,  
Head Constable,  
Anti-Corruption Bureau, Pali,  
Rajasthan.

Shri Rameshwar Dayal Kumhar,  
Head Constable,  
ASP Office Bharatpur City,  
Rajasthan.

Shri Hanuman Singh Rajput,  
Head Constable,  
Crime Branch, Jaipur Rural,  
Rajasthan.

Shri Ashok Kumar Khandal,  
Head Constable,  
CID (SSB), Jaipur,  
Rajasthan.

Shri Ashok Kumar Vishnoi,  
Constable,  
Anti-Corruption Bureau, Barmer,  
Rajasthan.

Shri Tshering Tamang,  
Sub Inspector,  
Reserve Lines,  
Sikkim.

Shri V. A. Ravikumar,  
Assistant Inspector General of Police,  
Administration, Office of DGP, Chennai,  
Tamil Nadu.

Shri Karuppiiah Thondiraj,  
Deputy Commissioner of Police,  
Crime and Traffic, Coimbatore City,  
Tamil Nadu.

Shri P. Kesavan,  
Commandant,  
TSP IV Battalion, Kovaipudur,  
Tamil Nadu.

Shri Kandasamy Rangarajan,  
Additional Superintendent of Police,  
Crime, Theni District,  
Tamil Nadu.

Shri S. Thirunavukkarasu,  
Deputy Superintendent of Police,  
Vigilance & Anti-Corruption, Chennai City-I,  
Tamil Nadu.

Shri M. Selvarajan,  
Inspector,  
V & AC Coimbatore,  
Tamil Nadu.

Shri G. Panneerselvam,  
Inspector,  
V & AC, Cuddalore,  
Tamil Nadu.

Shri S. Kuppusamy,  
Inspector,  
V & AC, Viluppuram,  
Tamil Nadu.

Shri V. Sudhakar,  
Inspector,  
V & AC, Head Quarters, Chennai,  
Tamil Nadu.

Shri K. Jeevanandham,  
Inspector,  
V & AC, City-III, Chennai,  
Tamil Nadu.

Shri S. Ashokan,  
Inspector,  
V & AC, Special Investigation Cell, Chennai,  
Tamil Nadu.

Shri Smarajit Kanungoe,  
Superintendent of Police (Security),  
West Tripura,  
Tripura.

Shri Subodh Chandra Das,  
Additional Superintendent of Police,  
South Tripura, Udaipur,  
Tripura.

Shri Sanjoy Biswas,  
Inspector,  
East Agartala PS, West Tripura,  
Tripura.

Shri Harish Chander Kashyap,  
Inspector General of Police,  
Gorakhpur Zone,  
Uttar Pradesh.

Shri Biswajit Mahapatra,  
Inspector General of Police,  
Railways Lucknow,  
Uttar Pradesh.

Shri Anand Kumar,  
Deputy Inspector General of Police,  
Saharanpur Range,  
Uttar Pradesh.

Shri Anand Swaroop,  
Deputy Inspector General of Police,  
Security, Lucknow,  
Uttar Pradesh.

Shri Sushil Kumar Singh,  
Deputy Inspector General of Police,  
Jhansi Range,  
Uttar Pradesh.

Shri Sanjay Singhal,  
Deputy Inspector General of Police,  
(On Deputation with ITBP),  
Uttar Pradesh.

Shri Hari Ram Sharma,  
Senior Superintendent of Police,  
Kanpur Nagar,  
Uttar Pradesh.

Shri Kashi Nath Singh,  
Superintendent of Police,  
Railways, Lucknow,  
Uttar Pradesh.

Shri Prakash Tripathi,  
Superintendent of Police,  
Kannauj,  
Uttar Pradesh.

Shri Jitendra Pratap Singh,  
Superintendent of Police,  
Mahamaya Nagar,  
Uttar Pradesh.

Shri Ram Swaroop,  
Superintendent of Police,  
Ambedkar Nagar,  
Uttar Pradesh.

Shri Satya Prakash Singh Yadav,  
Deputy Superintendent of Police,  
PTS Moradabad,  
Uttar Pradesh.

Shri Ashok Kumar,  
Additional Superintendent of Police,  
HQ Allahabad,  
Uttar Pradesh.

Shri Mata Prasad Bhaskar,  
Deputy Superintendent of Police,  
LIU, Kanpur,  
Uttar Pradesh.

Shri Mrigendra Singh,  
Additional Superintendent of Police,  
Central Reserve, Sitapur,  
Uttar Pradesh.

Shri Ashok Kumar,  
Additional Superintendent of Police,  
41. Bn. PAC, Ghaziabad,  
Uttar Pradesh.

Shri Dalbir Singh Yadav,  
Additional Superintendent of Police,  
Lucknow,  
Uttar Pradesh.

Shri Prem Chandra Singh,  
Head Constable,  
12 Bn. PAC Fatehpur,  
Uttar Pradesh.

Shri Satya Ram Yadav,  
Inspector,  
EOW, Lucknow,  
Uttar Pradesh.

Shri Vinod Kumar Srivastava, Sub-Inspector (M)/Steno, District Fatehpur, Uttar Pradesh.	Shri Jamir Ahamad Khan, Constable, 32 Bn. PAC, Lucknow, Uttar Pradesh.
Shri Syed Israr Husain, Sub-Inspector (M), I.G. Zone Office, Kanpur, Uttar Pradesh.	Shri Devendra Kumar, Inspector, District Shahjahanpur, Uttar Pradesh.
Shri Mahesh Chandra Singh, Constable, District Kannauj, Uttar Pradesh.	Shri Satish Kumar Shukla, Superintendent of Police, PHQ, 12 Subhash Road, Dehradun, Uttarakhand.
Shri Satish Kumar, Sub-Inspector (M), CB CID Hqrs, Lucknow, Uttar Pradesh.	Shri Madan Singh Farshwan, Deputy Superintendent of Police, Phithoragarh, Uttarakhand.
Shri Jagdish Tomar, Sub Inspector, District Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh.	Shri Dinesh Chandra Singh Rawat, Deputy Superintendent of Police, Haridwar, Uttarakhand.
Shri Kiran Pal Singh, Sub Inspector, Dr. Bhim Rao Ambedkar Police Academy, Moradabad, Uttar Pradesh.	Shri Diwan Ram Tamta, Company Commander, 31 Bn. PAC Rudrapur, Uttarakhand.
Shri Sada Shiv, Constable, District Sitapur, Uttar Pradesh.	Shri Sanjay Singh, Deputy Inspector General of Police (Training), PTC, Barrackpore, West Bengal.
Shri Ram Bahadur Singh, Sub Inspector, District Barabanki, Uttar Pradesh.	Shri Sunil Kumar Dey, Assistant Commissioner of Police, HQR Kolkata Police, West Bengal.
Shri Ram Kumar Sharma, Sub Inspector, Distt. Mahoba, Uttar Pradesh.	Shri Swapan Kumar Nandi, Inspector, Intelligence Branch, West Bengal.
Shri Om Prakash Singh, Sub Inspector, District Unnao, Uttar Pradesh.	Shri Passang Sherpa, Sub Inspector, SAP, 10th Bn, Dabgram, Jalpaiguri, West Bengal.
Shri Sripal Singh Tomar, Sub Inspector, Distt. Pilibhit, Uttar Pradesh.	Shri Swapan Kumar Bhattacharjee, Sub Inspector, P.O. & PS-Tamluk, District-Purbamedinipur, West Bengal.
Shri Kamla Singh Yadav, Sub Inspector, Distt. Mirzapur, Uttar Pradesh.	Shri Swapan Kumar Roy, Assistant Sub-Inspector (Armed Officiating), DAP HQ, South 24-Parganas, West Bengal.
Shri Jitendra Pratap Singh, Inspector, UPPCL Lucknow, Uttar Pradesh.	Shri Jogender Singh, Assistant Sub-Inspector (UB), Barrackpore, West Bengal.

Shri Tapan Majumder  
Constable,  
Intelligence Branch, Kolkata,  
West Bengal.

Shri Ajit Kumar Das,  
Constable,  
Nagrakata Police Station, Jalpaiguri,  
West Bengal.

Shri Prodyut Kumar Sinha,  
Police Driver,  
MT Section, Malda,  
West Bengal.

Shri Manik Roy,  
Constable,  
DAP, CBR, District Cooch Behar,  
West Bengal.

Shri Dasarathi Konar,  
Assistant Sub Inspector,  
Intelligence Branch, Kolkata,  
West Bengal.

Shri Anil Baran Hazari,  
Assistant Sub Inspector,  
SAP, 2nd Bn, Barrackpore, North 24-Pgs,  
West Bengal.

Shri Nityananda Gupta,  
Constable (AB),  
DAP, Malda, Mokdumpur District Malda,  
West Bengal.

Shri Govinda Kumar Mukherjee,  
Assistant Sub Inspector,  
Sealdah GRP District,  
West Bengal.

Shri Bikash Moy Hazra,  
Constable,  
Head Quarters, Purulia  
West Bengal.

Shri Swapan Kumar Saha,  
Constable,  
Vigilance Commission, Kolkata,  
West Bengal.

Smt. Mingma Chiten Bhutia,  
Constable (Woman),  
West Bengal.

Shri Chitta Ranjan Garu,  
Inspector,  
Port Blair,  
Andaman and Nicobar Islands.

Shri Suresh Kumar,  
Head Constable,  
VIP Security,  
Chandigarh.

Shri Balakrishnan P. M.,  
Stenographer Grade-I,  
ADG Sectt., HQ DGAR, Shillong,  
Assam Rifles.

Shri Thomas George,  
Assistant Commandant,  
HQ IGAR(N) C/o 99 APO,  
Assam Rifles.

Shri Kedar Ram,  
Subedar,  
5 AR, Kadamtala, District Imphal East, Manipur,  
Assam Rifles.

Shri Bhupal Ram,  
Subedar,  
14 AR, C/o 99 APO,  
Assam Rifles.

Shri Sukumaran K. P.,  
Naib Subedar (Nursing Assistant),  
20 AR, Chandel (Manipur), C/o 99 APO,  
Assam Rifles.

Shri Hira Singh,  
Subedar,  
24 AR, Moreh (Manipur), C/o 99 APO,  
Assam Rifles.

Shri Dharendra Singh Negi,  
Deputy Commandant,  
25 AR, C/o 99 APO,  
Assam Rifles.

Shri Surjit Singh,  
Naib Subedar,  
25 AR, C/o 99 APO,  
Assam Rifles.

Shri Mahesh Singh Yadav,  
Second-in-Command,  
25 AR, C/o 99 APO,  
Assam Rifles.

Shri Tarsem Chand,  
Subedar,  
26 AR, Kohima,  
Assam Rifles.

Shri Khushal Singh Sahu,  
Subedar,  
32 AR, C/o 99 APO,  
Assam Rifles.

Shri Narayan Singh Sharma,  
Subedar,  
37 AR, Naginimora, (Nagaland), C/o 99 APO,  
Assam Rifles.

Shri Triloki Nath Tewari,  
Naib Subedar,  
Signal Unit, Shillong,  
Assam Rifles.

Shri Siddharth Chattopadhyaya,  
Deputy Inspector General,  
SHQ, Silliguri,  
Border Security Force.

Shri Abhai Swaroop Verma,  
Deputy Inspector General,  
STC, Jodhpur,  
Border Security Force.

Shri Rajiv Kumar Hajela,  
Deputy Inspector General,  
FHQ, Comm. Dte., New Delhi,  
Border Security Force.

Shri Asaf Ally,  
Deputy Inspector General,  
STC, Udhampur,  
Border Security Force.

Shri Pankaj Goomer,  
Deputy Inspector General,  
FHQ, New Delhi,  
Border Security Force.

Shri Narendra Nath Dhar Dubey,  
Commandant,  
SIW, Tigri Camp, New Delhi,  
Border Security Force.

Shri Kailash Lal Sah,  
Commandant,  
61 Bn., Kasiamangal, Tripura,  
Border Security Force.

Shri Om Shankar Jha,  
Commandant,  
Training Directorate FHQ, New Delhi,  
Border Security Force.

Shri Ajit Sudevan,  
Commandant,  
113 Bn., P.O. Talligura, District Cooch Behar,  
West Bengal  
Border Security Force.

Shri Rajeev Sinha,  
Commandant,  
FHQ, Prov. Directorate, New Delhi,  
Border Security Force.

Shri Manoj Kumar Yadav,  
Commandant,  
171 Bn., Singhapura, C/o 56 APO,  
Border Security Force.

Shri R. Muthukrishnan,  
Commandant,  
109 Bn., Gurdaspur, Punjab,  
Border Security Force.

Shri Amar Kumar Ekka,  
Commandant,  
31 Bn., Mawpat, PO-Dumpling,  
Distt. East Khasi Hills, Shillong,  
Border Security Force.

Shri Chuni Lal Belwa,  
Commandant,  
81 Bn., BSF, C/o 56 APO,  
Border Security Force.

Dr. Hira Lal Raskaran,  
Chief Medical Officer (SG)/Commandant (Med.),  
FHQ, Hospital-II, New Delhi,  
Border Security Force.

Shri Lehna Singh Dahiya,  
Squadron Commander,  
(On Deputation to NSG),  
Border Security Force.

Shri K Vikhuto Swu,  
Second-in-Command,  
111 Bn., C/o 99 APO,  
Border Security Force.

Shri Romesh Chand Jasrotia,  
Second-in-Command,  
SHQ, Gurdaspur, Punjab,  
Border Security Force.

Shri Mohammed Kadir Qureshi,  
Second-in-Command/EE (Civil),  
FHQ, New Delhi,  
Border Security Force.

Shri Ravindra Chandra Padalia,  
Deputy Commandant,  
STC, Udhampur,  
Border Security Force.

Shri Dhan Singh,  
Deputy Commandant,  
23 Bn., Panjipara, Uttar Dinajpur, West Bengal,  
Border Security Force.

Shri Rajinder Kumar Sharma,  
Deputy Commandant,  
52 Bn., Sunderbani, C/o 56 APO,  
Border Security Force.

Shri Surendra Singh Chaudhary,  
Deputy Commandant,  
183 Bn., PO-Narayanpur, Distt. Malda, West Bengal,  
Border Security Force.

Shri Mahabir Singh,  
Deputy Commandant,  
85 Bn., Pokhran, District Jaisalmer, Rajasthan,  
Border Security Force.

Shri Kulwant Singh Rawat,  
Deputy Commandant,  
70 Bn., Gokulnagar, PO-Harishnagar,  
Tripura West District, Tripura,  
Border Security Force.

Shri Ramendra Nath Roy,  
Deputy Commandant,  
70 Bn., Gokulnagar, PO-Harish Nagar, West Tripura,  
Border Security Force.

Shri Mandalaparambil Aravindakshan,  
Assistant Commandant,  
HQ AM FTR, Shillong, PO-Umpling,  
District East, Garo Hills, Meghalaya,  
Border Security Force.

Shri Bhagirath Singh,  
Inspector,  
12 Bn., C/o 56 APO,  
Border Security Force.

Shri Abhey Singh Yadav,  
Inspector,  
64 Bn., C/o 56 APO,  
Border Security Force.

Shri Kehar Ram,  
Inspector,  
9 Bn., Barmer, Rajasthan,  
Border Security Force.

Shri Jagannath Singh Parwal,  
Inspector,  
84 Bn., Jaisalmer,  
Border Security Force.

Shri Ganga Singh,  
Inspector,  
43 Bn., P.O.-Mamdot, District Ferozpur, Punjab,  
Border Security Force.

Shri Bharat Sharma,  
Inspector,  
100 Bn. Dabla, Barmer Road, District Jaisalmer,  
Rajasthan,  
Border Security Force.

Shri C. Sabu,  
Sub Inspector,  
88 Bn, Koirengi, PO-Mantripukhri,  
District Imphal East, Manipur,  
Border Security Force.

Shri Balbir Singh,  
Inspector (Tech),  
96 Bn., PO-Arunachal, District Cachar, Assam,  
Border Security Force.

Shri Mohd. Basheer Elavankal Mytheen,  
Inspector (Min),  
SIW, Tigri Camp, New Delhi,  
Border Security Force.

Shri Manbar Singh Rawat,  
Sub Inspector,  
SHQ Panisagar, Tripura (North),  
Border Security Force.

Shri Jaswant Singh,  
Sub Inspector,  
108 Bn., Baishnavnagar, PO-Roshanbang,  
District Murshidabad, (W. B.),  
Border Security Force.

Shri Kumuda Bandhaba Dash,  
Sub Inspector,  
68 Bn., Nishat, C/o 56 APO,  
Border Security Force.

Shri Jai Prakash Singh,  
Sub Inspector,  
90 Bn., Roshanbagh, Distt-Murshidabad, West Bengal,  
Border Security Force.

Shri Mohd. Naseem,  
Head Constable,  
36 Bn., PO-Kalyani, Distt.-Nadia, West Bengal,  
Border Security Force.

Shri Nanak Chand,  
Safai Karamchari,  
58 Bn., Kalakot, C/o 56 APO,  
Border Security Force.

Shri Praveer Ranjan,  
Deputy Inspector General of Police,  
New Delhi,  
Central Bureau of Investigation.

Ms. Sonali Mishra,  
Deputy Inspector General of Police,  
ACR Mumbai,  
Central Bureau of Investigation.

Shri Rajiv Singh,  
Deputy Inspector General of Police,  
New Delhi,  
Central Bureau of Investigation.

Shri Ram Nath Azad,  
Assistant Director,  
IPCC, New Delhi,  
Central Bureau of Investigation.

Shri Ravinder Singh,  
Additional Superintendent of Police,  
AC-III, New Delhi,  
Central Bureau of Investigation.

Shri Ashok Babu,  
Deputy Superintendent of Police,  
ACB, Ghaziabad,  
Central Bureau of Investigation.

Shri Mohammed Shajahan,  
Inspector,  
Trivendrum,  
Central Bureau of Investigation.

Shri Uday Keshav More,  
Inspector,  
EOW, Mumbai,  
Central Bureau of Investigation.

Shri Mohan Singh Rawat,  
Sub Inspector,  
EOU-I, New Delhi,  
Central Bureau of Investigation.



Shri Vijay Pal Singh,  
Sub Inspector,  
SU, New Delhi,  
Central Bureau of Investigation.

Shri K Sasidharan Nair,  
Assistant Sub Inspector,  
ACB, Cochin,  
Central Bureau of Investigation.

Shri Bhairav Dutt Kandwal,  
Head Constable,  
ACB, Ghaziabad,  
Central Bureau of Investigation.

Shri Jaijeet Singh,  
Deputy Inspector General,  
North Hqrs., New Delhi,  
Central Industrial Security Force.

Shri Taranjit Singh Kohli,  
Deputy Commandant,  
Unit NFL, Nangal,  
Central Industrial Security Force.

Shri V Karunakaran,  
Assistant Commandant (JAO),  
AP (E&NE), Hqrs., Kolkata,  
Central Industrial Security Force.

Shri Sarat Kumar Sahoo,  
Inspector (Min.),  
CISF Hqrs.,  
Central Industrial Security Force.

Shri R. C. Sabharwal,  
Inspector (Steno),  
GP Hqrs. Mumbai,  
Central Industrial Security Force.

Shri Pushkar Singh Rawat,  
Inspector,  
RTC Arakkonam,  
Central Industrial Security Force.

Shri Sunil Kumar,  
Inspector,  
RTC Barwaha,  
Central Industrial Security Force.

Shri George Thomas,  
Inspector,  
KRTC, Mundali,  
Central Industrial Security Force.

Shri Om Shankar,  
Inspector,  
CSI Airport, Mumbai,  
Central Industrial Security Force.

Shri Magudeswaran Shankar,  
Inspector,  
Bangalore,  
Central Industrial Security Force.

Shri Harish Singh Karmyal,  
Inspector,  
ONGC Nazira,  
Central Industrial Security Force.

Shri S. P. Rana,  
Inspector,  
KKNPP Kudankulam,  
Central Industrial Security Force.

Shri R. D. S. Negi,  
Inspector,  
1st Reserve Bn., Barwaha,  
Central Industrial Security Force.

Shri Subramaniam Radhakrishnan,  
Sub Inspector,  
NISA Hyderabad,  
Central Industrial Security Force.

Shri Mohinder Singh Somata,  
Head Constable,  
RTC Barwaha,  
Central Industrial Security Force.

Shri Abdul Khaleel Ahmed,  
Head Constable,  
CISF Unit BSP(B),  
Central Industrial Security Force.

Shri A Gurusamy,  
Head Constable,  
EPL Ennore,  
Central Industrial Security Force.

Shri Rewa Ram Sahu,  
Head Constable,  
DAE Kalpakkam,  
Central Industrial Security Force.

Dr. Ashok Nath Jha,  
Deputy Inspector General of Police/  
Medical Composite Hospital, Group Centre, Ajmer,  
Central Reserve Police Force.

Dr. Sunahari Lal Nimesh,  
Deputy Inspector General of Police/  
Medical GC, Campus, Nagpur, Maharashtra,  
Central Reserve Police Force.

Shri Rajendra Prasad Pandey,  
Deputy Inspector General of Police,  
GP Centre, Durgapur (WB),  
Central Reserve Police Force.

Shri Kuldeep Dhar,  
Deputy Inspector General of Police,  
GC Gurgaon, Haryana,  
Central Reserve Police Force.

Shri Mahendra Pal Singh Negi,  
Deputy Inspector General of Police,  
NE Sec., Shillong,  
Central Reserve Police Force.

Shri Bhupat Singh Chauhan,  
Deputy Inspector General of Police,  
GP Centre, Rampur,  
Central Reserve Police Force.

Shri Sanjay Kaushik,  
Deputy Inspector General of Police,  
GC, Ranga Reddy, Jai Jawaharnagar, AP,  
Central Reserve Police Force.

Shri Sunil Singh,  
Deputy Inspector General of Police,  
GP Centre, Nagpur,  
Central Reserve Police Force.

Shri Randeep Dutta,  
Deputy Inspector General of Police,  
GP Centre, Pune,  
Central Reserve Police Force.

Shri Arun Kumar,  
Deputy Inspector General of Police,  
GP Centre, Gandhinagar,  
Central Reserve Police Force.

Shri Dwijendra Singh Bhandari,  
Second-in-Command,  
131 Bn., Patna, Bihar,  
Central Reserve Police Force.

Shri Brijesh Pratap Singh,  
Second-in-Command,  
30 Bn., Bijapur, New Jail Complex, Chhatisgarh,  
Central Reserve Police Force.

Shri Satender Kumar,  
Second-in-Command,  
50 Bn., GC, Sindri, Dhanbad, Jharkhand,  
Central Reserve Police Force.

Shri Subhash Chandra Singh Rawat,  
Second-in-Command,  
23 BN, Karan Nagar, Srinagar,  
Central Reserve Police Force.

Shri Satya Narayan Singh Meena,  
Second-in-Command,  
112 BN, Awantipura, Pulwama, J&K,  
Central Reserve Police Force.

Shri Hardayal Singh,  
Deputy Commandant,  
100 BN, Raf, Vastral, Ahmedabad  
Central Reserve Police Force.

Shri Ahmadullah Ansari,  
Deputy Commandant,  
181 BN, Radar Station, J&K,  
Central Reserve Police Force.

Shri Balkishan,  
Assistant Commandant,  
126 BN, Bawana, Delhi,  
Central Reserve Police Force.

Shri Sukhram Siyag,  
Assistant Commandant,  
111 BN, Hallomajra, Chandigarh,  
Central Reserve Police Force.

Shri N P N Nair,  
Section Officer,  
Fhqs, New Delhi,  
Central Reserve Police Force.

Shri Ratnala Nageshwara Rao,  
Subedar Major/Ps,  
Fhqs, New Delhi,  
Central Reserve Police Force.

Shri Mela Ram,  
Subedar Major/GD,  
GC Jalandhar,  
Central Reserve Police Force.

Shri Amar Nath,  
Inspector,  
61 BN, C/O 56 APO,  
Central Reserve Police Force.

Shri Girdhari Lal,  
Subedar Major/GD,  
Group Centre-1, Ajmer,  
Central Reserve Police Force.

Shri Braybhari Singh,  
Inspector,  
3 Signal BN,  
Central Reserve Police Force.

Shri Lal Kishore Singh,  
Sub Inspector,  
188 BN, Rajnandgon, Chhattisgarh,  
Central Reserve Police Force.

Shri Kedar Nath Yadav,  
Sub Inspector,  
111 BN, Hallomajra, Chandigarh,  
Central Reserve Police Force.

Shri Mahavir Prasad,  
Sub Inspector,  
GC, Khatkhathi Distt. Karbi Anglong, Assam,  
Central Reserve Police Force.

Shri Abdul Karim,  
Sub Inspector,  
160 BN, C/o 56 APO,  
Central Reserve Police Force.

Shri Kesavan Prabhakaran,  
Sub Inspector,  
23 BN, Yatriniwas, District Anantnag, J&K,  
Central Reserve Police Force.

Shri Sajjan Singh,  
Sub Inspector,  
121 BN, Kathua, J&K,  
Central Reserve Police Force.

Shri Jodh Singh,  
Sub Inspector,  
186 BN, Lohit District, Arunachal Pradesh,  
Central Reserve Police Force.

Shri Parmatma Bharti,  
Sub Inspector,  
165 BN, West Midnapur, WB,  
Central Reserve Police Force.

Shri Pitambar Dutt,  
Sub Inspector,  
187 BN, Bijaur, Lucknow, UP,  
Central Reserve Police Force.

Shri Bakhshish Singh,  
Sub Inspector,  
5 Signal BN, Chandigarh,  
Central Reserve Police Force.

Shri Ram Niwas,  
Sub Inspector,  
98 BN, Bawana, New Delhi,  
Central Reserve Police Force.

Shri Kailash Nath Choubey,  
Sub Inspector,  
3 Signal BN,  
Central Reserve Police Force.

Shri Gopal Krishan,  
Sub Inspector,  
5 Signal BN, Chandigarh,  
Central Reserve Police Force.

Shri Gulab Chand,  
Sub Inspector/MT,  
81 BN, Ambikapur, Surguja, Chhattisgarh  
Central Reserve Police Force.

Shri Gopal Upadhyay,  
Sub Inspector/RO,  
3 Signal BN, Kolkata,  
Central Reserve Police Force.

Shri Sita Ram Bhagat,  
Sub Inspector,  
2 BN, Sukma, Dantewada, Chhattisgarh  
Central Reserve Police Force.

Shri Bishamber Das,  
Sub Inspector,  
163 BN, Gulshan Nagar, Srinagar,  
Central Reserve Police Force.

Shri Ibtombi Singh,  
Head Constable,  
27 BN, Nungba, Manipur,  
Central Reserve Police Force.

Shri Abdul Quam Khan,  
Head Constable,  
27 BN, Nungba, Manipur,  
Central Reserve Police Force.

Shri Ram Lakhan Rawat,  
Head Constable,  
RTC, Avadi, Chennai,  
Central Reserve Police Force.

Shri A Srinivasan,  
Head Constable,  
42 BN, Barkas, Hyderabad,  
Central Reserve Police Force.

Shri Ram Avtar Pandey,  
Head Constable/Dvr,  
21 BN, C/o 56 APO, Srinagar,  
Central Reserve Police Force.

Shri Dinesh Prasad,  
Washer Man,  
RTC, Avadi, Chennai,  
Central Reserve Police Force.

Shri Mangla Prasad Mohriya,  
Water Carrier,  
GC Nayagaon, Gwalior,  
Central Reserve Police Force.

Shri Govind Ram,  
Water Carrier,  
27 BN, Nungba, Manipur,  
Central Reserve Police Force.

Shri Arvind Kumar,  
Deputy Director,  
New Delhi,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Vijay Kumar Bir,  
Assistant Director,  
New Delhi,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Dinesh Shankar Mishra,  
Assistant Director (Tech),  
New Delhi,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Anil Kumar Negi,  
Deputy Central Intelligence Officer,  
Delhi,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Timir Bhaskar Shah,  
Deputy Central Intelligence Officer,  
New Delhi,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Ashok Kumar Singh Teotia,  
Deputy Central Intelligence Officer,  
Ghaziabad,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Ajay Kumar Rai,  
Deputy Central Intelligence Officer,  
Bhopal,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Nallur Srinivasaraghavan Uppili,  
Section Officer,  
Hqrs, New Delhi,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Kulwant Singh Gill,  
Assistant Central Intelligence Officer, Grade-I/G  
Chandigarh,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Dinesh Chander Joshi,  
Assistant Central Intelligence Officer, Grade-I/G  
New Delhi,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Shrirang Balwant Joshi,  
Assistant Central Intelligence Officer, Grade-I/G  
Bangalore,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Sunil Sharma,  
Assistant Central Intelligence Officer, Grade-I/G  
Lucknow,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Harpal Singh,  
Assistant Central Intelligence Officer, Grade-I/G  
New Delhi,  
Ministry of Home Affairs.

Smt. Neeta Mishra,  
Assistant Central Intelligence Officer, Grade-I/G  
New Delhi,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Pradip Kumar Sarkar,  
Assistant Central Intelligence Officer, Grade-I/G  
Jalpaiguri,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Girish Chandra Kandpal,  
Assistant Central Intelligence Officer, Grade-II/G  
New Delhi,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Prakash Chand Kaundinya,  
Junior Central Intelligence Officer, Grade-I/G  
Shimla,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Pushker Nath Marhatta,  
Junior Central Intelligence Officer, Grade-I/G  
Srinagar,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Donald Paul Sawian,  
Junior Central Intelligence Officer, Grade-I/G  
Shillong,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Fatch Chand Saxena,  
UDC,  
New Delhi,  
Ministry of Home Affairs.

Shri Ahmad Jamal Rasul,  
Deputy Inspector General,  
Shq Jammu,  
Indo Tibetan Border Police.

Shri Sharad Pratap Singh,  
Commandant,  
2nd BN, Kullu, HP,  
Indo Tibetan Border Police.

Shri Rajesh Kumar Joshi,  
Assistant Commandant,  
8th BN, Gaucher, Chamoli, Uttarkhand,  
Indo Tibetan Border Police.

Shri Ashok Kumar Yadav,  
Assistant Commandant,  
35th BN, Kullu, Himachal Pradesh,  
Indo Tibetan Border Police.

Shri Marwar Singh Negi,  
Inspector,  
Fhq, New Delhi,  
Indo Tibetan Border Police.

Smt. Veena Dobhal,  
Inspector,  
CRO, R. K. Puram, New Delhi,  
Indo Tibetan Border Police.

Shri Kundan Singh,  
Sub Inspector/MT,  
TPT BN, Chandigarh,  
Indo Tibetan Border Police.

Shri Om Prakash,  
Head Constable,  
Spt BN, Karera,  
Indo Tibetan Border Police.

Shri Sanjay Singh Gehlot,  
Group Commander,  
13 Srg, Manesar, Gurgaon (Haryana),  
National Security Guard.

Shri Satish Chandra Budakoti,  
Group Commander,  
12 Srg, Manesar, Gurgaon (Haryana),  
National Security Guard.

Shri Aditya Misra,  
Deputy Inspector General,  
Hqrs, New Delhi,  
Sashastra Seema Bal.

Shri Deep Candra Patni,  
Commandant,  
3rd BN Almora,  
Sashastra Seema Bal.

Shri Ajit Kumar Bhardwaj,  
Second-in-Command,  
8th BN Malhipur,  
Sashastra Seema Bal.

Shri Ram Chandra Manori,  
Joint Area Organiser,  
Fhq New Delhi,  
Sashastra Seema Bal.

Shri Chatter Singh,  
Assistant Commandant,  
40th BN Chhattisgarh,  
Sashastra Seema Bal.

Shri Dilbag Singh,  
Constable (Ord),  
5th BN, Lakhimpur, Kheri,  
Sashastra Seema Bal.

Shri Braja Benu Shome,  
Asstt. Director,  
Hqrs, New Delhi,  
Sashastra Seema Bal.

Shri Bimal Kumar Mishra,  
Sub Inspector,  
30th BN, Cooch Behar,  
Sashastra Seema Bal.

Shri Surjit Lal Rayat,  
Section Officer,  
Fhq New Delhi,  
Sashastra Seema Bal.

Shri Manoj Kumar Shah,  
Head Constable,  
3rd BN, Almora,  
Sashastra Seema Bal.

Shri Jitendra Kumar,  
Deputy Inspector General,  
Hqr, New Delhi,  
Special Protection Group.

Shri Asutosh Kumar Sinha,  
Deputy Inspector General,  
Hqr, New Delhi,  
Special Protection Group.

Shri Dharendra Singh Sindhu,  
Assistant Inspector General,  
Hqr, New Delhi,  
Special Protection Group.

Shri Sawinder Sangwan,  
Security Officer-I,  
Hqr, New Delhi,  
Special Protection Group.

Shri Narendra Deo Upadhyaya,  
Security Officer-I(WT),  
Hqr, New Delhi,  
Special Protection Group.

Shri Tamal Basu,  
Principal,  
CDTS, Kolkata,  
Bureau of Police Research and Development.

Shri Subhash Chander Bakshi,  
Cipher Assistant,  
Hqrs,  
Directorate of Coordination Police Wireless.

Shri A. P. Siddiqui,  
Deputy Director,  
New Delhi,  
Narcotics Control Bureau.

Shri Krisnaswamy Shekhar,  
Junior Staff Officer,  
New Delhi,  
National Crime Record Bureau.

Shri Om Prakash Vyas,  
Deputy Superintendent of Police,  
New Delhi,  
National Human Rights Commission.

Shri G. H. P. Raju,  
Deputy Director,  
Shivarampally, Hyderabad,  
SVP N P A.

Shri V Pandiyan,  
Sub-Inspector (Riding),  
Hyderabad,  
SVP N P A.

Shri Sidhu Tiu,  
Head Constable (ADI),  
Hyderabad,  
SVP N P A.

Shri Ajit Kumar Sarkar,  
Regional Deputy Commissioner of Security (CA),  
Kolkata, West Bengal  
Ministry of Civil Aviation.

Shri Sunil Kumar Sinha,  
Dy. CSC,  
Railway Protection Force,  
Hubli, Karnataka,  
Ministry of Railways.

Shri Udai Raj Singh,  
Assistant Security Commissioner,  
Railway Protection Force, NWR/HQ,  
Ministry of Railways.

Shri Murari Madhav Patrikar,  
Assistant Security Commissioner,  
Konkan Railway, CBD Belapur, Sec-11, Navi Mumbai,  
Ministry of Railways.

Shri R. A. Prem Kumar,  
Inspector,  
Crime Intelligence Branch,  
Railway Protection Force, Chennai,  
Ministry of Railways.

Shri H. Srinivasa Rao,  
Inspector,  
Railway Protection Force,  
Kazipet Post SC Division/SCR,  
Ministry of Railways.

Shri M. A. Abraham,  
Assistant Sub Inspector,  
Railway Protection Force,  
Dog Squad, Sec. Rly, Bilaspur,  
Ministry of Railways.

Shri Bharat Singh Meena,  
Inspector,  
Railway Protection Force, Distt. Thane,  
Ministry of Railways.

Shri Keshav Dev Sharma,  
Sub Inspector,  
Railway Protection Force, Damoh, Out Post,  
Ministry of Railways.

Shri Sekhawat Ali,  
Assistant Sub Inspector,  
Jr. RPF Academy, Lucknow,  
Ministry of Railways.

Shri S. Paneer Selvam,  
Assistant Sub Inspector,  
5 BN RPSF/Trichy,  
Ministry of Railways.

Shri Sanatan Ram Dakout,  
Sub Inspector,  
Railway Protection Force,  
NF Railway, Hq Maligaon, Guwahati,  
Ministry of Railways.

Shri Ram Kumar Sharma,  
Inspector,  
Railway Protection Force,  
JBP Post, JBP Division,  
Ministry of Railways.

2. These awards are made under rule 4(ii) of the rules governing the grant of Police Medal for Meritorious Service.

Barun Mitra  
Joint Secy.

#### MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 17th December 2008

#### RESOLUTION

Subject : Constitution of Steel Consumer's Council of Ministry of Steel—Regarding.

No. 5(3)/2004-D-I. (.).—In continuation of Ministry of Steel Resolutions of even number dated 24.03.2006, 24.08.2007 and 12.09.2008, Shri Badugu Zhukey, S/o Late Shri B. Peter, Resident of 20th Ward, Vemurivari Veedhi Repalle, Guntur District, Andhra Pradesh is hereby nominated as

Member to the Steel Consumer's Council of Ministry of Steel from Andhra Pradesh under Para-7 of the Ministry of Steel Resolution of even number dated 24th March, 2006.

#### ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumer's Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

UDAI PRATAP SINGH  
Jt. Secy.

The 23rd December 2008

#### RESOLUTION

Subject : Constitution of Steel Consumer's Council of Ministry of Steel—Regarding.

No. 5(3)/2004-D-I. (.).—In continuation of Ministry of Steel Resolutions of even number dated 24.03.2006, 24.08.2007 and 12.09.2008, the following persons are hereby nominated as Members to the Steel Consumer's Council of Ministry of Steel to represent the States mentioned against their names under Para-7 of the Ministry of Steel Resolution of even number dated 24th March, 2006 vice the member mentioned in Column (4) below respectively :—

Sl. No.	Name & address of the nominated members	State/UT	Name & address of the departing members
1	2	3	4
	S/Shri		S/Shri
1.	V. Narayanaswamy, Resident of 113/10, 6th Main Road, M.C. Layout, Vijayanagara, Bangalore (Karnataka).	Karnataka	Gautam Chand Lunawat, No. 97, Arihant Rupa, Lunawat Bhawan, Laxmi Road, Shanthinagar, Bangalore-560027.
2.	Sanjay R. Surshetwar, Resident of B. Dharmeshwar, T. H. Ktaria Marg, Matunga (W), Mumbai-400 016 (Maharashtra).	Maharashtra	H. V. Mali, Resident of # 337, Rasta Peth, Near Appolo Theatre, Pune, Maharashtra.
3.	Kalluri Vijaya Vardhan Naidu, Resident of Plot No. 19, Jawahar Nagar Colony, Prenderghast Road, Secunderabad (A.P.)	Andhra Pradesh	G. Ramesh Gupta, R/o 12-2-6A, Sharda Library Street, Anakapalli, Visakhapatnam-531001.

#### ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments Union Territory

Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumer's Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

UDAI PRATAP SINGH  
Jt. Secy.

#### RESOLUTION

Subject : Constitution of Steel Consumer's Council of Ministry of Steel—Regarding.

No. 5(3)/2004-D-I. (.).—In continuation of Ministry of Steel Resolutions of even number dated 24.03.2006 24.08.2007 and 12.09.2008, the following persons are hereby nominated as Members to the Steel Consumer's Council of Ministry of Steel to represent the States mentioned against their names under Para-7 of the Ministry of Steel Resolution of even number dated 24th March, 2006 :—

Sl. No.	Name & Address of the nominated member(s)	States
1.	Shri Krishna Gopal Gupta, Resident of 292, Bahadurganj, Allahabad (U.P.).	Uttar Pradesh
2.	Shri Ramesh Pandey, Resident of Pandey Complex, Main Road, Parsudih, Jamshedpur-831002 (Jharkhand).	Jharkhand
3.	Shri Bharat Pal Goyal, Resident of V.P.O. Hassanpur, Tehsil—Hodal, Distt. Palwal, Haryana.	Haryana

#### ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumer's Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

UDAI PRATAP SINGH  
Jt. Secy.

The 9th January 2009

#### RESOLUTION

Subject : Constitution of Steel Consumer's Council of Ministry of Steel—Regarding.

No. 5(3)/2004-D-I. (.).—In continuation of Ministry of Steel Resolutions of even number dated 24.03.2006

24.08.2007 and 12.09.2008, the following persons are hereby nominated as Members to the Steel Consumer's Council of Ministry of Steel to represent the States/UT mentioned against their names under Para-7 of the Ministry of Steel Resolution of even number dated 24th March, 2006 :—

Sl. No.	Name & Address of the nominated member(s)	States/UT
1	2	3
1.	Shri Satish Dahiya, VPO Silana, Distt. Sonapat, Haryana.	Haryana
2.	Shri Kuljeet Singh Nagra, H. No. 397, Phase 3A, Mohali, Distt. Mohali, Punjab.	Punjab
3.	Shri Amitabha Chakraborti, 6A, Radhanath Mallick Lane, Kolkata-700 012.	West Bengal
4.	Shri Rajesh Kumar Shukla, 557/41G/3, Om Nagar, Alambagh Lucknow.	Uttar Pradesh
5.	Shri Asif Jah, C/o Mr. A.M. Azmi, 4/570U, Noor Manzil Compound, Dodhpur, Civil Lines, Aligarh, Uttar Pradesh.	Uttar Pradesh
6.	Shri V. Venkaiah, C/o Shri V. Ajay Kumar, 2-6-17&18, S-4, IInd Floor, 'A' Block, Laxmi Sarswati Apptt, LIC Colony, Sikh Village, Secunderabad-500 009.	Andhra Pradesh
7.	Shri Idrish Gandhi, K. K. Road, Maudahapara, Raipur.	Chhattisgarh
8.	Shri Jitendra Baghel, D-011, Plot No. 11, Prabha Apartment, Sector-23, New Delhi-110 075.	Delhi
9.	Shri Ravinder Singh Chauhan, G-13, INA Colony, New Delhi-110 023.	Delhi
10.	Shri Ashok Basoya, 247, Sector 55, Near Gurgaon Public School, Gurgaon, Haryana.	Haryana
11.	Shri Dheeraj Gupta, C/o Haryana Cold Storage, Narwana, Distt. Jind, Haryana.	Haryana
12.	Shri Lalit Tiwari, 99, Thakur Bari Road, Sakchi, Jamshedpur, Jharkhand.	Jharkhand

1	2	3	RESOLUTION
13.	Shri Manmohan Singh, 163, Shakti Nagar, Jammu.	J&K	Subject : Constitution of Steel Consumer's Council of Ministry of Steel—Regarding.
14.	Shri Anil Thomas, C/o Vadakkeveettil House, Pathanamthitta P.O., Kerala-689 645.	Kerala	No. 5(3) 2004-D-I. (.).—In continuation of Ministry of Steel Resolutions of even number dated 24.03.2006, 24.08.2007 and 12.09.2008, Dr. Shashi Kumar Singh, Resident of Kanakpuri, Poorvi Gate Jain College, Aara-802301, Bhojpur, Bihar is hereby nominated as Member to the Steel Consumer's Council of Ministry of Steel from Bihar under Para. 7 of the Ministry of Steel Resolution of even number dated 24th March, 2006.
15.	Shri Ratnesh Singh, Singh Kutir, Behind Gold Mist Building, Vakola, Santacruz, East Mumbai-400 055.	Maharashtra	
16.	Shri Dharmendra Purohit, D-4, Opp. Nagar Nigam Office, Shastri Nagar, Jaipur-302016.	Rajasthan	ORDER
17.	Shri Ashok Pandey, 1/18, Ashok Nagar, Agra (U.P.).	Uttar Pradesh	Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumer's Council.
18.	Shri Gaurav Chaudhary, 9, Devidass Marg, Baba Hazara Bagh, Thakurganj, Lucknow.	Uttar Pradesh	2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.
19.	Shri Ranjan Dixit, 5/17, Vikas Khand, Gomti Nagar, Lucknow.	Uttar Pradesh	UDAI PRATAP SINGH Jt. Secy.
20.	Shri Harinder Singh Dhillon, Farm Naya Gaon Gumsani, Tehsil Bazpur, Distt. Udham Singh Nagar, Uttaranchal-262401.	Uttaranchal	The 23rd January 2009
21.	Shri Akhilesh Kumar Agarwal, M/s. Rajshree Enterprises, Sangeeta Apartment, LIG Colony Road, Singrauli-486889, M.P.	Madhya Pradesh	RESOLUTION
22.	Shri Sashi Bhushan Shukla (Sholay), C/o Shri S. Balasubramanian, 5, Yamuna TSN Apartments, Trichy Road, Coimbatore-641005.	Tamil Nadu	Subject : Constitution of Steel Consumer's Council of Ministry of Steel—Regarding.

## ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumer's Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

UDAI PRATAP SINGH  
Jt. Secy

## ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumer's Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

UDAI PRATAP SINGH  
Jt. Secy.



The 2nd February 2009

### RESOLUTION

Subject : Constitution of Steel Consumer's Council of Ministry of Steel—Regarding.

No. 5(3)/2004-D-I(.).—In continuation of Ministry of Steel Resolutions of even number dated 24.03.2006, 24.08.2007 and 12.09.2008, Shri G. Rajendran, Resident of Melanikuzi Post, Udaiyar Palayam Taluk, Ariyalur District-612903, Tamil Nadu is hereby nominated as Member to the Steel Consumer's Council of Ministry of Steel from Tamil Nadu under Para. 7 of the Ministry of Steel Resolution of even number dated 24th March, 2006.

### ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumer's Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

UDAI PRATAP SINGH  
Jt. Secy.

The 4th February 2009

### RESOLUTION

Subject : Constitution of Steel Consumer's Council of Ministry of Steel—Regarding.

No. 5(3)/2004-D-I(.).—In continuation of Ministry of Steel Resolutions of even number dated 24-03-2006, 24-08-2007 and 12-09-2008, Ms. Parmar Kuverben Mulajibhai, Resident of 64, Ashwamegh Tenaments, opposite Sonaria Block, General Hospital Road, Rakhial, Ahmedabad-380021 is hereby nominated as Member to the Steel Consumer's Council of Ministry of Steel from Gujarat vice Shri Bipul Kumar A. Singh, 201, Shree Kirshna Chamber, Chound Colony, G.I.D.C. Vapi, Distt. Valsad, Gujarat-396195 under Para-7 of the Ministry of Steel Resolution of even number dated 24th March, 2006.

### ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning

Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumer's Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

UDAI PRATAP SINGH  
Jt. Secy.

The 16th February 2009

### RESOLUTION

Subject : Constitution of Steel Consumer's Council of Ministry of Steel—Regarding.

No. 5(3)/2004-D-I(.).—In continuation of Ministry of Steel Resolutions of even number dated 24-03-2006, 24-08-2007 and 12-09-2008, Shri G. Ramesh Gupta, Resident of 12-12-6A, Sharda Library Street, Anakapali Visakhapatnam-531001 who was nominated as Member to the Steel Consumer's Council of Ministry of Steel from Andhra Pradesh vide Ministry of Steel Resolution of even number dated 25 June, 2008 shall continue to be a member of the Steel Consumer's Council in partial modification of Ministry of Steel Resolution of even number dated 23rd December, 2008.

### ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumer's Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

UDAI PRATAP SINGH  
Jt. Secy.

The 18th February 2009

### RESOLUTION

Subject : Constitution of Steel Consumer's Council of Ministry of Steel—Regarding.

No. 5(3)/2004-D-I(.).—In continuation of Ministry of Steel Resolutions of even number dated 24-03-2006, 24-08-2007 and 12-09-2008, the following persons are hereby nominated as Member to the Steel Consumer's Council of Ministry of Steel to represent the States mentioned against their names

under Para-7 of the Ministry of Steel Resolution of even number dated 24th March, 2006 :—

Sl. No.	Name and address of the nominated member(s)	States
1.	Shri Ashok Goenka, S/o. Late Shri Shanker Prasad Goenka, Resident of Goenka Bhawan, Station Road, Katni, Distt Katni, Madhya Pradesh.	Madhya Pradesh
2.	Shri Jagtar Singh, Son of Shri Laxman Singh, Resident of Vill. Kaniah Khurd, P.O. Kaniah Kahan, Teh. Shahkot, Distt. Jalandhar, Punjab.	Punjab

#### ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumer's Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

UDAI PRATAP SINGH  
Jt. Secy.

#### RESOLUTION

Subject : Constitution of Steel Consumer's Council of Ministry of Steel—Regarding.

No. 5(3)/2004-D-I(.)—In continuation of Ministry of Steel Resolutions of even number dated 24-03-2006, 24-08-2007 and 12-09-2008, Shri Syed Taher Hussain, Son of Shri Syed Jaffar Hussain, Resident of H. No. 1-7-138/2, Mushreebad, Hyderabad is hereby nominated as Member to the Steel Consumer's Council of Ministry of Steel from Andhra Pradesh vice Shri Kalluri Vijaya Vardhan Naidu, Resident of Plot No. 19, Jawahar Nagar Colony, Prenderghast Road, Secunderabad, Andhra Pradesh under Para-7 of the Ministry of Steel Resolution of even number dated 24th March, 2006.

#### ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumer's Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

UDAI PRATAP SINGH  
Jt. Secy.

New Delhi, the 2nd March 2009

#### RESOLUTION

Subject : Constitution of Steel Consumer's Council of Ministry of Steel—Regarding.

No. 5(3)/2004-D-I(.)—In continuation of Ministry of Steel Resolutions of even number dated 24-03-2006, 24-08-2007 and 12-09-2008, the following persons are hereby nominated as Member to the Steel Consumer's Council of Ministry of Steel to represent the States/UT mentioned against their names under Para-7 of the Ministry of Steel Resolution of even number dated 24th March, 2006 :—

Sl. No.	Name and address of the nominated member(s)	States/UT
1	2	3
1.	Smt. Sunita Sharma, Gram Post : Itmadi Police Station, Beldaur, Distt. Khagaria (Bihar).	Bihar
2.	Shri Keshav Chauhan, Ashirvad, Vill. & P.O. Chandpur, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (Himachal Pradesh).	Himachal Pradesh
3.	Dr. Anil Awasthi, Health Care Centre, Panchrukhi, Palampur, Kangra (H.P.).	Himachal Pradesh
4.	Shri Sanjay Saraf, Gauram Niwas, Manorama Vihar, Bohri, Jammu (J&K).	J & K
5.	Shri Shiv Kumar, 730/13-B, Main BWS Second Stage, Yalahanka, New Town, Bangalore-560064.	Karnataka
6.	Ms. Reema George, Edacheri Parambil House, Puthupalli, P.O. Kotayam Distt. (Kerala).	Kerala
7.	Shri Baidynath Rajbhar, 291/3/5B, BHEL, Ranipur, Haridwar (Uttarakhand).	Uttarakhand

1	2	3	1	2	3
8.	Shri Basant Lal Goel, Red Greek Apartments, Flat No. 501, West Block, Harbour Park Road, Visakhapatnam-530003 (Andhra Pradesh).	Andhra Pradesh	20.	Shri Debid Lalrosanga, H/c. No. E-98/A, Near Preypyperian, Change Ramhlun, North Aizol, PIN : 796012.	Mizoram
9.	Shri Deepak Mishra, S/o. Shri Y. B. Mishra, RZ-60, Gali No. 1, Durga Park, New Delhi-45.	Delhi	21.	Shri Rajesh Dham Ji Shah, S/o. Shri Dhamji Shah, R/o. 1803/1804, Rajshree Tower, Royal Complex, Old Goa.	Goa
10.	Shri Rajendra Singh, Uribok, Khikhoisanan, Leikai, Imphal, PIN : 795001.	Manipur	22.	Shri Ibrahim Khan, 108/20, Dilkusa Street, Kolkata-17 (West Bengal).	West Bengal
11.	Shri Thang Khan Gin Neaihte, Chang Road, Simveng, Newlamaka, P.O. Chuchangpur, PIN : 795128.	Manipur	23.	Shri Subrata Mukherjee, 89, Narket Danga, Main Road, Kolkata-54 (West Bengal).	West Bengal
12.	Miss Rina Dutta, C/o. Shri S. P. Deka, Word Street, Ujan Bazar, Gouhati-1, Assam.	Assam	24.	Shri Achumbemo Kikong, Kohima-796001 (Nagaland).	Nagaland
13.	Dr. Samin Aktar, Ujan Bazar-1, Near Idial Pharmaeuj, Tusti Apartment, Gouhati, Ujan Bazar-1, Assam.	Assam	25.	Shri Nakro Aelhuzhapo, Western Angami, Kohima-797001 (Nagaland).	Nagaland
14.	Shri J. P. Rai, Assam Lingie Gram, Gangtok, Sikkim East.	Sikkim	26.	Shri P. K. Rajselvan, R/o. 232, Balamurgan Nagar, Thiruvankapuram, Ponneri-601204 (Tamil Nadu)	Tamil Nadu
15.	Shri Rajen Kumar Sunder, Sechps, Gangtok, East Sikkim, Gangtok, Sikkim.	Sikkim	27.	Shri Tony Antony, S/o. Shri M. A. Antony, 6/A, St. George Towers, Palarivattom, Cochin-682025, Kerala.	Kerala
16.	Shri H-Bob Lyngdoh, Dmthring House, Nongkhyriem, Norgthymmai, Silong-14.	Meghalaya	<p style="text-align: center;">ORDER</p> <p>Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumer's Council.</p> <p>2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.</p> <p style="text-align: right;">M.K. ROY Dy. Secy.</p>		
17.	Shri Shalman Lyngdoh, S/o. Late E. Marngar, Lumsobra, Goralamp, Laipamkhras, Silong-3, Meghalaya.	Meghalaya			
18.	Shri Tasso Gyuth, C/o. M/s. S. K. Enterprises, Zero Point, Itanagar, Arunachal Pradesh.	Arunachal Pradesh			
19.	Shri R. Lalgulina, Puikual North, Near Roia Memorial High School, Aizol-796001.	Mizoram			

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

## (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 26th June 2008

No. 12-7/2006-TS.I.—In exercise of the powers conferred by clause 10(a) (2) of the Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Jabalpur, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement (1). These Rules may be called the Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Jabalpur, (Director) Recruitment Rules, 2007.

(2). These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these Rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Memorandum of Association and Rules" means the Memorandum of Association and Rules of Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Jabalpur;

(b) "Service Rules" means the Service Rules of Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Jabalpur;

(c) "Director" means the Director of Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Jabalpur—appointed by the Central Government under clause 10(a)(2) of Rules of the Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Jabalpur.

3. Method of recruitment and other matters :—The method of recruitment and other matters relating to the post of Director shall be as specified in columns 1 to 10 of the Schedule annexed to these Rules.

4. Disqualification—No person,

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving—Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Other conditions of service—The other conditions of service of the Director for which no specific provisions have been provided in these Rules, shall be regulated in accordance with such Rules, as are from time to time, applicable to Officers of the Central Government Group-A drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.

ASHOK THAKUR  
Additional Secy.

## SCHEDULE

1. Name of the Post	Director
2. Number of post	One
3. Scale of pay	Rs. 25,000/- (fixed)
4. Classification	Not applicable as the post relates to Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Jabalpur, an autonomous Institution under the Government of India, Ministry of Human Resource Development.

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 5.  | Method of recruitment, whether by Direct recruitment or by promotion or deputation | On contract basis.<br>Applications for consideration for appointment on contract basis shall be invited through open advertisement and by inviting nominations from Heads of various Institutions/Organizations.  |
| 6.  | Age limit  | Applicants/nominees should preferably be below the age of 60 years at the time of closing date for applications/nominations. Appointment shall be made on contract basis for a term of 5 years or till the age of 65 years, whichever is earlier.   |
| 7.  | Educational qualifications and experience  | (a) The Director is the Principal executive and academic officer of the Institute. He should have organizing and leadership capabilities besides wide ranging interest in regard to conduct research on different aspects of Information Technology in general and Engineering Design and Manufacturing in Particular. He must have very impressive academic credentials (Ph.D. Degree with first class degree at Bachelors or Master's level with Engineering/Science Background) and administrative record.<br>(b) The candidate must possess academic standing corresponding to a professor.<br>(c) The candidate should preferably not be more than 60 years of age.  |
| 8.  | In case of recruitment by deputation, grades from which it is to be made           | Not applicable  |
| 9.  | Tenure of appointment on Deputation or Contract                                    | Appointment shall be made on contract basis for a term of 5 years or till the age of 65 years, whichever is earlier.  |
| 10. | Composition of the Selection Committee   | Selection shall be made by the Central Government based on a panel of candidates recommended by a Search-cum-selection Committee constituted for this purpose by the Department of Higher Education. The Search-cum-Selection Committee shall consist of the following Members, namely :—<br>(i) Secretary, Department of Higher Education<br>—Chairman<br>(ii) Chairman, Board of Governors of the Institution<br>—Member<br>(iii) Two other Technical Experts/Eminent educationists to be nominated by the Minister of Human Resource Development<br>—Members<br>(iv) Bureau Head (Technical Education), Ministry of Human Resource Development<br>—Convener<br><br>The name/panel suggested by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, then a fresh Search-cum-Selection Committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such Search-cum-Selection Committee shall also consider the names of persons recommended in the first panel. |

No. 12-7/2006-TS.I.—In exercise of the powers conferred by clause 10(a) (2) of the rules of Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Kancheepuram, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement (1). These Rules may be called the Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Kancheepuram, (Director) Recruitment Rules, 2007.
- (2). These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :- In these Rules, unless the context otherwise requires;

- (a) "Memorandum of Association and Rules" means the Memorandum of Association and Rules of Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Kancheepuram;
- (b) "Service Rules" means the Service Rules of Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Kancheepuram;
- (c) "Director" means the Director of Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Kancheepuram—appointed by the Central Government under Rule 10(a)(2) of Rules of Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Kancheepuram.

3. Method of recruitment and other matters :- The method of recruitment and other matters relating to the post of Director shall be as specified in columns 1 to 10 of the Schedule annexed to these Rules.

4. Disqualification—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving—Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Other conditions of Service—The other conditions of service of the Director for which no specific provisions have been provided in these Rules, shall be regulated in accordance with such Rules, as are from time to time, applicable to Officers of the Central Government Group-A drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.

ASHOK THAKUR  
Additional Secy.

#### SCHEDULE

1. Name of the Post	Director
2. Number of post	One
3. Scale of pay	Rs. 25,000/- (fixed)
4. Classification	Not applicable as the post relates to Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Kancheepuram, which is an autonomous Institution under the Government of India, Ministry of Human Resource Development.
5. Method of recruitment, whether by Direct recruitment or by promotion or deputation	On contract basis. Applications for consideration for appointment on contract basis shall be invited through open advertisement and by inviting nominations from Heads of various Institutions/Organizations.
6. Age limit	Applicants/nominees should preferably be below the age of 60 years at the time of closing date for applications/nominations. Appointment shall be made on contract basis for a term of 5 years or till the age of 65 years, whichever is earlier.
7. Educational qualifications and experience	(a) The Director is the Principal Executive and Academic Officer of the Institute. He should have organizing and leadership capabilities besides wide ranging interest in regard to conduct research on different aspects of Information Technology in general and Engineering Design and Manufacturing in particular. He must have very impressive academic credentials (Ph.D. Degree with first class

		degree at Bachelors or Master's level with Engineering/Science Background) and administrative record.
		(b) The candidate must possess academic standing corresponding to a Professor.
		(c) The candidate should preferably not be more than 60 years of age.
8.	In case of recruitment by deputation, grades from which it is to be made	Not applicable
9.	Tenure of appointment on Deputation or Contract	Appointment shall be made on contract basis for a term of 5 years or till the age of 65 years; whichever is earlier.
10.	Composition of the Selection Committee	Selection shall be made by the Central Government based on a panel of candidates recommended by a Search-cum-Selection Committee constituted for this purpose by the Department of Higher Education. The Search-cum-Selection Committee shall consist of the following Members, namely :— (i) Secretary, Department of Higher Education —Chairman (ii) Chairman, Board of Governors of the Institution —Member (iii) Two other Technical Experts/Eminent Educationists to be nominated by the Minister of Human Resource Development. —Member (iv) Bureau Head (Technical Education), Ministry of Human Resource Development. —Convener  The name/panel suggested by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, then a fresh Search-cum-Selection Committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such Search-cum-Selection Committee shall also consider the names of persons recommended in the first panel.

No. 12-7/2006-TS.I.—In exercise of the powers conferred by Rule 10(a) (1) of the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement (1). These Rules may be called the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata (Director) Recruitment Rules, 2007.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these Rules, unless the context otherwise requires;

- (a) "Memorandum of Association and Rules" means the Memorandum of Association and Rules of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata;
- (b) "Service Rules" means the Service Rules of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata;
- (c) "Director" means the Director of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata—appointed by the Central Government under Rule 10(1) (ii) of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata.

3. Method of recruitment and other matters :—The method of recruitment and other matters relating to the post of Director shall be as specified in columns 1 to 10 of the Schedule annexed to these Rules.

## 4. Disqualification—No person,

- (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving—Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Other conditions of service—The other conditions of service of the Director for which no specific provisions have been provided in these Rules, shall be regulated in accordance with such Rules, as are from time to time, applicable to Officers of the Central Government Group-A drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.

ASHOK THAKUR  
Additional Secy.

## SCHEDULE

1. Name of the Post	Director
2. Number of post	One
3. Scale of pay	Rs. 25,000/- (fixed)
4. Classification	Not applicable as the post relates to Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata which is an autonomous Institution under the Government of India, Ministry of Human Resource Development.
5. Method of recruitment, whether by Direct recruitment or by promotion or deputation	On contract basis. Applications for consideration for appointment on contract basis shall be invited through open advertisement and by inviting nominations from Heads of various Institutions/Organizations.
6. Age limit	Applicants/Nominees should preferably be below the age of 60 years at the time of closing date for applications/nominations.
7. Educational qualifications and experience	Director is the Principal Academic and Executive Officer of the Institute. He is expected to be an eminent person who will provide leadership for research and must have administrative and teaching experience, preferably possessing the qualifications of a Professor.
8. In case of recruitment by deputation, grades from which it is to be made	Not applicable
9. Tenure of appointment on Deputation or Contract	The Director shall be appointed by the Central Government for a tenure of five years or till the age of 65 years, whichever is earlier. A person so appointed shall be eligible for re-appointment for not more than another term.
10. Composition of the Selection Committee	Selection shall be made by the Central Government based on a panel of candidates recommended by a Search-cum-Selection Committee constituted for this purpose by the Department of Higher Education. The Search-cum-Selection Committee shall consist of the following Members, namely :— (i) Minister of Human Resource Development

—Chairman



(ii) Chairman, Board of Governors of the Institution

—Member

(iii) Secretary, Department of Higher Education

—Member

(iv) Two Secretaries of Scientific Departments of the Government of India

—Members

The name panel suggested by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, then a fresh Search-cum-Selection Committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such Search-cum-Selection Committee shall also consider the names of persons recommended in the first panel.

No. 12-7/2006-TS.I.—In exercise of the powers conferred by Rule 12.1 (ii) of the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement- (1). These Rules may be called the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali, (Director) Recruitment Rules, 2007.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these Rules, unless the context otherwise requires;

- (a) "Memorandum of Association and Rules" means the Memorandum of Association and Rules of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali;
- (b) "Service Rules" means the Service Rules of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali;
- (c) "Director" means the Director of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali—appointed by the Central Government under Rule 12.1 (ii) of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali.

3. Method of recruitment and other matters :—The method of recruitment and other matters relating to the post of Director shall be as specified in columns 1 to 10 of the Schedule annexed to these Rules.

4. Disqualification—No person,

- (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving—Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Other conditions of service—The other conditions of service of the Director for which no specific provisions have been provided in these Rules, shall be regulated in accordance with such Rules, as are from time to time, applicable to Officers of the Central Government Group-A drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.

ASHOK THAKUR  
Additional Secy.

## SCHEDULE

1.	Name of the Post	Director
2.	Number of posts	One
3.	Scale of pay	Rs. 26000/- (Fixed)
4.	Classification	Not applicable as the post relates to Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali which is an autonomous Institution under the Government of India, Ministry of Human Resource Development.
5.	Method of recruitment, whether by Direct recruitment or by promotion or deputation	On contract basis. Applications for consideration for appointment on contract basis shall be invited through open advertisement and by inviting nominations from Heads of various Institutions/Organizations.
6.	Age limit	Applicants/Nominees should preferably be below the age of 60 years at the time of closing date for applications/nominations.
7.	Educational qualifications and experience	Director is the Principal Academic and Executive Officer of the Institute. He is expected to be an eminent person who will provide leadership for research and must have administrative and teaching experience, preferably possessing the qualifications of a Professor.
8.	In case of recruitment by deputation, grades from which it is to be made	Not applicable
9.	Tenure of appointment on Deputation or Contract	The Director shall be appointed by the Central Government for a tenure of five years or till the age of 65 years, whichever is earlier. A person so appointed shall be eligible for re-appointment for not more than another term.
10.	Composition of the Selection Committee	Selection shall be made by the Central Government based on a panel of candidates recommended by a Search-cum-Selection Committee constituted for this purpose by the Department of Higher Education. The Search-cum-Selection Committee shall consist of the following Members, namely: - (i) Minister of Human Resource Development —Chairman (ii) Chairman, Board of Governors of the Institution —Member (iii) Secretary, Department of Higher Education —Member (iv) Two Secretaries of Scientific Departments of the Government of India —Members  The name/panel suggested by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, then a fresh Search-cum-Selection Committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such Search-cum-Selection Committee shall also consider the names of persons recommended in the first panel.

No. 12-7/2006-TS.I.—In exercise of the powers conferred by Rule 10(a) (2) of the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement—(1). These Rules may be called the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune, (Director) Recruitment Rules, 2007.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these Rules, unless the context otherwise requires;

(a) “Memorandum of Association and Rules” means the Memorandum of Association and Rules of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune;

(b) “Service Rules” means the Service Rules of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune;

(c) “Director” means the Director of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune—appointed by the Central Government under Rule 10(1) (2) of Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune.

3. Method of recruitment and other matters :—The method of recruitment and other matters relating to the post of Director shall be as specified in columns 1 to 10 of the Schedule annexed to these Rules.

4. Disqualification—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving—Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Other conditions of service—The other conditions of service of the Director for which no specific provisions have been provided in these Rules, shall be regulated in accordance with such Rules, as are from time to time, applicable to Officers of the Central Government Group-A drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.

ASHOK THAKUR  
Additional Secy.

#### SCHEDULE

1. Name of the Post	Director
2. Number of post	One
3. Scale of pay	Rs. 26,000/- (fixed)
4. Classification	Not applicable as the post relates to Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune which is an autonomous Institution under the Government of India, Ministry of Human Resource Development.
5. Method of recruitment, whether by Direct recruitment or by promotion or deputation	On contract basis. Applications for consideration for appointment on contract basis shall be invited through open advertisement and by inviting nominations from Heads of various Institutions/Organizations.
6. Age limit	Applicants/nominees should preferably be below the age of 60 years at the time of closing date for applications/nominations.

7.	Educational qualifications and experience	Director is the Principal Academic and Executive Officer of the Institute. He is expected to be an eminent person who will provide leadership for research and must have administrative and teaching experience, preferably possessing the qualifications of a Professor.
8.	In case of recruitment by deputation, grades from which it is to be made	Not applicable
9.	Tenure of appointment on Deputation or Contract	The Director shall be appointed by the Central Government for a tenure of five years or till the age of 65 years, whichever is earlier. A person so appointed shall be eligible for re-appointment for not more than another term.
10.	Composition of the Selection Committee	<p>Selection shall be made by the Central Government based on a panel of candidates recommended by a Search-cum-Selection Committee constituted for this purpose by the Department of Higher Education. The Search-cum-Selection Committee shall consist of the following Members, namely :—</p> <p>(i) Minister of Human Resource Development —Chairman</p> <p>(ii) Chairman, Board of Governors of the Institution —Member</p> <p>(iii) Secretary, Department of Higher Education —Member</p> <p>(iv) Two Secretaries of Scientific Departments of the Government of India —Members</p> <p>The name/panel suggested by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, then a fresh Search-cum-Selection Committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such Search-cum-Selection Committee shall also consider the names of persons recommended in the first panel.</p>

No. 12-7/2006-TS.I.—In exercise of the powers conferred by Rule 10(a)(1) of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Allahabad, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement—(1). These Rules may be called the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Allahabad (Director) Recruitment Rules, 2007.

(2) These Rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these Rules, unless the context otherwise requires:

- (a) "Memorandum of Association and Rules" means the Memorandum of Association and Rules of Indian Institute of Information Technology (IIIT), Allahabad,
- (b) "Service Rules" means the Service Rules of Indian Institute of Information Technology (IIIT), Allahabad;
- (c) "Director" means the Director of Indian Institute of Information Technology (IIIT), Allahabad—appointed by the Central Government under Rule 10(a)(1) of Indian Institute of Information Technology (IIIT), Allahabad.

3. Method of recruitment and other matters :—The method of recruitment and other matters relating to the post of Director shall be as specified in columns 1 to 10 of the Schedule annexed to these Rules.

4. Disqualification—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving—Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Other conditions of service—The other conditions of service of the Director for which no specific provision have been provided in these Rules, shall be regulated in accordance with such Rules, as are from time to time, applicable to Officers of the Central Government Group-A drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.

ASHOK THAKUR  
Additional Secy.

#### SCHEDULE

1.	Name of the Post	Director
2.	Number of post	One
3.	Scale of pay	Rs. 25,000/- (fixed)
4.	Classification	Not applicable as the post relates to Indian Institute of Information Technology, Allahabad, an autonomous Institution under the Government of India, Ministry of Human Resource Development.
5.	Method of recruitment, whether by Direct recruitment or by promotion or deputation	On contract basis. Applications for consideration for appointment on contract basis shall be invited through open advertisement and by inviting nominations from Heads of various institutions/organizations.
6.	Age limit	Applicants/nominees should preferably below the age of 60 years at the time of closing date for applications/nominations. Appointment shall be made on contract basis for a term of 5 years or till the age of 65 years whichever is earlier.
7.	Educational qualifications and experience	(a) The Director is the Principal Executive and Academic Officer of the Institute. He should have organizing and leadership capabilities besides wide ranging interest in Information Technology and Management Education. He must have very impressive academic credentials (Ph.D Degree with first class degree at Bachelors or Master's level with Engineering/Science Background) and administrative record.  (b) The candidate must possess academic standing corresponding to a professor.  (c) The candidate should preferably not be more than 60 years of age.

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 8.  | In case of recruitment by deputation, grades from which it is to be made | Not applicable  |
| 9.  | Tenure of appointment on Deputation or Contract                          | Appointment shall be made on contract basis for a term of 5 years or till the age of 65 years, whichever is earlier.  |
| 10. | Composition of the Selection Committee                                   | <p>Selection shall be made by the Central Government based on a panel of candidates recommended by a Search-cum-Selection Committee constituted for this purpose by the Department of Higher Education. The Search-cum-Selection Committee shall consist of the following Members, namely : -</p> <p>(i) Secretary, Department of Higher Education<br/>—Chairman</p> <p>(ii) Chairman, Board of Governors of the Institution<br/>—Member</p> <p>(iii) Two other technical experts/ eminent educationists to be nominated by the Minister of Human Resource Development<br/>—Members</p> <p>(iv) Bureau Head (Technical Education), Ministry of Human Resource Development.<br/>—Convener</p> <p>The name/panel suggested by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, then a fresh Search-cum-Selection Committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such Search-cum-Selection Committee shall also consider the names of persons recommended in the first panel.</p> |

No. 12-7/2006-TS.I.—In exercise of the powers conferred by Rule 10(a) (2) of the Atal Bihari Vajpayee—Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement (1). These Rules may be called the Atal Bihari Vajpayee—Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior (Director) Recruitment Rules, 2007.

(2) These Rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these Rules, unless the context otherwise requires,

- (a) "Memorandum of Association and Rules" means the Memorandum of Association and Rules of Atal Bihari Vajpayee—Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior.
- (b) "Service Rules" means the Service Rules of Atal Bihari Vajpayee—Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior;
- (c) "Director" means the Director of Atal Bihari Vajpayee—Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior—appointed by the Central Government under Rule 10(a)(2) of Atal Bihari Vajpayee—Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior.

3. Method of recruitment and other matters :—The method of recruitment and other matters relating to the post of Director shall be as specified in columns 1 to 10 of the Schedule annexed to these Rules.

4. Disqualification :—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving—Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Other conditions of service—The other conditions of service of the Director for which no specific provisions have been provided in these Rules, shall be regulated in accordance with such Rules, as are from time to time, applicable to Officers of the Central Government Group-A drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.

ASHOK THAKUR  
Additional Secy.

#### SCHEDULE

1.	Name of the Post	Director
2.	Number of post	One
3.	Scale of pay	Rs. 25,000/- (fixed)
4.	Classification	Not applicable as the post relates to Atal Bihari Vajpayee—Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior which is an autonomous Institution under the Government of India, Ministry of Human Resource Development.
5.	Method of recruitment, whether by Direct recruitment or by promotion or deputation	On contract basis. Applications for consideration for appointment on contract basis shall be invited through open advertisement and by inviting nominations from Heads of various institutions/organizations.
6.	Age limit	Applicants/nominees should preferably be below the age of 60 years at the time of closing date for applications/nominations. Appointment shall be made on contract basis for a term of 5 years or till the age of 65 years whichever is earlier.
7.	Educational qualifications and experience	(a) The Director is the Principal Executive and Academic Officer of the Institute. He should have organizing and leadership capabilities besides wide ranging interest in Information Technology and Management education. He must have very impressive academic credentials (Ph.D Degree with first class degree at Bachelors or Master's level with Engineering/Science Background) and administrative record. (b) The candidate must possess academic standing corresponding to a Professor. (c) The candidate should preferably not be more than 60 years of age.
8.	In case of recruitment by deputation, grades from which it is to be made	Not applicable
9.	Tenure of appointment on Deputation or Contract	Appointment shall be made on contract basis for a term of 5 years or till the age of 65 years, whichever is earlier.
10.	Composition of the Selection Committee	Selection shall be made by the Central Government based on a panel of candidates recommended by a Search-cum-Selection Committee constituted for this purpose by the Department of Higher Education.

The Search-cum-Selection Committee shall consist of the following Members, namely :

(i) Secretary, Department of Higher Education

—Chairman

(ii) Chairman, Board of Governors of the Institution

—Member

(iii) Two other technical experts/eminent educationists to be nominated by the Minister of Human Resource Development

—Members

(iv) Bureau Head (Technical Education), Ministry of Human Resource Development.

—Convener

The name/panel suggested by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, then a fresh Search-cum-Selection Committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such Search-cum-Selection Committee shall also consider the names of persons recommended in the first panel.